

॥ ओ३म् ॥

❀ अथ त्रयोदशाध्यायारम्भः ❀

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्नऽत्रा सुव ॥ १ ॥

य० ३० । ३ ॥

तत्र मयि गृह्णामीत्याद्यस्य वत्सार ऋषिः । अग्निर्देवता । आर्ची पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

मनुष्यैरादिमाऽवस्थायां किं किं कार्यमित्याह ॥

अब तेरहवें अध्याय का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पहिली अवस्था में क्या २ करना चाहिये यह विषय कहा है ॥

मयिं गृह्णाम्यग्ने अग्निं रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ।
मामु देवताः सचन्ताम् ॥ १ ॥

मयिं । गृह्णामि । अग्नें । अग्निम् । रायः । पोषाय । सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजाऽ
त्वाय । सुवीर्यायेति सुवीर्याय । माम् । उइत्युं । देवताः । सचन्ताम् ॥ १ ॥

पदार्थः—(मयि) आत्मनि (गृह्णामि) (अग्ने) (अग्निम्) परमविद्वांसम्
(रायः) विज्ञानादिधनस्य (पोषाय) पुष्टये (सुप्रजास्त्वाय) शोभनाश्च ताः प्रजाः
सुप्रजास्तासां भावाय (सुवीर्याय) आरोग्येण सुधुपराक्रमाय (माम्) (उ) (देवताः)
दिव्या विद्वांसो गुणा वा (सचन्ताम्) समवयन्तु ॥ १ ॥

अन्वयः—हे कुमार, कुमार्थ्यश्च ! यथाऽहमग्ने मयि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय
सुवीर्याग्निं गृह्णामि येन मामु देवताः सचन्तां तथा यूयमपि कुरुत ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । मनुष्याणामिदं समुचितमस्ति ब्रह्मचर्य-
कुमारावस्थायां वेदाद्यध्ययनेन पदार्थविद्या ब्रह्मकर्म ब्रह्मोपासनां ब्रह्मज्ञानं स्वीकुर्युर्येन
दिव्यान् गुणानात्तान् विदुषश्च प्राप्योत्तमश्रीप्रजापराक्रमान् प्राप्नुयुरिति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे कुमार वा कुमारियो ! जैसे मैं (अग्ने) पहिले (मयि) मुझ में (रायः) विज्ञान
आदि धन के (पोषाय) पुष्टि (सुप्रजास्त्वाय) सुन्दर प्रजा होने के लिये और (सुवीर्याय) रोगरहित
सुन्दर पराक्रम होने के अर्थ (अग्निम्) उत्तम विद्वान् को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ जिस से
(माम्) मुझ को (उ) ही (देवताः) उत्तम विद्वान् वा उत्तम गुण (सचन्ताम्) मिलें वैसे
तुम लोग भी करो ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को यह उचित है कि ब्रह्मचर्ययुक्त कुमारावस्था में वेदादि शास्त्रों के पढ़ने से पदार्थविद्या उत्तम कर्म और ईश्वर की उपासना तथा ब्रह्मज्ञान को स्वीकार करें। जिस से श्रेष्ठ गुण और आस विद्वानों को प्राप्त होके उत्तम धन सन्तानों और पराक्रम को प्राप्त हों ॥ १ ॥

अपां पृष्ठमित्यस्य वत्सार ऋषिः । अग्निदेवता । विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ परमेश्वरोपासनाविषयमाह ॥

अब परमेश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अपां पृष्ठमसिं योनिर्ऋग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम् । वर्धमानो
महान् २ऽआ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिष्णा प्रथस्व ॥ २ ॥

अपाम् । पृष्ठम् । असि । योनिः । ऋग्नेः । समुद्रम् । अभितः । पिन्वमानम् ।
वर्धमानः । महान् । आ । च । पुष्करे । दिवः । मात्रया । वरिष्णा । प्रथस्व ॥ २ ॥

पदार्थः—(अपाम्) व्यापकानां प्राणानां जलानां वा (पृष्ठम्) अधिकरणम्
(असि) (योनिः) कारणम् (ऋग्नेः) विद्युदादेः (समुद्रम्) अन्तरिक्षमिव सागरम्
(अभितः) सर्वतः (पिन्वमानम्) सिञ्चमानम् (वर्धमानः) सर्वथोन्कृष्टः (महान्)
सर्वेभ्यो वरीयान् सर्वैः पूज्यश्च (आ) (च) (पुष्करे) अन्तरिक्षे । पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम० ॥
निघं० १ । ३ ॥ (दिवः) द्योतमानस्य (मात्रया) यया सर्वं मिमीते (वरिष्णा) अतिशये-
नोरुर्बहुस्तेन व्यापकत्वेन (प्रथस्व) प्रख्यातो भव ॥ २ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यस्त्वमभितोऽपां पृष्ठं समुद्रं पिन्वमानमग्नेर्योनिर्दिवो
मात्रया पुष्करे वर्धमानो महान् आसि सोऽस्मासु वरिष्णा प्रथस्व ॥ २ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्यत् सच्चिदानन्दस्वरूपमखिलस्य जगतो निर्मातृ सर्वत्राभिध्याप्तं
सर्वेभ्यो वरं सर्वशक्तिमद् ब्रह्मैवोपास्य सकलविद्याः प्राप्यन्ते तत् कथं न सेवितव्यं
स्यात् ॥ २ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् पुरुष ! जो तू (अभितः) सब ओर से (अपाम्) सर्वत्रव्यापक परमेश्वर
आकाश दिशा बिजुली और प्राणों वा जलों के (पृष्ठम्) अधिकरण (समुद्रम्) आकाश के समान
सागर (पिन्वमानम्) सींचते हुए समुद्र को (ऋग्नेः) बिजुली आदि अग्नि के (योनिः) कारण
(दिवः) प्रकाशित पदार्थों का (मात्रया) निर्माण करने वाली बुद्धि से (पुष्करे) हृदयरूप अन्तरिक्ष में
(वर्धमानः) उन्नति को प्राप्त हुए (च) और (महान्) सब श्रेष्ठ वा सब के पूज्य (असि) हो सो
आप हमारे लिये (वरिष्णा) व्यापकशक्ति से (आ, प्रथस्व) प्रसिद्ध हूजिये ॥ २ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को जिस सत्, चित् और आनन्दस्वरूप, सब जगत् का रचने वाला,
सर्वत्र व्यापक, सबसे उत्तम और सर्वशक्तिमान् ब्रह्म की उपासना से सम्पूर्ण विद्यादि अनन्त गुण प्राप्त
होते हैं उसका सेवन क्यों न करना चाहिये ॥ २ ॥

ब्रह्म जज्ञानमित्यस्य वत्सार ऋषिः । आदित्यो देवता । आर्षीं त्रिष्टुच्छन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

किं स्वरूपं ब्रह्म जनैरुपास्यमित्याह ॥

मनुष्यों को किस स्वरूप वाला ब्रह्म उपासना के योग्य है
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमितः सुरुचो वेनऽत्रावः । स
बुध्न्याऽउपमाऽअस्य विष्टाः सतश्च योनिमसंतश्च विवः ॥ ३ ॥

ब्रह्म । जज्ञानम् । प्रथमम् । पुरस्तात् । वि । सीमितः । सुरुच इति सुरुचः ।
वेनः । आवारित्यावः । सः । बुध्न्याः । उपमा इत्युपमाः । अस्य । विष्टाः । विस्था
इति विस्थाः । सतः । च । योनिम् । असतः । च । वि । वरिति वः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(ब्रह्म) सर्वेभ्यो बृहत् (जज्ञानम्) सर्वस्य जनकं विज्ञातृ (प्रथमम्)
विस्तृतं विस्तारयितृ (पुरस्तात्) सृष्ट्यादौ (वि) (सीमितः) सीमातो मर्यादातः
(सुरुचः) सुप्रकाशमानः सुष्टुरुच्चिविषयश्च (वेनः) कमनीयः । वेनतीति कान्तिकर्मा० ॥
निघ० २ । ६ ॥ (आवः) आवृण्वन्ति स्वव्याप्त्याच्छादयन्ति ताः (सः) (बुध्न्याः) बुध्ने
जलसंबन्धेऽन्तरिक्षे भवाः सूर्यचन्द्रपृथिवीतारकादयो लोकाः (उपमाः) उपमिमते
याभिस्ताः (अस्य) जगदीश्वरस्य (विष्टाः) या विविधेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ताः (सतः)
विद्यमानस्य व्यक्तस्य (च) अव्यक्तस्य (योनिम्) स्थानमाकाशम् (असतः)
अविद्यमानस्यादृश्यस्याव्यक्तस्य कारणस्य (च) महत्तत्त्वादेः (विवः) विवृणोति । अत्र
मंत्रे घसेति च्लेर्लुगडभावश्च ॥ ३ ॥

अत्राह यास्कमुनिः—विसीमितः सुरुचो वेन आवारिति च व्यवृणोत्सर्वत आदित्यः सुरुच
आदित्यरश्मयः सुरुचनादपि वासीमित्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत पञ्चमीकर्माणां सीमः सीमितः सीमातो
मर्यादातः सीमा मर्यादा विप्रीव्यति देशाविति ॥ निरु० १ । ७ ॥

अन्वयः—यजज्ञानं प्रथमं ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यास्य बुध्न्या विष्टा उपमाः
सन्ति स सर्वभावः स विसीमितः सतश्चासतश्च योनिं विद्यस्तःसर्वैरुपासनीयम् ॥ ३ ॥

भावार्थः—यस्य ब्रह्मणो विज्ञानाय प्रसिद्धाऽप्रसिद्धलोका दृष्टान्ताः सन्ति
यत्सर्वत्राभिव्याप्तं सत्सर्वमावृणोति सर्वं विकाशयति सुनियमेन स्वस्वकक्षायां विचालयति
तदेवान्तर्यामि ब्रह्म सर्वैर्मनुष्यैरुपास्यं नातो पृथग्वस्तु भजनीयम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—जो (पुरस्तात्) सृष्टि की आदि में (जज्ञानम्) सब का उत्पादक और ज्ञाता
(प्रथमम्) विस्तारयुक्त और विस्तारकर्ता (ब्रह्म) सब से बड़ा जो (सुरुचः) सुन्दर प्रकाशयुक्त और
सुन्दर रश्मि का विषय (वेनः) ग्रहण के योग्य जिस (अस्य) इस के (बुध्न्याः) जलसंबन्धी
आकाश में वर्तमान सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी और नक्षत्र आदि (विष्टाः) विविध स्थानों में स्थित

(उपमाः) ईश्वर ज्ञान के दृष्टान्त लोक हैं उन सब को (सः) वह (आवः) अपनी व्याप्ति से आच्छादन करता है वह ईश्वर (विस्मीतः) मर्यादा से (सतः) विद्यमान देखने योग्य (च) और (असतः) अव्यक्त (च) और कारण के (योनिम्) आकाशरूप स्थान को (विवः) ग्रहण करता है उसी ब्रह्म की उपासना सब लोगों को नित्य अवश्य करनी चाहिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—जिस ब्रह्म के जानने के लिये प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सब लोक दृष्टान्त हैं जो सर्वत्र व्याप्त हुआ सब का आवरण और सभा का प्रकाश करता है और सुन्दर नियम के साथ अपनी २ कक्षा में सब लोकों को रखता है वही अन्तर्यामी परमात्मा सब मनुष्यों के निरन्तर उपासना के योग्य है इस से अन्य कोई पदार्थ सेवने योग्य नहीं ॥ ३ ॥

हिरण्यगर्भ इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । आर्षी त्रिष्टुब्धन्दः ।
धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तत् कीदृशमित्याह ॥

फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत् । स
दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः । सम् । अवर्त्तत । अग्रे । भूतस्य । जातः ।
पतिः । एकः । आसीत् । सः । दाधार । पृथिवीम् । द्याम् । उत । इमाम् ।
कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥ ४ ॥

पदार्थः—(हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे मध्ये यस्य सः ।
ज्योतिर्वै हिरण्यम् ॥ शत० ॥ हिरण्यं कस्माद्भियत आयभ्यमानमिति वा हियते जनाब्जनमिति वा
हितरमणं भवतीति वा हर्यैर्देवा स्यात् प्रेप्सावर्मणः ॥ निरु० २ । १० ॥ (सम्) (अवर्त्तत)
(अग्रे) सृष्टेः प्राक् (भूतस्य) उत्पन्नस्य (जातः) जनकः (पतिः) पालकः (एकः)
असहायोऽद्वितीयः (आसीत्) (सः) (दाधार) धृतवान् (पृथिवीम्) प्रकाशरहितं
भूगोलादिकम् (द्याम्) प्रकाशमयं सूर्यादिकम् (उत) (इमाम्) वर्त्तमानां सृष्टिम्
(कस्मै) सुखस्वरूपाय प्रजापतये (देवाय) प्रकाशमानाय (हविषा) आत्मदिसामग्र्या
(विधेम) परिचरेम । विधेमेति परिचरणाकर्मा० ॥ निघं० ३ । ५ ॥ निरुक्तकारमेवमाह—हिरण्य-
गर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्यमयो गर्भोऽस्तेति वा गर्भो यन्मैर्गणत्यर्थे गिरत्यनर्थानिति वा यदाहि स्त्री गुणान्
गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्णन्तेऽथ गर्भो भवति । समभवदग्रेभूतस्य जातः पतिरेको बभूव स धारयति पृथिवीं
दिवं च कस्मै देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातं विधतिर्दानकर्मा० ॥ निरु० १० । २३ ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यथा वयं योऽस्य भूतस्य जातः पतिरेको हिरण्यगर्भोऽग्रे
समवर्त्ततासीत्स इमां सृष्टिं रचयित्वातेऽपि पृथिवीं द्यां दाधार तस्मै कस्मै सुखस्वरूपाय
देवाय परमेश्वराय हविषा विधेम तथा यूयमप्येनं सेवध्वम् ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्याः ! यूयमस्या व्यक्तायाः सृष्टेः प्राक् परमेश्वर एव जागरूक आसीद् येनेमे लोका धृता प्रलय समये भिद्यन्ते तमेवोपारयं मन्यध्वम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो इस (भूतस्य) उत्पन्न हुए संसार का (जातः) रचने और (पतिः) पालन करने हारा (एकः) सहाय की अपेक्षा से रहित (हिरण्यगर्भः) सूर्यादि तेजोमय पदार्थों का आधार (अग्रे) जगत् रचने के पहिले (समवर्त्तत) वर्त्तमान (आसीत्) था (सः) वह (इमाम्) इस संसार को रचके (उत्) और (पृथिवीम्) प्रकाशरहित और (द्याम्) प्रकाशसहित सूर्यादि लोकों को (दाधार) धारण करता हुआ उस (कस्मै) सुखरूप प्रजा पालने वाले (देवाय) प्रकाशमान परमात्मा की (हविषा) आत्मादि सामग्री से (विधेम) सेवा में तत्पर हों। वैसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को योग्य है कि इस प्रसिद्ध सृष्टि के रचने से प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन और जगत् का कारण अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में आकाश के समान एकरस स्थिर था जिसने सब जगत् को रचके धारण किया और अन्य समय में प्रलय करता है उसी परमात्मा को उपासना के योग्य मानो ॥ ४ ॥

द्रप्स इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । ईश्वरो देवता । विराडाषीं त्रिष्टुप्छन्दः ।

गान्धारः स्वरः ॥

पुनः स कीदृश इत्याह ॥

फिर वह कैसा है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वं । समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ ५ ॥

द्रप्सः । चस्कन्द । पृथिवीम् । अनु । याम् । इमम् । च । योनिम् । अनु । यः । च । पूर्वं । समानम् । योनिम् । अनु । संचरन्तमिति सप्तसंचरन्तम् । द्रप्सम् । जुहोमि । अनु । सप्त । होत्राः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(द्रप्सः) हर्ष उक्ताहः । अत्र द्रप्स विमोहनहर्षणयोरित्यत औणादिकः सः किञ्च (चस्कन्द) प्राप्नोति (पृथिवीम्) भूमिम् (अनु) (द्याम्) प्रकाशम् (इमम्) (च) (योनिम्) कारणम् (अनु) (यः) (च) (पूर्वं) पूर्णः (समानम्) (योनिम्) स्थानम् (अनु) (संचरन्तम्) (द्रप्सम्) आनन्दम् (जुहोमि) गृह्णामि (अनु) (सप्त) पञ्च प्राणा मन आत्मा चेति (होत्राः) आदातारः ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यथाहं यस्य सप्त होत्राऽनुग्रहीतारो य इमां पृथिवीं यां योनिं चानु यः पूर्वं द्रप्सो नु चस्कन्द तस्य योनिमनु संचरन्तं समानं द्रप्सं सर्वत्राभिव्याप्तमानन्दमनुजुहोमि तथैनमादत्त ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे मनुष्याः ! यूयं यस्य जगदीश्वरस्य सानन्दं स्वरूपं सर्वत्रोपलभ्यते तत्प्राप्तये योगमभ्यस्यत ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं जिस के (सप्त) पांच प्राण मन और आत्मा ये सात (होत्राः) अनुग्रहण करने हारे (यः) जो (इमाम्) इस (पृथिवीम्) पृथिवी (धाम्) प्रकाश (च) और (योनिम्) कारण के अनुकूल जो (पूर्वः) सम्पूर्ण स्वरूप (द्रप्सः) आनन्द और उत्साह को (अनु) अनुकूलता से (चस्कन्द) प्राप्त होता है उस (योनिम्) स्थान के (अनु) अनुसार (संचरन्तम्) संचारी (समानम्) एक प्रकार के (द्रप्सम्) सर्वत्र अभिव्याप्त आनन्द को मैं (अनुजुहोमि) अनुकूल प्रहण करता हूँ वैसे तुम लोग भी ग्रहण करो ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि जिस जगदीश्वर के आनन्द और स्वरूप का सर्वत्र लाभ होता है उस की प्राप्ति के लिये योगाभ्यास करो ॥ ५ ॥

नमोऽस्त्वित्यस्य हिरण्यगर्भं ऋषिर्देवता च । भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

मनुष्यैरत्र कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

मनुष्यों को संसार में कैसे वर्तना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ६ ॥

नमः । अस्तु । सर्पेभ्यः । ये । के । च । पृथिवीम् । अनु । ये । अन्तरिक्षे । ये । दिवि । तेभ्यः । सर्पेभ्यः । नमः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(नमः) अन्नम् । नम इत्यन्ननाम० ॥ निघं० २ । ७ ॥ (अस्तु) (सर्पेभ्यः) ये सर्पन्ति गच्छन्ति ते लोकास्तेभ्यः । इमे वै लोकाः सर्पास्तेहानेन सर्वेण सर्पन्ति ॥ शत० ७ । ३ । १ । २५ ॥ (ये) (के) (च) (पृथिवीम्) भूमिम् (अनु) (ये) (अन्तरिक्षे) आकाशे (ये) (दिवि) सूर्यादिलोके (तेभ्यः) (सर्पेभ्यः) प्राणिभ्यः (नमः) अन्नम् ॥ ६ ॥

अन्वयः—ये के चात्र सर्पाः सन्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमोऽस्तु । येऽन्तरिक्षे ये दिवि ये च पृथिवीमनुसर्पन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो नमोस्तु ॥ ६ ॥

भावार्थः—यावन्त इमे लोका दृश्यन्ते ये च न दृश्यन्ते ते सर्वे स्वस्वकक्षायामीश्वरेण नियताः सन्त आकाशे भ्रमन्ति तेषु सर्वेषु लोकेषु ये प्राणिनश्चलन्ति तदर्थमपीश्वरेण रक्षितं यत एतेषां जीवनं भवति यूयं विजानीत ॥ ६ ॥

पदार्थः—जो (के) कोई इस जगत् में लोक लोकान्तर और प्राणी हैं (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः) लोको के जीवों के लिये (नमः) अन्न (अस्तु) हो (ये) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (ये) जो (दिवि) प्रकाशमान सूर्य आदि लोको में (च) और (ये) जो (पृथिवीम्) भूमि के (अनु) ऊपर चलते हैं उन (सर्पेभ्यः) प्राणियों के लिये (नमः) अन्न प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जितने लोक दीख पड़ते हैं और जो नहीं दीख पड़ते हैं वे सब अपनी २ कक्षा में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्ग में घूमते हैं उन सबों में जो प्राणी चलते हैं उन के लिये अन्न भी ईश्वर ने रचा है कि जिस से इन सब का जीवन होता है इस बात को तुम लोग जानो ॥ ६ ॥

या इषव इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । स एव देवता च । अनुष्टुप्छन्दः ।
गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तैः कथं भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥

फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

याऽइषवो यातुधानानां ये वा वनस्पतींश्शरन्तु । ये वाऽवृष्टेषु
शरन्ते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७ ॥

याः । इषवः । यातुधानानामिति यातुधानानाम् । ये । वा । वनस्पतीन् ।
अनु । ये । वा । अवृष्टेषु । शरन्ते । तेभ्यः । सर्पेभ्यः । नमः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(याः) (इषवः) गतयः (यातुधानानाम्) ये यान्ति परपदार्थान्
दधति तेषाम् (ये) (वा) (वनस्पतीन्) वटादीन् (अनु) (ये) (वा) (अवृष्टेषु)
अपरिभाषितेषु मार्गेषु (शरन्ते) (तेभ्यः) (सर्पेभ्यः) (नमः) वज्रम् ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यूयं या यातुधानानामिषवो ये वा वनस्पतीननुवर्तन्ते ये
वाऽवृष्टेषु शरन्ते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः प्रक्षिपत ॥ ७ ॥

भावार्थः—मनुष्या ये मार्गेषु वनेषूत्कोचका दिवसे एकान्ते स्वपन्ति तान्
दस्यूज्ञागांश्च शस्त्रौषधादिना निवारयन्तु ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग (याः) जो (यातुधानानाम्) पराये पदार्थों को प्राप्त हो के
धारण करने वाले जनों की (इषवः) गति हैं (वा) अथवा (ये) जो (वनस्पतीन्) वट आदि
वनस्पतियों के (अनु) आश्रित रहते हैं और (ये) जो (वा) अथवा (अवृष्टेषु) गुप्तमार्गों में (शरन्ते)
सोते हैं (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः) चञ्चल दुष्ट प्राणियों के लिये (नमः) वज्र चलाओ ॥ ७ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जो मार्गों और वनों में उचके दुष्ट प्राणी एकान्त में दिन के
समय सोते हैं उन डाकुओं और सर्पों को शस्त्र, औषधि आदि से निवारण करें ॥ ७ ॥

ये वामीत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । सूर्यो देवता । निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः कण्टकाः कथं बाधनीया इत्याह ॥

फिर मनुष्यों को कंटक और दुष्ट प्राणी कैसे हटाने चाहियें
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । येषामप्सु
सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ८ ॥

ये । वा । अमीऽइत्यमी । रोचने । दिवः । ये । वा । सूर्यस्य । रश्मिषु ।
येषाम् । अप्स्वित्यप्सु । सदः । कृतम् । तेभ्यः । सर्पेभ्यः । नमः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(ये) (वा) (अमी) (रोचने) दीप्तौ (दिवः) विद्युतः (ये) (वा)
(सूर्यस्य) (रश्मिषु) (येषाम्) (अप्सु) (सदः) सदनम् (कृतम्) निष्पन्नम्
(तेभ्यः) (सर्पेभ्यः) दुष्टप्राणिभ्यः (नमः) वज्रम् ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! येऽमी दिवो रोचने ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषां वाप्सु
सदस्कृतमस्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमो दत्त ॥ ८ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्ये जलध्वन्तरिक्षे सर्पा निवसन्ति ते वज्रप्रहारेण
निवर्त्तनीयाः ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (ये) जो (अमी) वे परोक्ष में रहने वाले (दिवः) बिजुली के
(रोचने) प्रकाश में (वा) अथवा (ये) जो (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मिषु) किरणों में (वा) अथवा
(येषाम्) जिनका (अप्सु) जलों में (सदः) स्थान (कृतम्) बना है (तेभ्यः) उन (सर्पेभ्यः)
दुष्ट प्राणियों को (नमः) वज्र से मारो ॥ ८ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जो जलों में आकाश में दुष्ट प्राणी वा सर्प रहते हैं
उन को शस्त्रों से निवृत्त करें ॥ ८ ॥

कृणुष्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निदेवता । भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

राजपुरुषैः कथं शत्रवो बन्धनीया इत्याह ॥

राजपुरुषों को शत्रु कैसे बांधने चाहियें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँऽइभेन ।
तृष्वीमनु प्रसितिं दूणानोऽस्तासि विध्यं रक्षसस्तपिष्टैः ॥ ९ ॥

कृणुष्व । पाजः । प्रसितिमिति प्रऽसितिम् । न । पृथ्वीम् । याहि । राजेवेति
राजाऽइव । अमवानित्यमऽवान् । इभेन । तृष्वीम् । अनु । प्रसितिमिति प्रऽसितिम् ।
दूणानः । अस्ता । अस्ति । विध्यं । रक्षसः । तपिष्टैः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(कृणुष्व) कुरुष्व (पाजः) बलम् । पातेयले जुद् च ॥ ३० ४ । २१० ॥
इत्यसुन् (प्रसितिम्) जालम् । प्रसितिः प्रसयनात्तनुर्वा जालं वा ॥ नि० ६ । १२ ॥ (न) इव
(पृथ्वीम्) भूमिम् (याहि) प्राप्नुहि (राजेव) (अमवान्) बहवः सचिवा विद्यन्ते
यस्य तद्वत् (इभेन) हस्तिना (तृष्वीम्) क्षिप्रगतिम् । तृष्विति क्षिप्रनाम० ॥ निघं० २ । १५ ॥

ततो वोतोगुणवचनादिति ङीष् (अनु) (प्रसितिम्) बन्धनं जालम् (द्रूणानः) हिंसन् (अस्ता) प्रक्षेप्ता (असि) (विध्य) ताडय (रक्षसः) शत्रून् (तपिष्ठैः) अतिशयेन संतापकरैः शस्त्रैः । अयं मन्त्रः नि० ६ । १२ व्याख्यातः ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे सेनापते ! त्वं पाजः कृणुष्व प्रसितिं न पृथ्वीं याहि । यतस्त्वमस्तासि तस्मादिभेनामवान् राजेव तपिष्ठैः प्रसितिं संसाध्य रक्षसश्च द्रूणानस्तृष्वीमनुविध्य ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालङ्कारः । राजवत्सेनापतिः पूर्णं बलं संपाद्यानेकेः पाशैः शत्रून् बध्वा शरादिभिर्विध्वा कारागृहे संस्थाप्य श्रेष्ठान् पालयेत् ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे सेनापते ! आप (पाजः) बल को (कृणुष्व) कीजिये (प्रसितिम्) जाल के (न) समान (पृथ्वीम्) भूमि को (याहि) प्राप्त हूजिये जिससे आप (अस्ता) फेंकने वाले (असि) हैं इस से (इभेन) हाथी के साथ (अमवान्) बहुत वृत्तों वाले (राजेव) राजा के समान (तपिष्ठैः) अत्यन्त दुःखदायी शस्त्रों से (प्रसितिम्) फांसी को सिद्ध कर (रक्षसः) शत्रुओं को (द्रूणानः) मारते हुए (तृष्वीम्) शीघ्र (अनु) सन्मुख होकर (विध्य) ताड़ना कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सेनापति को चाहिये कि राजा के समान पूर्ण बल से युक्त हो अनेक फांसियों से शत्रुओं को बांध उनको वाण आदि शस्त्रों से ताड़ना दे और बन्दीगृह में बन्द करके श्रेष्ठ पुरुषों को पाले ॥ ६ ॥

तव भ्रमास इत्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः स किं कुर्यादित्युपदिश्यते ॥

फिर वह सेनापति क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

तव भ्रमासऽआशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः । तपूँषि
प्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दिदतो विसृज विष्वक् उल्काः ॥ १० ॥

तव । भ्रमासः । आशुयेत्याशुया । पतन्ति । अनु । स्पृश । धृषता ।
शोशुचानः । तपूँषि । अग्ने । जुह्वा । पतङ्गान् । असन्दिदत् इत्यसम्सदितः ।
वि । सृज । विष्वक् । उल्काः ॥ १० ॥

पदार्थः—(तव) (भ्रमासः) भ्रमणशीला वीराः (आशुया) शीघ्रगमनाः । अत्र जसः स्थाने यादेशः (पतन्ति) श्येनवच्छत्रुदले संचरन्ति (अनु) (स्पृश) अनुगतो भ्रम (धृषता) दृढेन सैन्येन (शोशुचानः) भृशं पथिन्नाचरणः (तपूँषि) तापाः (अग्नेः) अग्निरिव वर्त्तमान (जुह्वा) आज्यहवनसाधनया (पतङ्गान्) अश्वान् । पतङ्गा इत्यश्वना० ॥ निघ० १ । १४ ॥ (असन्दिदत्) अखण्डितः (वि) (सृज) निष्पादय (विष्वक्) सर्वतः (उल्काः) विद्युत्पाताः ॥ १० ॥

अन्वयः—हे सेनापतेऽग्ने शोशुचानस्त्वं ये तव भ्रमासो यथा विश्वनाशु-
योल्कास्तथा शत्रुषु पतन्ति तान् धृषताऽनुस्पृश । अखण्डितः सन् जुह्वाम्नेस्तपूषीव
शत्रूणामुपरि सर्वतो विद्युतो विसृज पतङ्गान् सुशिक्षितानश्वान् कुरु ॥ १० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । राजसेनापतिसेनाभृत्यैः परस्परं प्रीत्या
बलं संबध्य वीरान् वर्षयित्वा संयोध्याग्न्याद्यस्त्रैः शतघ्न्यादिभिश्च शत्रूणामुपरि
विद्युद्वृष्टिः कार्या यतः सद्यो विजयः स्यात् ॥ १० ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी सेनापते ! (शोशुचानः) अत्यन्त पवित्र
आचरण करने हारे आप जो (तव) आप के (भ्रमासः) भ्रमणशील वीर पुरुष जैसे (विष्वक्) सब
ओर से (आशुया) शीघ्र चलने हारी (उल्काः) बिजुली की गतियां वैसे (पतन्ति) श्वेनपक्षी के
समान शत्रुओं के दल में तथा शत्रुओं में गिरते हैं उनको (धृषता) दृढ़ सेना से (अनु) अनुकूल
(स्पृश) प्राप्त हूजिये और (असन्दिताः) अखण्डित हुए (जुह्वा) धी के हवन का साधन लपट
अग्नि के (तपूषि) तेज के समान शत्रुओं के ऊपर सब ओर से बिजुली को (विसृज) छोड़िये और
(पतङ्गान्) चोंचों को सुन्दर शिक्षायुक्त कीजिये ॥ १० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति और सेना के भृत्यों को चाहिये
कि आपस में प्रीति के साथ बल बढ़ा वीर पुरुषों को हर्ष दे और सम्यक् युद्ध करा के अग्नि आदि अस्त्रों
और भुसुंडी आदि शस्त्रों से शत्रुओं के ऊपर बिजुली की वृष्टि करें जिस से शीघ्र विजय हो ॥ १० ॥

प्रतिस्पश इत्यस्य त्रामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । निचत् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः स कीदृशो भवेदित्युपदिश्यते ॥

फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवो पायुर्विशोऽस्या अदब्धः ।
यो नो दूरेऽघशंसो योऽअन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरादधर्षीत् ॥ ११ ॥

प्रति । स्पशः । वि । सृज । तूर्णितम इति तूर्णिऽतमः । भव । पायुः ।
विशः । अस्याः । अदब्धः । यः । न । दूर । अघशंस इत्यघशंसः । यः ।
अन्ति । अग्ने । माकिः । ते । व्यथिः । आ । दधर्षीत् ॥ ११ ॥

पदार्थः—(प्रति) (स्पशः) बाधनानि (वि) (सृज) (तूर्णितमः) अतिशयेन
त्वरिता (भव) द्व्यचोऽतस्तिङ् इति दीर्घः (पायुः) रक्तकः (विशः) प्रजायाः (अस्याः)
वर्त्तमानायाः (अदब्धः) अहिंसकः (यः) (नः) अस्माकम् (दूरे) विप्रकृष्टे (अघशंसः)
योऽघं पापं कर्तुं शंसति स स्तेनः (यः) (अन्ति) निकटे (अग्ने) अग्निवच्छत्रुदाहक
(माकिः) निषेधे । अत्र मकि धातोर्बाहुलकादिञ् नुमभावश्च (ते) तव (व्यथिः) व्यथकः
शत्रुः (आ) (दधर्षीत्) धर्षेत् । अत्र वाच्छन्दसीति द्विर्वचनम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! ते तव नोऽस्माकं च यो व्यधिरघशंसो दूरे योऽन्त्यस्ति यथा सोऽस्मान्माकिरादधर्षीत् तं प्रति त्वं तूर्णितमः सन् स्पशो विसृज अस्या विशः पायुरदब्धो भव ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । ये निकटदूरस्थाः प्रजाभ्यो दुःखप्रदा दस्यवः सन्ति तान् राजादयः सामदामदण्डभेदैः सद्यो वशं नीत्वा दयान्यायाभ्यां धार्मिकीः प्रजाः सततं पालयेयुः ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान शत्रुओं के जलाने वाले पुरुष ! (ते) आप का और (नः) हमारा (यः) जो (व्यधिः) व्यथा देने हारा (अघशंसः) पाप करने में प्रवृत्त चोर शत्रुजन (दूरे) दूर तथा (यः) जो (अन्ति) निकट है जैसे वह हम लोगों को (माकिः) नहीं (आ, दधर्षीत्) दुःख देवे उस शत्रु के (प्रति) प्रति आप (तूर्णितमः) शीघ्र दण्डदाता होके (स्पशः) बन्धनों को (विसृज) रचिये और (अस्याः) इस वर्तमान (विशः) प्रजा के (पायुः) रक्षक (अदब्धः) हिंसारहित (भव) हूजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो समीप वा दूर रहने वाले प्रजाओं के दुःखदायी डाकू हैं उनको राजा आदि पुरुष साम, दाम, दण्ड और भेद से शीघ्र वश में लाके दया और न्याय से धर्मयुक्त प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करें ॥ ११ ॥

उदग्र इत्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिगार्षी पङ्क्तिरुच्छन्दः ।

पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः स किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्युमित्राँऽओषतात्तिग्महेते । यो नोऽअरातिःसमिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यत् सं न शुष्कम् ॥ १२ ॥

उत् । अग्ने । तिष्ठ । प्रति । आ । तनुष्व । नि । अमित्रान् । ओषतात् । तिग्महेत इति तिग्मऽहेते । यः । नः । अरातिम् । समिधानेति सम्ऽइधान । चक्रे । नीचा । तम् । धक्षि । अतसम् । न । शुष्कम् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(उत्) (अग्ने) सभाध्यक्ष (तिष्ठ) (प्रति) (आ) (तनुष्व) (नि) (अमित्रान्) धर्मद्वेषु शत्रून् (ओषतात्) दह (तिग्महेते) तिग्मस्तीव्रो हेतिर्वज्रो दण्डो यस्य सः । हेतिरिति वज्रना० ॥ निघं० २ । २० ॥ (यः) (नः) अस्माकम् (अरातिम्) शत्रुम् (समिधान) सम्यक् तेजस्विन् (चक्रे) करोति (नीचा) न्यग्भूतं कृत्वा (तम्) (धक्षि) दह । अत्र विकरणलुक् (अतसम्) काष्ठम् (न) इव (शुष्कम्) अनार्द्रम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! त्वं राजधर्म उत्तिष्ठ धार्मिकान् प्रत्यातनुष्व । हे तिग्महेतेऽमित्रान्योषतात् । हे समिधान ! यो नोऽरातिं चक्रे तं नीचा शुष्कमतसं न धक्षि ॥ १२ ॥

भावार्थः—अप्रोपमालङ्कारः । राजादयः सभ्या धर्मं विनये समाहिता भूत्वा जलमिव मित्रान् शीतयेयुः । अग्निरिव शत्रून् दहेयुः । य उदासीनः स्थित्वाऽस्माकं शत्रुनुत्पादयेत्तं दृढं बन्धं बध्ना निष्करटकं राज्यं कुर्यात् ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजधारी सभा के स्वामी ! आप राजधर्म के बीच (उत्तिष्ठ) उन्नति को प्राप्त हूजिये धर्मोत्सा पुरुषों के (प्रति) लिये (आतनुष्व) सुखों का विस्तार कीजिये । हे (तिग्महेते) तीव्र दृष्ट देने वाले राजपुरुष ! (अमित्रान्) धर्म के द्वेषी शत्रुओं को (योषतात्) निरन्तर जलाइये । हे (समिधान) सम्यक् तेजधारी जन ! (यः) जो (नः) हमारे (अरातिम्) शत्रु को उत्साही (चक्रे) करता है (तम्) उसको (नीचा) नीची दशा में करके (शुष्कम्) सूखे (अतसम्) काष्ठ के (न) समान (धन्धि) जलाइये ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा आदि सभ्यजनों को चाहिये कि धर्म और विनय में समाहित होके जल के समान मित्रों को शीतल करें । अग्नि के समान शत्रुओं को जलावें । जो उदासीन होकर हमारे शत्रुओं को बढ़ावे उसको दृढ़ बन्धनों से बांध के निष्करटक राज्य करें ॥ १२ ॥

ऊर्ध्वो भवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदार्ष्यतिजगती छन्दः ।

निषादः स्वरः ॥

पुनः स कीदृशो भवेदित्याह ॥

फिर वह राजा किस प्रकार का हो इस का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्अग्ने । अथ स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून् । अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वः । भव । प्रति । विध्य । अधि । अस्मत् । आविः । कृणुष्व । दैव्यानि । अग्ने । अथ । स्थिरा । तनुहि । यातुजूनामिति यातुऽजूनाम् । जामिम् । अजामिम् । प्र । मृणीहि । शत्रून् । अग्नेः । त्वा । तेजसा । सादयामि ॥ १३ ॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वः) उन्कृष्टः (भव) (प्रति) (विध्य) ताडय (अधि) (अस्मत्) (आविः) प्राकट्ये (कृणुष्व) (दैव्यानि) देवैर्विद्वद्भिर्निवृत्तानि वस्तूनि (अग्ने) (अथ) (स्थिरा) निश्चलानि (तनुहि) विस्तृणुहि (यातुजूनाम्) ये यांति ये च ज्वन्ते तेषाम् (जामिम्) भोजनयुक्तम् (अजामिम) भोजनरहितं स्थानम् । अत्र उमुधातोर्वपादिभ्य इतीञ् (प्र) (मृणीहि) हिन्धि (शत्रून्) अरीन् (अग्नेः) पावकस्य (त्वा) त्वाम् (तेजसा) प्रकाशेन सह (सादयामि) स्थापयामि ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे अग्ने विद्वन्राजन् ! यतस्त्वमूर्ध्वो भव शत्रून् प्रति विध्यास्मत् स्थिरा दैव्यान्याकृणुष्व । सुखानि तनुहि यातुजूनां जामिमजामिमवतनुहि विनाशय । शत्रून् प्रमृणीहि तस्माद्दहं त्वाग्नेस्तेजसाधिसाधयामि ॥ १३ ॥

भावाथः—मनुष्यां राज्यैश्वर्यं प्राप्योत्तमगुणकर्मस्वभावा भवेयुः प्रजाभ्यो दरिद्रेभ्यश्च सततं सुखं दद्युः । धर्मं स्थिराः सन्तो दुष्टाधर्माचारिणो मनुष्यान् सततं शिक्षयेयुः । सर्वोत्कृष्टं सभापतिं च मन्येरन् ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वान् पुरुष ! जिसलिये आप (ऊर्ध्वः) उत्तम (भव) इजिये धर्म के (प्रति) अनुकूल होके (विध्य) दुष्ट शत्रुओं को ताड़ना दीजिये (अस्मत्) हमारे (स्थिरा) निश्चल (दैव्यानि) विद्वानों के रचे पदार्थों को (आविः) ऽकट (वृणुष्व) कीजिये सुखों को (तनुहि) विस्तारिये (यातुजूनाम्) परपदार्थों को प्राप्त होने और वेग वाले शत्रुजनों के (जामिम्) भोजन के और (अजामिम्) अन्य व्यवहार के स्थान को (अत्र) अन्धे प्रकार विस्तारपूर्वक नष्ट कीजिये और (शत्रून्) शत्रुओं को (प्रमृणीहि) बल के साथ मारिये इसलिये मैं (त्वा) आपको (अग्नेः) अग्नि के (तेजसा) प्रकाश के (अधि) सम्मुख (सादयामि) स्थापन करता हूँ ॥ १३ ॥

भावाथः—मनुष्यों को चाहिये कि राज्य के ऐश्वर्य को पाके उत्तम गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त हों, प्रजाओं और दरिद्रों को निरन्तर सुख दें। दुष्ट अधर्माचारी मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करें और सबसे उत्तम पुरुष को सभापति मानें ॥ १३ ॥

अग्निर्मूर्द्धेत्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता । अग्निगुणदुष्टाहृन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः स कीदृशो भवेदित्याह ॥

फिर वह राजपुरुष कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अग्निर्मूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम् । अपाम् रेतान्सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्वाजसा सादयामि ॥ १४ ॥

अग्निः । मूर्द्धा । दिवः । ककुत् । पतिः । पृथिव्याः । अयम् । अपाम् । रेतान्सि । जिन्वति । इन्द्रस्य । त्वा । अजसा । सादयामि ॥ १४ ॥

पदार्थः—(अग्निः) सूर्यः (मूर्द्धा) सर्वेषां शिर इव (दिवः) प्रकाशयुक्त-स्याकाशस्य मध्ये (ककुत्) महान् । ककुह इति महन्ना० ॥ निर्घ० ३ । ३ ॥ अस्यान्त्यलोपो वर्णव्यत्ययेन हस्य दः (पतिः) पालकः (पृथिव्याः) भूमेः (अयम्) (अपाम्) जलानाम् (रेतान्सि) वीर्याणि (जिन्वति) प्रीणाति तर्पयति (इन्द्रस्य) सूर्यस्य (त्वा) त्वाम् (अजसा) पराक्रमेण (सादयामि) ॥ १४ ॥

अन्वयः—हे राजन् ! यथाऽयमग्निर्दिवः पृथिव्या मूर्द्धा ककुत्पतिरपां रेतान्सि जिन्वति तथा त्वं भव । अहं त्वा त्वामिन्द्रस्यौजसा सह राज्याय सादयामि ॥ १४ ॥

भावाथः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यो मनुष्यः सूर्यवद् गुणकर्मस्वभावो न्यायेन प्रजापालनतत्परो धार्मिको विद्वान् भवेत्तं राजत्वेन सर्वे मनुष्याः स्वीकुर्युः ॥ १४ ॥

पदार्थः—हे राजन् ! जैसे (अयम्) यह (अग्निः) सूर्य (दिवः) प्रकाशयुक्त आकाश के बीच और (पृथिव्याः) भूमि का (मूर्द्धा) सब प्राणियों के शिर के समान उत्तम (ककुत्) सब से

बड़ा (पतिः) सब पदार्थों का रक्षक (अपाम्) जलों के (वीर्योणि) सारों से प्राणियों को (जिन्वति) तृप्त करता है जैसे आप भी हूजिये । मैं (त्वा) आप को (इन्द्रस्य) सूर्य के (अजसा) पराक्रम के साथ राज्य के लिये (साद्यामि) स्थापन करता हूँ ॥ १४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य के समान गुण कर्म और स्वभाव वाला न्याय से प्रजा के पालन में तत्पर धर्मात्मा विद्वान् हो उस को राज्याधिकारी सब लोग मानें ॥ १४ ॥

भुवो यज्ञस्येत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदाषींत्रिष्टुप् छन्दः ।

धैवतः स्वरः ॥

पुनः स कीदृशो भवेदित्याह ॥

फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः ।
दिवि मूर्द्धानं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् ॥ १५ ॥

भुवः । यज्ञस्य । रजसः । च । नेता । यत्र । नियुद्धिरिति नियुत्सभिः ।
सचसे । शिवाभिः । दिवि । मूर्द्धानम् । दधिषे । स्वर्षाम् । स्वःसामिति स्वःसाम् ।
जिह्वाम् । अग्ने । चकृषे । हव्यवाहमिति हव्यऽवाहम् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(भुवः) पृथिव्याः (यज्ञस्य) राजधर्मस्य (रजसः) लोकस्यैश्वर्यस्य वा (च) पश्वादीनाम् (नेता) नयनकर्त्ता (यत्र) राज्ये । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः (नियुद्धिः) वायोर्वेगादिगुणः सह (सचसे) समवैषि (शिवाभिः) कल्याणकारिकाभिर्नीतिभिः (दिवि) न्यायप्रकाशे (मूर्द्धानम्) शिरः (दधिषे) धरसि (स्वर्षाम्) स्वः सुखानि सनन्ति भजन्ति यथा ताम् (जिह्वाम्) जोहवीति यथा तां वाचम् (अग्ने) विद्वन् (चकृषे) करोषि (हव्यवाहम्) हव्यानि होतुं दातुमर्हाणि प्रज्ञानानि यथा ताम् ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे अग्ने विद्वन् ! यथाऽग्निर्नियुद्धिः सह वायु रजसो नेता सन् दिवि मूर्द्धानं धरति तथा यत्र शिवाभिः सह भुवो यज्ञस्य सचसे राज्यं दधिषे हव्यवाहं स्वर्षा जिह्वाञ्चकृषे तत्र सर्वाणि सुखानि वर्द्धन्त इति विजानीहि ॥ १५ ॥

भावार्थः—यस्मिन् राज्ये राजादयः सर्वे धार्मिका मङ्गलचारिणो धर्मेण प्रजाः पालयेयुस्तत्र विद्यासुशिक्षाजानि सुखानि कुतो न वर्द्धेरन् ॥ १५ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् पुरुष ! (यत्र) जिस राज्य में आप जैसे (नियुद्धिः) वेग आदि गुणों के साथ वायु (रजसः) लोकों वा ऐश्वर्य का (नेता) चलाने हारा (दिवि) न्याय के प्रकाश में (मूर्द्धानम्) शिर को धारण करता है जैसे (यत्र) जहाँ (शिवाभिः) कल्याणकारक नीतियों के साथ (भुवः) अपनी पृथिवी के (यज्ञस्य) राजधर्म के पालन करने हारे हो के (सचसे)

संयुक्त होता अच्छे पुरुषों से राज्य को (दधिपे) धारण और (हृद्यवाहम्) देने योग्य विद्वानों की प्राप्ति का हेतु (स्वर्णम्) सुखों का सेवन कराने हारी (जिह्वाम्) अच्छे विषयों की ग्राहक बाणी को (चक्रुषे) करते हो वहां सब सुख बरते हैं यह निश्चित जानिये ॥ १५ ॥

भावार्थ:—जिस राज्य में राजा आदि सब राजपुरुष मंगलाचरण करने हारे धर्मात्मा होके धर्मानुकूल प्रजाओं का पालन करें वहां विद्या और अच्छी शिक्षा से होने वाले सुख क्यों न बरें ॥ १५ ॥

ध्रुवासीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अग्निदेवता । स्वराडाप्यनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह ॥

फिर वह राजपत्नी कैसी होवे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

ध्रुवासिं धरुणास्तृता विश्वकर्मणा । मा त्वा समुद्रऽउद्धधीन्मा
सुपर्णोऽअव्यथमाना पृथिवीं हृंह ॥ १६ ॥

ध्रुवा । असि । धरुणा । आस्तृतेत्यास्तृता । विश्वकर्मणेति विश्वकर्मणा ।
मा । त्वा । समुद्रः । उत् । वधीत् । मा । सुपर्ण इति सुपर्णः । अव्यथमाना ।
पृथिवीम् । हृंह ॥ १६ ॥

पदार्थ:—(ध्रुवा) निष्कम्पा (असि) (धरुणा) विद्याधर्मधर्त्री (आस्तृता)
वखालंकारशुभगुरौः सम्यगाच्छादिता (विश्वकर्मणा) विश्वानि समग्राणि धर्म्यकर्माणि
यस्य पत्युस्तेन (मा) (त्वा) त्वाम् (समुद्रः) समुद्भवन्ति कामुका यस्मिन् व्यवहारे
सः (उत्) (वधीत्) हन्यात् (मा) (सुपर्णः) शोभनानि पर्णानि पालितान्यङ्गानि यस्य
सः (अव्यथमाना) पीडामप्राप्ता (पृथिवीम्) स्वराज्यभूमिम् (हृंह) वर्धय ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे राजपत्नि ! यतो विश्वकर्मणा पत्या सह वर्त्तमानाऽऽस्तृता धरुणा
ध्रुवाऽसि साऽव्यथमाना सती त्वं पृथिवीमुद्धृत्वा त्वा समुद्रो मावधीत् सुपर्णश्च मा
वधीत् ॥ १६ ॥

भावार्थ:—यादृशी राजनीतिविद्यां राजाऽधीतवान् भवेत् तादृशीमेव राज्ञ्यप्य-
धीतवती स्यात् । सदैवोभौ पतिव्रतास्त्रीप्रतौ भूत्वा न्यायेन पालनं कुर्याताम् ।
व्यभिचारकामव्यथारहितौ भूत्वा धर्मेण सन्तानानुत्पाद्य स्त्रीन्यायं स्त्री पुरुषन्यायं
पुरुषश्च कुर्यात् ॥ १६ ॥

पदार्थ:—हे राजा की स्त्री ! जिस कारण (विश्वकर्मणा) सब धर्मयुक्त काम करने वाले
अपने पति के साथ वर्त्तती हुई (आस्तृता) वस्त्र आभूषण और श्रेष्ठ गुणों से ढपी हुई (धरुणा)
विद्या और धर्म की धारणा करने हारी (ध्रुवा) निश्चल (असि) है सो तू (अव्यथमाना) पीडा से
रहित हुई (पृथिवीम्) अपनी राज्यभूमि को (उद्धृत्वा) अच्छे प्रकार बढ़ा (त्वा) तुझ को (समुद्रः)
जार लोगों का व्यवहार (मा) मत (वधीत्) सतावे और (सुपर्णः) सुन्दर रक्षा किये अवयवों से
युक्त तेरा पति (मा) नहीं मारे ॥ १६ ॥

भावार्थः—जैसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो वैसी ही उसकी राणी भी पढ़ी होनी चाहिये सदैव दोनों परस्पर पतिव्रता स्त्रीव्रत हो के न्याय से पालन करें। व्यवहार और काम की व्यथा से रहित होकर धर्मानुकूल पुत्रों को उत्पन्न करके स्त्रियों का स्त्री राणी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करे ॥ १६ ॥

प्रजापतिष्ट्वेत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । अनुष्टुप्छन्दः । गांधारः स्वरः ॥

पुनः पतिस्तां कथं वर्त्तयेदित्याह ॥

फिर राजा अपनी राणी को कैसे वर्त्तवे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमन् । व्यचस्वतीं
प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥ १७ ॥

प्रजापतिरिति प्रजापतिः । त्वा । सादयतु । अपाम् । पृष्ठे । समुद्रस्य ।
एमन् । व्यचस्वतीम् । प्रथस्वतीम् । प्रथस्व । पृथिवी । असि ॥ १७ ॥

पदार्थः—(प्रजापतिः) प्रजायाः स्वामी (त्वा) त्वाम् (सादयतु) स्थापयतु
(अपाम्) जलानाम् (पृष्ठे) उपरि (समुद्रस्य) सागरस्य (एमन्) प्राप्तये स्थाने । अत्र
सप्तम्या लुक् । अत्र एमन्नादिषु छन्दसि पररूपमिति वार्त्तिकेन पररूपम् (व्यचस्वतीम्)
बहु व्यचो व्यञ्जनं विद्यागमनं सत्करणं वा विद्यते यस्यास्ताम् (प्रथस्वतीम्) प्रथाः
प्रख्याता कीर्त्तिर्विद्यते यस्यास्ताम् (प्रथस्व) प्रख्याता भव (पृथिवी) भूमिरिष
सुखप्रदा (असि) ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे विदुषि प्रजापालिके राक्षि ! यथा प्रजापतिः समुद्रस्यापामेमन् पृष्ठे
नौकेव व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं त्वा त्वां सादयतु यतस्त्वं पृथिव्यसि तस्मात् स्त्रीन्यायकरणे
प्रथस्व तथा ते पतिर्भवेत् ॥ १७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । राजपुरुषादयः स्वयं यस्मिन् राजकर्मणि
प्रवर्त्तैरस्तस्मिन् स्वां स्वां स्त्रियं स्थापयेयुः । यः पुरुषः पुरुषाणां न्यायाधिकारे तिष्ठेत्तस्य
स्त्री स्त्रीणां न्यायासने स्थिता भवेत् ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे विदुषि स्त्रि ! जैसे (प्रजापतिः) प्रजा का स्वामी (समुद्रस्य) समुद्र के (अपाम्)
जलों के (एमन्) प्राप्त होने योग्य स्थान के (पृष्ठे) ऊपर नौका के समान (व्यचस्वतीम्) बहुत
विद्या की प्राप्ति और सत्कार से युक्त (प्रथस्वतीम्) प्रशंसित कीर्त्ति वाली (त्वा) तुरू को (सादयतु)
स्थापन करे । जिस कारण तू (पृथिवी) भूमि के समान सुख देने वाली (असि) है इसलिये स्त्रियों
के न्याय करने में (प्रथस्व) प्रसिद्ध हो जैसे तेरा पति पुरुषों का न्याय करे ॥ १७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुष आदि को चाहिये कि आप
जिस २ राजकार्य में प्रवृत्त हों उस २ कार्य में अपनी २ स्त्रियों को भी स्थापन करें जो २ राजपुरुष
जिन २ पुरुषों का न्याय करे उस २ की स्त्री स्त्रियों का न्याय क्रिया करें ॥ १७ ॥

भूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अग्निदेवता । प्रस्तारपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह ॥

फिर वह राणी कैसी हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री ।
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृंह पृथिवीं मा हिंसीः ॥ १८ ॥

भूः । असि । भूमिः । असि । अदितिः । असि । विश्वधाया इति
विश्वधायाः । विश्वस्य । भुवनस्य । धर्त्री । पृथिवीम् । यच्छ । पृथिवीम् ।
दृंह । पृथिवीम् । मा । हिंसीः ॥ १८ ॥

पदार्थः—(भूः) भवतीति भूः (असि) (भूमिः) पृथिवीवत् (असि) (अदितिः)
अखण्डितैश्वर्यमन्तरिक्षमिवाच्छ्रुधा (असि) (विश्वधायाः) या विश्वं सर्वं गृह्णाति
गृहाश्रमी राजव्यवहारं दधाति सा (विश्वस्य) सर्वस्य (भुवनस्य) भवन्ति भूतानि
यस्मिन्नाज्ये तस्य (धर्त्री) धारिका (पृथिवीम्) (यच्छ) निगृहाण (पृथिवीम्)
(दृंह) वर्धय (पृथिवीम्) (मा) (हिंसीः) हिंस्याः ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे राजपत्नि ! यतस्त्वं भूरिवासि तस्मात् पृथिवीं यच्छ । यतस्त्वं
विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री भूमिरिवासि तस्मात् पृथिवीं दृंह । यतस्त्वमदिति-
रिवासि तस्मात् पृथिवीं मा हिंसीः ॥ १८ ॥

भावार्थः—याः राजकुलस्त्रियः पृथिव्यादिवद्वैद्यादिगुणयुक्ताः सन्ति ता एव राज्यं
कर्त्तुमर्हन्ति ॥ १८ ॥

पदार्थः—हे राणी ! जिससे तू (भूः) भूमि के समान (असि) है इस कारण (पृथिवीम्)
पृथिवी को (यच्छ) निरन्तर ग्रहण कर जिसलिये तू (विश्वधायाः) सब गृहाश्रम के और राजसम्बन्धी
व्यवहारों और (विश्वस्य) सब (भुवनस्य) राज्य को (धर्त्री) धारण करने हारी (भूमिः) पृथिवी के
समान (असि) है इसलिये (पृथिवीम्) पृथिवी को (दृंह) बड़ा और जिस कारण तू (अदितिः)
अखण्ड ऐश्वर्य वाले आकाश के समान क्षोभरहित (असि) है इसलिये (पृथिवीम्) भूमि को
(मा) मत (हिंसीः) बिगाड़ ॥ १८ ॥

भावार्थः—जो राजकुल की स्त्री पृथिवी आदि के समान धीरज आदि गुणों से युक्त हो तो
वे ही राज्य करने के योग्य होती हैं ॥ १८ ॥

विश्वस्मा इत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अग्निदेवता । भुरिगतिजगती छन्दः ।
निषादः स्वरः ॥

पुनस्तौ परस्परं कथं वर्त्तेयातामित्याह ॥

फिर वे स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्त्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

विश्वस्मै प्राणायानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय ।
अग्निष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तथा देवतयाङ्गिर-
स्वद् ध्रुवा सीद ॥ १६ ॥

विश्वस्मै । प्राणाय । अपानायेत्यपऽअनाय । व्यानायेति विऽअनाय ।
उदानायेत्युत्ऽअनाय । प्रतिष्ठायै । प्रतिस्थाय इति प्रतिऽस्थायै । चरित्राय ।
अग्निः । त्वा । अभि । पातु । मह्या । स्वस्त्या । छर्दिषा । शन्तमेनेति शम्ऽतमेन ।
तथा । देवतया । अङ्गिरस्वत् । ध्रुवा । सीद ॥ १६ ॥

पदार्थः—(विश्वस्मै) संपूर्णाय (प्राणाय) जीवनहेतवे (अपानाय) दुःख-
निवारणाय (व्यानाय) विविधोत्तमव्यवहाराय (उदानाय) उत्कृष्टाय बलाय (प्रतिष्ठायै)
सत्कृतये (चरित्राय) धर्माचरणाय (अग्निः) विज्ञानवान् पतिः (त्वा) त्वाम् (अभि)
आभिमुख्यतया (पातु) रक्षतु (मह्या) महत्या (स्वस्त्या) प्रापकसुखक्रियया (छर्दिषा)
प्रदीप्तेन (शन्तमेन) अत्यन्तसुखरूपेण कर्मणा (तथा) (देवतया) विवाहितपतिरूपया
सुखप्रदया (अङ्गिरस्वत्) कारणवत् (ध्रुवा) निश्चलस्वरूपा (सीद) अवस्थिता भव ॥ १ ॥

अन्वयः—हे छि ! योऽग्निस्ते पतिर्मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा विश्वस्मै
प्राणायानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय यां त्वाभिपातु सा त्वं तथा देवतया
सहांऽगिरस्वद् ध्रुवा सीद ॥ १६ ॥

भावार्थः—पुरुषाः स्वस्वस्त्रीणां सत्कारसुखाभ्यामव्यभिचारेण च प्रियाचरणं
पालनादिकं च सततं कुर्युः स्त्रियोऽप्येवमेव न स्वस्त्रियं विहायान्यां पुरुषः स्वपुरुषं
विहायान्यं स्त्री च संगच्छेत् । एवं परस्परस्य प्रियाचरणानुभौ सदा वर्त्तयताम् ॥ ६६ ॥

पदार्थः—हे छि ! जो (अग्निः) विज्ञानयुक्त तेरा पति (मह्या) बड़ी (स्वस्त्या) सुख प्राप्त
कराने हारी क्रिया और (छर्दिषा) प्रकाशयुक्त (शन्तमेन) अत्यन्तसुखदायक कर्म के साथ (विश्वस्मै)
सम्पूर्ण (प्राणाय) जीवन के हेतु प्राण (अपानाय) दुःखों की निवृत्ति (व्यानाय) अनेक प्रकार के
उत्तम व्यवहारों की सिद्धि (उदानाय) उत्तम बल (प्रतिष्ठायै) सत्कार और (चरित्राय) धर्म का
आचरण करने के लिये जिस (त्वा) तेरी (अभिपातु) सन्मुख होकर रक्षा करे सो तू (तथा)
उस (देवतया) दिव्यस्वरूप पति के साथ (अङ्गिरस्वत्) जैसे कार्य कारण का सम्बन्ध है वैसे (ध्रुवा)
निश्चल हो के (सीद) प्रतिष्ठायुक्त हो ॥ १६ ॥

भावार्थः—पुरुषों को योग्य है कि अपनी २ स्त्रियों के सत्कार से सुख और व्यभिचार से
रहित होके प्रीतिपूर्वक आचरण और उनकी रक्षा आदि निरन्तर करें और इसी प्रकार स्त्री लोग भी
रहें । अपनी स्त्री को छोड़ अन्य स्त्री की इच्छा न पुरुष और न अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष का
संग स्त्री करे । ऐसे ही आपस में प्रीतिपूर्वक ही दोनों सदा वर्त्ते ॥ १६ ॥

काण्डात्काण्डादित्यस्याऽग्निर्ऋषिः । पत्नी देवता । अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह ॥

फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परिं । एवा नो दूर्वे प्रतनु
सहस्रेण शतेन च ॥ २० ॥

काण्डात्काण्डादिति काण्डात्काण्डात् । प्ररोहन्तीति प्रजोहन्ती । परुषः परुष
इति परुषःपरुषः । परिं । एव । नः । दूर्वे । प्र । तनु । सहस्रेण । शतेन । च ॥ २० ॥

पदार्थः—(काण्डात्काण्डात्) ग्रन्थेग्रन्थेः (प्ररोहन्ती) प्रकृष्टतया वर्द्धमाना
(परुषः परुषः) मर्मणो मर्मणः (परि) सर्वतः (एवा) निपातस्य चेति दीर्घः (नः)
अस्मान् (दूर्वे) दूर्वावद्वर्त्तमाने (प्र) (तनु) विस्तृणुहि (सहस्रेण) असंख्यातेन
(शतेन) अनेकैः (च) ॥ २० ॥

अन्वयः—हे स्त्री ! त्वं यथा सहस्रेण शतेन च काण्डात्काण्डात्परुषः परुषस्परि
प्ररोहन्ती दूर्वावधी वर्त्तते तथैव नोऽस्मान् पुत्रपौत्रैश्वर्यादिभिः प्रतनु ॥ २० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यथा दूर्वावधी रोगप्रणाशिका सुख-
वर्द्धिका सुविस्तीर्णा चिरं स्थायी तथा सती विदुषी स्त्री कुलं शतधा सहस्रधा वर्धयेत्
तथा पुरुषोपि प्रयतेत् ॥ २० ॥

पदार्थः—हे स्त्री ! तू जैसे (सहस्रेण) असंख्यात (च) और (शतेन) बहुत प्रकार के साथ
(काण्डात्काण्डात्) सब अवयवों और (परुषः परुषः) गांठ २ से (परि) सब ओर से (प्ररोहन्ती)
अत्यन्त बढ़ती हुई (दूर्वे) दूर्वा घास होती है वैसे (एव) ही (नः) हम को पुत्र पौत्र और ऐश्वर्य से
(प्रतनु) विस्तृत कर ॥ २० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे दूर्वा ओषधि रोगों का नाश और
सुखों को बढ़ाने वाली सुन्दर विस्तारयुक्त होती हुई बढ़ती है । वैसे ही विद्वान् स्त्री को चाहिये कि बहुत
प्रकार से अपने कुल को बढ़ावे ॥ २० ॥

या शतेनेत्यस्याग्निर्ऋषिः । पत्नी देवता । निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह ॥

फिर वह कैसी हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम
हविषा वयम् ॥ २१ ॥

या । शतेन । प्रतनोषिति प्रतनोषि । सहस्रेण । विरोहसिति विरोहसि ।
तस्याः । ते । देवि । इष्टके । विधेम । हविषा । वयम् ॥ २१ ॥

पदार्थः—(या) (शतेन) असंख्यातेन (प्रतनोषि) (सहस्रेण) असंख्यातेन
(विरोहसि) विविधतया वर्धसे (तस्याः) (ते) तत्र (देवि) देदीप्यमाने (इष्टके)
इष्टकेव शुभैर्गुणैः सुशोभिते (विधेम) परिचरेम (हविषा) होतुमर्हेण (वयम्) ॥ २१ ॥

अन्वयः—हे इष्टके इष्टकावद्दृढांगे देवि स्त्रि ! यथेष्टका शतेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहति तथा या त्वमस्मान् शतेन प्रतनोषि सहस्रेण च विरोहसि तस्यास्ते तव हविषा वयं विधेम त्वां परिचरेम ॥ २१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यथा शतशः सहस्राणीष्टका गृहाकारा भूत्वा सर्वान् सुखयन्ति तथैव याः साध्यः स्त्रियः पुत्रपौत्रभृत्यादिभिः सर्वानानन्दयेयुस्ताः पुरुषाः सततं सत्कुर्युर्नहि सत्पुरुषस्त्रीसमागमेन विना शुभगुणाढधान्यपत्यानि जायेरन् । एवंभूतैः सन्तानैर्विना मातापितृणां कुतः सुखं जायेत ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे (इष्टके) ईंट के समान इढ़ अचयवों से युक्त शुभ गुणों से शोभायमान (देवि) प्रकाशयुक्त स्त्री ! जैसे ईंट सैकड़ों संख्या से मकान आदि का विस्तार और हजारह से बहुत बढ़ा देती है वैसे (या) जो तू हम लोगों को (शतेन) सैकड़ों पुत्र पौत्रादि सम्पत्ति से (प्रतनोषि) विस्तारयुक्त करती और (सहस्रेण) हजारह प्रकार के पदार्थों से (विरोहसि) विविध प्रकार बढ़ाती है (तस्याः) उस (ते) तेरी (हविषा) देने योग्य पदार्थों से (वयम्) हम लोग (विधेम) सेवा करें ॥ २१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सैकड़ों प्रकार से हजारह ईंटें घर रूप बन के सब प्राणियों को सुख देती हैं वैसे जो श्रेष्ठ स्त्री लोग पुत्र पौत्र ऐश्वर्य और भृत्य आदि से सब को आनन्द देवें उनका पुरुष लोग निरन्तर सत्कार करें क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष और स्त्रियों के संग के विना शुभ गुणों से युक्त सन्तान कभी नहीं हो सकते और ऐसे सन्तानों के विना माता पिता को सुख कब मिल सकता है ॥ २१ ॥

यास्त इत्यस्येन्द्राग्नी ऋषी । अग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्युपदिश्यते ॥

फिर वह स्त्री कैसी होवे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

यास्तैऽअग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । ताभिर्नोऽ
अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ २२ ॥

याः । ते । अग्ने । सूर्ये । रुचः । दिवम् । आतन्वन्तीत्यातन्वन्ति ।
रश्मिभिरिति रश्मिभिः । ताभिः । नः । अद्य । सर्वाभिः । रुचे । जनाय ।
नः । कृधि ॥ २२ ॥

पदार्थः—(याः) (ते) तव (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमाने (सूर्ये) अर्के (रुचः)
दीप्तयः (दिवम्) प्रकाशम् (आतन्वन्ति) समन्ताद्विस्तृण्वन्ति (रश्मिभिः) किरणैः
(ताभिः) रुचिभिः (नः) अस्मान् (अद्य) (सर्वाभिः) (रुचे) रुचिकारकाय (जनाय)
प्रसिद्धाय (नः) अस्मान् (कृधि) कुरु । अत्र विकरणलुक् ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे अग्ने विदुष्यध्यापिके स्त्रि ! यास्ते रुचयः सन्ति ताभिः सर्वाभिर्नो यथा
रुचः सूर्ये रश्मिभिर्दिवमातन्वन्ति तथा त्वमातनु अद्य रुचे जनाय नः प्रीतान् कृधि ॥२२॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यथा ब्रह्माण्डे सूर्यस्य दीप्तयः सर्वाणि वस्तूनि प्रकाशय रोचयन्ति तथैव त्रिदुष्यः साध्यः पतिव्रताः स्त्रियः सर्वाणि गृहकर्माणि प्रकाशयन्ति । यत्र स्त्रीपुरुषौ परस्परं प्रीतिमन्तौ स्यातां तत्र सर्वं कल्याणमेव ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजधारिणी पदाने हारी त्रिदुषी स्त्री ! (याः) जो (ते) तेरी रुचि है (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सब रुचियों से युक्त (नः) हम को जैसे (रुचः) दीप्तियां (सूर्ये) सूर्य में (रश्मिभिः) किरणों से (दिवम्) प्रकाश को (आतन्वन्ति) अच्छे प्रकार विस्तारयुक्त करती हैं वैसे तू भी अच्छे प्रकार विस्तृत सुखयुक्त कर और (अद्य) आज (रुचे) रुचि कराने हारे (जनाय) प्रसिद्ध मनुष्य के लिये (नः) हम लोगों को प्रीतियुक्त (कृधि) कर ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य की दीप्ति सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रुचियुक्त करती हैं वैसे ही त्रिदुषी श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां घर के सब कार्यों का प्रकाश करती हैं । जिस कुल में स्त्री और पुरुष आपस में प्रीतियुक्त हों वहां सब विषयों में कल्याण ही होता है ॥ २२ ॥

या वो देवा इत्यस्येन्द्राग्नी ऋषी । बृहस्पतिर्देवता । अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ स्त्रीपुरुषैः कथं विज्ञानं संपाद्यमित्याह ॥

अब स्त्री पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि कैसे करनी चाहिये
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः । इन्द्राग्नी ताभिः
सर्वाभी रुचं नो धत्त बृहस्पते ॥ २३ ॥

याः । वः । देवाः । सूर्ये । रुचः । गोषु । अश्वेषु । याः । रुचः । इन्द्राग्नी ।
ताभिः । सर्वाभिः । रुचम् । नः । धत्त । बृहस्पते ॥ २३ ॥

पदार्थः—(याः) (वः) युष्माकम् (देवाः) विद्वांसः (सूर्ये) सवितरि (रुचः) रुचयः (गोषु) धेनुषु (अश्वेषु) गवादिषु (याः) (रुचः) प्रीतयः (इन्द्राग्नी) विद्युत्सूर्यवदध्यापकोपदेशकौ (ताभिः) (सर्वाभिः) (रुचम्) कामनाम् (नः) अस्माकं मध्ये (धत्त) (बृहस्पते) बृहतां त्रिदुषां पालक ॥ २३ ॥

अन्वयः—हे देवाः ! यूयं या वः सूर्ये रुचो या गोष्वश्वेषु रुचश्चैव रुचः सन्ति ताभिः सर्वाभीरुग्भिर्नो रुचमिन्द्राग्नी इव धत्त । हे बृहस्पते परीक्षक ! भवानस्माकं परीक्षां कुरु ॥ २३ ॥

भावार्थः—यावन्मनुष्याणां विद्वत्सङ्ग ईश्वरेऽस्य सृष्टौ च रुचिः परीक्षा च न जायते तावद्विज्ञानं न वर्द्धते ॥ २३ ॥

पदार्थः—हे (देवाः) विद्वानो ! तुम सब लोग (याः) जो (वः) तुम्हारी (सूर्ये) सूर्य में (रुचः) रुचि और (याः) जो (गोषु) गौओं और (अश्वेषु) घोड़ों आदि में (रुचः) प्रीतियों

समान प्रीति है (ताभिः) उन (सर्वोभिः) सब हृदयों से (नः) हमारे बीच (रुचम्) कामना को (इन्द्राग्नी) बिजुली और सूर्यवत् अध्यापक और उपदेशक जैसे धारण करे वैसे (धत्त) धारण करो । हे (बृहस्पते) पक्षपात छोड़ के परीक्षा करने हारे पूर्णविद्यायुक्त आप (नः) हमारी परीक्षा कीजिये ॥ २३ ॥

भावार्थः - जबतक मनुष्य लोगों की विद्वानों के संग ईश्वर उसकी रचना में हृदि और परीक्षा नहीं होती तबतक विज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता ॥ २३ ॥

विराड्ज्योतिरित्यस्येन्द्राग्नी ऋषी । प्रजापतिर्देवता । निचृद्बृहतीछन्दः ।

ऋषभः स्वरः ॥

दम्पती अन्योऽन्यं कथं वर्तेयातामित्याह ॥

स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

विराड् ज्योतिरिधारयत् स्वराड् ज्योतिरिधारयत् । प्रजापतिष्द्वा सादयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्मै प्राणायानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ । अग्निष्टेऽधिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद ॥ २४ ॥

विराडिति विराट् । ज्योतिः । अधारयत् । स्वराडिति स्वराट् । ज्योतिः । अधारयत् । प्रजापतिरिति प्रजापतिः । त्वा । सादयतु । पृष्ठे । पृथिव्याः । ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्मै । प्राणाय । अपानायेत्यपऽअनाय । व्यानायेति विऽअनाय । विश्वम् । ज्योतिः । यच्छ । अग्निः । ते । अधिपतिरित्यधिऽपतिः । तया । देवतया । अङ्गिरस्वत् । ध्रुवा । सीद ॥ २४ ॥

पदार्थः—(विराट्) या विविधासु राजते (ज्योतिः) विद्याप्रकाशम् (अधारयत्) धारयेत् (स्वराट्) सर्वेषु धर्माचरणेषु स्वयं राजते (ज्योतिः) विद्युदादिप्रकाशम् (अधारयत्) (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकः (त्वा) त्वाम् (सादयतु) संस्थापयतु (पृष्ठे) तले (पृथिव्याः) भूमेः (ज्योतिष्मतीम्) प्रशस्तं ज्योतिर्विद्याविज्ञानं विद्यते यस्यास्ताम् (विश्वस्मै) अखिलाय (प्राणाय) प्राणिति सुखं येन तस्मै (अपानाय) अपानिति दुःखं येन तस्मै (व्यानाय) व्यानिति सर्वान् शुभगुणकर्मस्वभावान् येन तस्मै (विश्वम्) समग्रम् (ज्योतिः) विज्ञानम् (यच्छ) गृहाण (अग्निः) विज्ञानवान् (ते) तव (अधिपतिः) स्वामी (तया) (देवतया) दिव्यया (अङ्गिरस्वत्) सूत्रात्मवत् (ध्रुवा) निष्कम्पा (सीद) स्थिरा भव ॥ २४ ॥

अन्वयः—या विराट् स्त्री ज्योतिरिधारयत् सा सचाऽखिलं सुखं प्राप्नुयात् । हे स्त्री ! योऽग्निस्तेऽधिपतिरस्ति तया देवतया सह त्वमङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद । हे पुरुष ! याऽग्निस्तवाऽधिपत्यस्ति तया देवतया सह त्वमङ्गिरस्वद् ध्रुवः सीद । हे स्त्री ! यः

प्रजापतिः पृथिव्याः पृष्ठे विश्वस्मै प्राणायानाय व्यानाय ज्योतिष्मतां विद्युतामिव त्वा सादयतु सा त्वं विश्वं ज्योतिर्यच्छ्वैतस्मा एनं पतिं त्वं सादय ॥ २४ ॥

भावार्थः—ये स्त्रीपुरुषाः सत्संगविद्याभ्यासाभ्यां विद्युदादिपदार्थविद्यां वर्द्धयन्ते त इह सुखिनो भवन्ति । पतिः स्त्रियं सदा सत्कुर्यात् स्त्री पतिञ्च कुर्यात् । एवं परस्परं प्रीत्या सहैव सुखं भुञ्जाताम् ॥ २४ ॥

पदार्थः—जो (विराट्) अनेक प्रकार की विद्याओं में प्रकाशमान स्त्री (ज्योतिः) विद्या की उन्नति को (अधारयत्) धारण करे करावे जो (स्वराट्) सब धर्मयुक्त व्यवहारों में शुद्धाचारी पुरुष (ज्योतिः) बिजुली आदि के प्रकाश को (अधारयत्) धारण करे करावे वे दोनों स्त्री पुरुष सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त हों । हे स्त्री ! जो (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त (ते) तेरा (अधिपतिः) स्वामी है (तथा) उस (देवतया) सुन्दर देवस्वरूप पति के साथ तू (अङ्गिरस्वत्) सूत्रात्मा वायु के समान (ध्रुवा) दृढ़ता से (सीद) हो । हे पुरुष ! जो अग्नि के समान तेजधारिणी तेरी रक्षा को करने हारी स्त्री है उस देवी के साथ तू प्राणों के समान प्रीतिपूर्वक निश्चय करके स्थित हो । हे स्त्री ! (प्रजापतिः) प्रजा का रक्षक तेरा पति (पृथिव्याः) भूमि के (पृष्ठे) ऊपर (विश्वस्मै) सब (प्राणाय) सुख की चेष्टा के हेतु (अपानाय) दुःख हटाने के साधन (व्यानाय) सब सुन्दर गुण कर्म और स्वभावों के प्रचार के हेतु प्राणविद्या के लिये जिस (ज्योतिष्मतीम्) प्रशंसित विद्या के ज्ञान से युक्त (त्वा) तुझ को (सादयतु) उत्तम अधिकार पर स्थापित करे सो तू (विश्वम्) समग्र (ज्योतिः) विज्ञान को (यच्छ्व) ग्रहण कर और इस विज्ञान की प्राप्ति के लिये अपने पति को स्थिर कर ॥ २४ ॥

भावार्थः—जो स्त्री पुरुष सत्संग और विद्या के अभ्यास से विद्युत् आदि पदार्थविद्या और प्रीति को नित्य बढ़ाते हैं वे इस संसार में सुख भोगते हैं । पति स्त्री का और स्त्री पति का सदा सत्कार करे इस प्रकार आपस में प्रीतिपूर्वक मिल के ही सुख भोगें ॥ २४ ॥

मधुश्चेत्यस्येन्द्राग्नी ऋषी । ऋतवो देवताः । पूर्वस्य भुरिगितिजगती छन्दः ।
निषादः स्वरः ॥

ये अग्रय इत्युत्तरस्य भुरिगब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यम स्वरः ॥

अथ वसंतर्तुवर्णनमाह ॥

अब अगले मन्त्र में वसन्त ऋतु का वर्णन किया है ॥

मधुश्च माध्वश्च वासन्तिकानृतूऽअग्नेरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेतां
द्यावापृथिवी कल्पन्तामापऽओषधयः कल्पन्तामग्नेयः पृथङ् मम
ज्यैष्ठ्याय सर्वताः । येऽअग्नेयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवीऽहमे
वासन्तिकानृतूऽअग्नि कल्पमानाऽइन्द्रमिव देवाऽअभिसंविशन्तु तथा
देवतयाङ्गिरस्वद् ध्रुवे सीदतम् ॥ २५ ॥

मधुः । च । माधवः । च । वासन्तिकौ । ऋतूऽइत्यृत् । अग्नेः । अन्तः श्लेष
इत्यन्तःऽश्लेषः । असि । कल्पेताम् । द्यावापृथिवीऽइति द्यावापृथिवी । कल्पन्ताम् ।
आपः । ओषधयः । कल्पन्ताम् । अग्नयः । पृथक् । मम । ज्यैष्ठ्याय । सत्रता इति
सऽस्रताः । ये । अग्नयः । समनस इति सऽमनसः । अन्तरा । द्यावापृथिवीऽइति
द्यावापृथिवी । इमेऽइतीमे । वासन्तिकौ । ऋतूऽइत्यृत् । अभिकल्पमाना इत्यभिऽ
कल्पमानाः । इन्द्रमिवेतीन्द्रमूऽइव । देवाः । अभिसंविशन्वित्याभिऽसंविशन्तु । तथा ।
देवतया । अङ्गिरस्वत् । ध्रुवेऽइति ध्रुवे । सीदतम् ॥ २५ ॥

पदार्थः—(मधुः) मधुरसुगन्धयुक्तश्चैत्रः (च) (माधवः) मधुरादिफलनिमित्तो
वैशाखः (च) (वासन्तिकौ) वसन्ते भवौ (ऋतू) सर्वान् प्रापकौ (अग्नेः) उष्णत्व-
निमित्तस्य (अन्तःश्लेषः) आभ्यन्तरे सम्बन्धः (असि) भवति । अत्र व्यत्ययः
(कल्पेताम्) समर्थयतः (द्यावापृथिवी) सूर्यभूमी (कल्पन्ताम्) समर्थयन्तु (आपः)
जलानि (ओषधयः) यवाद्यः सोमादयश्च (कल्पन्ताम्) (अग्नयः) पावकाः (पृथक्)
(मम) (ज्यैष्ठ्याय) ज्येष्ठे मासि भवाय व्यवहाराय मम वृद्धत्वाय वा (सत्रताः) व्रतैः
सत्यैर्व्यवहारैः सह वर्त्तमानाः (ये) (अग्नयः) पावक इव कालविदो विद्वांसः (समनसः)
(समानविज्ञानाः) (अन्तरा) मध्ये (द्यावापृथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (इमे) प्रत्यक्षे
(वासन्तिकौ) (ऋतू) (अभिकल्पमानाः) आभिमुख्येन समर्थयन्तः (इन्द्रमिव)
यथापरमैश्वर्यम् (देवाः) (अभिसंविशन्तु) (तथा) (देवतया) परमपूज्यया
परमेश्वराख्यया (अङ्गिरस्वत्) प्राणवत् (ध्रुवे) निश्चिते दृढे (सीदतम्) भवेताम् ।
अत्र पुरुषव्यत्ययः ॥ २५ ॥

अन्वयः—यथा मम ज्यैष्ठ्याय यावद्ग्रेहोत्पद्यमानौ ययोरन्तः श्लेषोऽसि भवति तौ
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकौ सुखायर्तू कल्पेतां याभ्यां द्यावापृथिवी चापः कल्पन्ताम्
पृथगोषधयः कल्पन्तामग्नयश्च । हे सत्रताः समनसो देवा वासन्तिकावृत्तु येऽत्रान्तराग्नयश्च
सन्ति तांश्चाभिकल्पमानाः सन्तो भवन्त इन्द्रमिवाभिसंविशन्तु यथेमे द्यावापृथिवी तथा
देवतया सहाङ्गिरस्वद् ध्रुवे वसन्ते तथा युवां स्त्रीपुरुषौ निश्चलौ सीदतम् ॥ २५ ॥

भाषार्थः—हे मनुष्याः ! यूयं यस्मिन् वसन्तर्तौ श्लेषोत्पद्यते यस्मिन् तीव्रप्रकाशः
पृथिवी शुष्का आपो मध्यस्था ओषधयो नूतनपुष्पपत्रान्विता अग्निज्वाला इव भवन्ति तं
युक्तया सेवित्वा पुरुषार्थेन सर्वाणि सुखान्याप्नुत । यथा विद्वांसः परमप्रयत्नेनान्वृत्तु-
सुखायैश्वर्यमुन्नयन्ति तथैव प्रयतध्वम् ॥ २५ ॥

पदार्थः—जैसे (मम) मेरे (ज्यैष्ठ्याय) ज्येष्ठ महीने में हुए व्यवहार वा मेरी श्रेष्ठता के लिये
जो (अग्नेः) गरमी के निमित्त अग्नि से उत्पन्न होने वाले जिन के (अन्तःश्लेषः) भीतर बहुत प्रकार के
वायु का सम्बन्ध (असि) होता है वे (मधुः) मधुरसुगन्धयुक्त चैत्र (च) और (माधवः) मधुर
आदि गुण का निमित्त वैशाख (च) हून के सम्बन्धी पदार्थयुक्त (वासन्तिकौ) वसन्त महीनों में हुए
(ऋतू) सब को सुखप्राप्ति के साधन ऋतु सुख के लिये (कल्पेताम्) समर्थ होवे जिन चैत्र और

वैशाख महीनों के आश्रय से (धावापृथिवी) सूर्य और भूमि (आपः) जल भी भोग में (कल्पन्ताम्) आनन्ददायक हों (पृथक्) भिन्न २ (ओषधयः) जो आदि वा सोमलता आदि ओषधि और (अग्नयः) बिजुली आदि अग्नि भी (कल्पन्ताम्) कार्यसाधक हों । हे (सव्रताः) निरन्तर वर्तमान सत्यभाषणादि व्रतों से युक्त (समनसः) विज्ञान वाले (देवाः) विद्वान् (ये) जो लोग (वासन्तिकौ) (ऋतु) वसन्तऋतु में हुए चैत्र वैशाख और पूर्वक से (अन्तरा) बीच में हुए (अग्नयः) अग्नि हैं उन को (अभिकल्पमानाः) सन्मुख होकर कार्य में युक्त करते हुए आप लोग (इन्द्रमिव) जैसे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हों वैसे (अभिसंविशन्तु) सब ओर से प्रवेश करो जैसे (इमे) ये (धावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (तथा) उस (देवतया) परमपूज्य परमेश्वर रूप देवता के सामर्थ्य के साथ (अङ्गिरस्वत्) प्राण के समान (ध्रुवे) दृढ़ता से वर्तते हैं वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष सदा संयुक्त (सीदतम्) स्थिर रहो ॥ २५ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि जिस वसन्त ऋतु में फल फूल उत्पन्न होता है और जिस में तीव्र प्रकाश रूखी पृथिवी जल मध्यम ओषधियां फल और फूलों से युक्त और अग्नि की ज्वाला भिन्न २ होती हैं उस को युक्तिपूर्वक सेवन कर पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त होओ जैसे विद्वान् लोग अत्यन्त प्रयत्न के साथ सब ऋतुओं में सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं वैसे तुम भी प्रयत्न करो ॥ २५ ॥

अषाढासीत्यस्य सविता ऋषिः । दत्त्रपतिर्देवता । निचृदनुष्टुप्छन्दः ।

गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सा कीदृशी भवेदित्याह ॥

फिर वह कैसी हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अषाढासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व ॥ २६ ॥

अषाढा । असि । सहमाना । सहस्व । अरातीः । सहस्व । पृतनायत इति पृतनायतः । सहस्रवीर्येति सहस्रवीर्या । असि । सा । मा । जिन्व ॥ २६ ॥

पदार्थः—(अषाढा) शत्रुभिरसह्यमाना (असि) (सहमाना) पत्यादीन् सोढुमर्हा (सहस्व) (अरातीः) शत्रून् (सहस्व) (पृतनायतः) आत्मनः पृतनां सेनामिच्छतः (सहस्रवीर्या) असंख्यतपराक्रमा (असि) (सा) (मा) माम् (जिन्व) प्रीणीहि ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे पत्नि ! या त्वमषाढासि सा त्वं सहमाना सती पति मां सहस्व । या त्वं सहस्रवीर्याऽसि सा त्वं पृतनायतोऽरातीः सहस्व यथाहं त्वां प्रीणामि पतिं तथा मा च जिन्व ॥ २६ ॥

भावार्थः—या कृतद्वीर्घब्रह्मचर्यवलिष्ठा जितेन्द्रिया वसन्ताद्यतुकृत्य विलक्षण-पत्यपराधक्षमाकारिणी शत्रुनिवारिकोत्तमपराक्रमा स्त्री नित्यं स्वस्वामिनं प्रीणाति तां पतिरपि नित्यमानन्दयेत् ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे पत्नी ! जो तू (अषाढा) शत्रु के असहने योग्य (असि) है तू (सहमाना) पति आदि का सहन करती हुई अपने के उपदेश का (सहस्व) सहन कर जो तू (सहस्रवीर्या) असंख्यात प्रकार के पराक्रमों से युक्त (असि) है (सा) सो तू (शतनायतः) अपने आप सेना से युद्ध की इच्छा करते हुए (अरातीः) शत्रुओं को (सहस्व) सहन कर और जैसे मैं तुझ को प्रसन्न रखता हूँ वैसे (मा) मुझ पति को (जिन्व) तृप्त किया कर ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो बहुत काल तक ब्रह्मचर्याश्रम से सेवन की हुई अत्यन्त बलवान् जितेन्द्रिय वसन्त आदि ऋतुओं के पृथक् २ काम जानने, पति के अपराध क्षमा और शत्रुओं का निवारण करने वाली उत्तम पराक्रम से युक्त स्त्री अपने स्वामी पति को तृप्त करती है उसी को पति भी नित्य आनन्दित करता ही है ॥ २६ ॥

मधुवाता इत्यस्य गोतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृद्गायत्रीछन्दः ।

षड्जः स्वरः ॥

अथ वसन्तर्तुर्गुणान्तरानाह ॥

आगे के मन्त्र में वसन्त ऋतु के अन्य गुणों का वर्णन किया है ॥

मधुवाताऽऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः
सन्त्वोषधीः ॥ २७ ॥

मधुं । वाताः । ऋतायते । ऋतयत इत्यृतऽयते । मधुं । क्षरन्ति । सिन्धवः ।
माध्वीः । नः । सन्तु । ओषधीः ॥ २७ ॥

पदार्थः—(मधु) मधुरं यथा स्यात्तथा (वाताः) वायवः (ऋतायते) ऋतमुदक-
मिधाचरन्ति । अत्र वचनव्यत्ययेन बहुवचनस्थान एकवचनम् । ऋतमित्युदकनामसु पठितम् ॥
निघं० १ । १२ ॥ न छन्दस्यपुत्रस्येतीत्वाभावः । अन्येषामपीति दीर्घः (मधु) (क्षरन्ति)
वर्षन्ति (सिन्धवः) नद्यः समुद्रा वा । सिन्धव इति नदीनाम० ॥ निघं० १ । १३ ॥ (माध्वीः)
माध्व्यो मधुरगुणयुक्ताः । अत्र ऋत्वयवास्त्वय० इति मधुशब्दादणि यणादेशनिपातः
(नः) अस्मभ्यम् (सन्तु) (ओषधीः) ओषधयः ॥ २७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यथा वाता वसन्ते नो मधु ऋतायते सिन्धवो मधु
क्षरन्ति ओषधीर्नो माध्वीः सन्तु तथा वयमनुतिष्ठेम ॥ २७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यदा वसन्त आगच्छति तदा पुष्पादि-
सुगन्धयुक्ता वायवाद्यः पदार्था भवन्ति तस्मिन् भ्रमणं पथ्यं वर्त्तत इति वेद्यम् ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे वसन्त ऋतु में (नः) हम लोगों के लिये (वातः) वायु (मधु)
मधुरता के साथ (ऋतायते) जल के समान चलते हैं (सिन्धवः) नदियां वा समुद्र (मधु)
कोमलतापूर्वक (क्षरन्ति) वर्षते हैं और (ओषधीः) ओषधियां (माध्वीः) मधुर रस के गुणों से युक्त
(सन्तु) होंवें वैसे प्रयत्न हम किया करें ॥ २७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालङ्कार है। जब वसन्त ऋतु आता है तब पुष्प आदि के सुगन्धों से युक्त वायु आदि पदार्थ होते हैं उस ऋतु में घूमना डोलना पथ्य होता है ऐसा निश्चित जानना चाहिये ॥ २७ ॥

मधुनक्तमित्यस्य गीतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥

फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवश्च रजः । मधु द्यौरस्तु नः
पिता ॥ २८ ॥

मधु । नक्तम् । उत । उपसः । मधुमदिति मधुमत् । पार्थिवम् । रजः ।
मधु । द्यौः । अस्तु । नः । पिता ॥ २८ ॥

पदार्थः—(मधु) (नक्तम्) रात्रिः (उत) अपि (उपसः) प्रातर्मुखानि दिनानि
(मधुमत्) मधुरगुणयुक्तम् (पार्थिवम्) पृथिव्या विकारः (रजः) द्रव्यणुकादिरेणु
(मधु) (द्यौः) प्रकाशः (अस्तु) (नः) अस्मभ्यम् (पिता) पालकः ॥ २८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यथा वसन्ते नक्तं मधुताप्युषसो मधु पार्थिवं रजो
मधुमद् द्यौरमधु पिता नोऽस्तु तथा यूयमप्येतं युक्त्या सेवध्वम् ॥ २८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुसोपमालङ्कारः । प्राप्ते वसन्ते पक्षिणोऽपि मधुरं स्वनन्ति
हर्षिताः प्राणिनश्च जायन्ते ॥ २८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे वसन्त ऋतु में (नक्तम्) रात्रि (मधु) कोमलता से युक्त
(उत) और (उपसः) प्रातःकाल से लेकर दिन मधुर (पार्थिवम्) पृथिवी का (रजः) द्रव्यणुक वा
प्रसरेणु आदि (मधुमत्) मधुर गुणों से युक्त और (द्यौः) प्रकाश भी (मधु) मधुरतायुक्त (पिता)
रक्षा करने हारे के समान समय (नः) हमारे लिये (अस्तु) होवे जैसे युक्ति से उस वसन्त ऋतु का
सेवन तुम भी किया करो ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालङ्कार है। जब वसन्त ऋतु आता है तब पक्षी भी
कोमल मधुर २ शब्द बोलते और अन्य सब प्राणी आनन्दित होते हैं ॥ २८ ॥

मधुमानित्यस्य गीतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृद्गायत्री छन्दः ।

षड्जः स्वरः ॥

अथ वसन्ते जनैः किमाचरणीयमित्याह ॥

अब वसन्त ऋतु में मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिये
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँरऽस्तु सूर्य्यः । माध्वीर्गावो
भवन्तु नः ॥ २६ ॥

मधुमानिति मधुमान् । नः । वनस्पतिः । मधुमानिति मधुमान् । अस्तु ।
सूर्य्यः । माध्वीः । गावः । भवन्तु । नः ॥ २६ ॥

पदार्थः—(मधुमान्) प्रशस्ता मधवो गुणा विद्यन्ते यस्मिन् सः (नः) अस्मभ्यम्
(वनस्पतिः) अश्वत्थादिः (मधुमान्) प्रशस्तो मधुः प्रतापो विद्यते यस्य सः (अस्तु)
भवतु (सूर्य्यः) सविता (माध्वीः) मधुरा गुणा विद्यन्ते यासु ताः (गावः) धेनव इव
किरणाः (भवन्तु) (नः) अस्मभ्यम् ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे विद्वांसः ! यथा वसन्ते नो वनस्पतिर्मधुमान् सूर्य्यश्च मधुमानस्तु ।
नो गावो माध्वीर्भवन्तु तथोपदिशत ॥ २६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्याः ! यूयं वसन्तमृतुं प्राप्य यादृग् द्रव्यहोमेन वनस्पत्यादयो
मधुरादिगुणाः स्युः तादृशं यज्ञमाचरतेत्यं वासन्तिकं सुखं सर्वे यूयं प्राप्नुत ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् लोगो ! जैसे वसन्त ऋतु में (नः) हमारे लिये (वनस्पतिः) पीपल
आदि वनस्पति (मधुमान्) प्रशंसित कोमल गुणों वाले और (सूर्य्यः) सूर्य्य भी (मधुमान्) प्रशंसित
कोमलतायुक्त (अस्तु) होवे और (नः) हमारे लिये (गावः) गौओं के समान (माध्वीः) कोमल
गुणों वाली किरणें (भवन्तु) हों वैसा ही उपदेश करो ॥ २६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग वसन्त ऋतु को प्राप्त होकर जिस प्रकार के पदार्थों के
होम से वनस्पति आदि कोमल गुणयुक्त हों ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करो और इस प्रकार वसन्त ऋतु के
सुख को सब जने तुम लोग प्राप्त होओ ॥ २६ ॥

अपामित्यस्य गोतम ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । आर्षीपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अपां गम्भन्त्सीद् मा त्वा सूर्य्योऽभिताप्सीन्माग्निर्वैश्वानरः ।
अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽअनुवीक्ष्वानु त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम् ॥ ३० ॥

अपाम् । गम्भन् । सीद् । मा । त्वा । सूर्य्यः । अभि । ताप्सीत् । मा ।
अग्निः । वैश्वानरः । अच्छिन्नपत्रा इत्यच्छिन्नपत्राः । प्रजा इति प्रजाः ।
अनुवीक्ष्वेत्यनुस्वीक्ष्व । अनु । त्वा । दिव्या । वृष्टिः । सचताम् ॥ ३० ॥

पदार्थः—(अपाम्) जलानाम् (गम्भन्) गम्भान् धारके मेघे । अत्र गमधातो-
रौणादिको बाहुलकाद् भनिः प्रत्ययः सप्तम्या लुक् च (सीद्) आःस्व (मा) (त्वा)
(सूर्य्यः) मार्तण्डः (अभि) (ताप्सीत्) तपेत् (मा) (अग्निः) (वैश्वानरः) विश्वेषु

नरेषु राजमानः (अच्छिन्नपत्राः) अच्छिन्नानि पत्राणि यासां ताः (प्रजाः) (अनुवीक्षस्व)
अनुकूल्येन विशेषतः संप्रेक्षस्व (अनु) (त्वा) त्वाम् (दिव्या) शुद्धगुणसम्पन्ना
(वृष्टिः) (सचताम्) समवैतु ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे मनुष्य ! त्वं वसन्तेऽपां गम्भन्निव सीद यतः सूर्यस्तवामाऽ
भिताप्सीत् । वैश्वानरोऽग्निस्त्वामाभिताप्सीदच्छिन्नपत्राः प्रजा अनु त्वा दिव्या वृष्टिः
सचतां तथा त्वमनुवीक्षस्व ॥ ३० ॥

भावार्थः—वसन्तग्रीष्मयोर्मध्ये मनुष्या जलाशयस्थं शीतलं स्थानं संसेवन्ताम् ।
येन तापाऽभितप्ता न स्युः येन यज्ञेन पुष्कला वृष्टिः स्यात् प्रजानन्दश्च तं सेवध्वम् ॥ ३० ॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! तू वसन्त ऋतु में (अपाम्) जलों के (गम्भन्) आधारकर्ता मेघ में
(सीद) स्थिर हो जिस से (सूर्यः) सूर्य (त्वा) तुझको (मा) न (अभिताप्सीत्) तपावे
(वैश्वानरः) सब मनुष्यों में प्रकाशमान (अग्निः) अग्नि बिजुली (त्वा) तुझको (मा) न
(अभिताप्सीत्) तप्त करे (अच्छिन्नपत्राः) सुन्दर पूर्ण अवयवों वाली (प्रजाः) प्रजा (अनु त्वा)
तेरे अनुकूल और (दिव्या) शुद्ध गुणों से युक्त (वृष्टिः) वर्षा (सचताम्) प्राप्त होवे जैसे (अनुवीक्षस्व)
अनुकूलता से विशेष करके विचार कर ॥ ३० ॥

भावार्थः—मनुष्य वसन्त और ग्रीष्म ऋतु के बीच जलाशयस्थ शीतल स्थान का सेवन करें
जिस से गर्मी से दुःखित न हों और जिस यज्ञ से वर्षा भी ठीक २ हो और प्रजा आनन्दित हो
उसका सेवन करो ॥ ३० ॥

त्रीन्समुद्रानित्यस्य गोतम ऋषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ जनैस्तत्र सुखप्राप्तये किमाचरणीयमित्याह ॥

अथ मनुष्यों को उस वसन्त में सुखप्राप्ति के लिये क्या करना चाहिये
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

त्रीन्समुद्रान्तसमसृपत् स्वर्गानपां पतिवृषभसृष्टकानाम् । पुरीषं
वसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः ॥ ३१ ॥

त्रीन् । समुद्रान् । सम् । असृपत् । स्वर्गानिति स्वःऽगान् । अपाम् । पतिः ।
वृषभः । इष्टकानाम् । पुरीषम् । वसानः । सुकृतस्येति सुऽकृतस्य । लोके । तत्र ।
गच्छ । यत्र । पूर्वे । परेता इति पराऽइताः ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(त्रीन्) अधोमध्योर्ध्वस्थान् (समुद्रान्) समुद्रवन्ति पदार्था येषु
तान् भूतभविष्यद्वर्त्तमानान् समयान् (सम्) (असृपत्) सर्पति (स्वर्गान्) स्वःसुखं
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति येभ्यस्तान् (अपाम्) प्राणानाम् (पतिः) रक्षकः (वृषभः) वर्षकः
श्रेष्ठो वा (इष्टकानाम्) इज्यन्ते संगम्यन्ते कामा यैः पदार्थैस्तेषाम् (पुरीषम्) पूर्णसुख-
करमुदकम् (वसानः) वासयन् (सुकृतस्य) सुष्ठु कृतो धर्मो येन तस्य (लोके) द्रष्टव्ये
स्थाने (तत्र) (गच्छ) धर्म्ये मार्गे (पूर्वे) प्राक्तना जनाः (परेताः) सुखं प्राप्ताः ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्त्वं ! यथाऽपांपतिवृषभः पुरीषं वसानः सन्निष्टकानां त्रीन् समुद्रांल्लोकान् स्वर्गान् समसृपत् । संसर्पति तथा सर्प यत्र सुकृतस्य लोके मार्गं पूर्वं परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । मनुष्यैर्धार्मिकारणां मार्गणं गच्छद्भिः शारीरिकवाचिकमानसानि त्रिविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि । यत्र कामा अलं स्युस्तत्र प्रयतितव्यं यथा वसन्तादय ऋतवः क्रमेण वर्त्तित्वा स्वानि स्वानि लिगान्यभिपद्यन्ते तथर्त्वनुकूलान् व्यवहारान् कृत्वाऽऽनन्दयितव्यम् ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष ! जैसे (अपाम्) प्राणों का (पतिः) रक्षक (वृषभः) वर्षों का हेतु (पुरीषम्) पूर्णसुखकारक जल को (वसानः) धारण करता हुआ सूर्य (इष्टकानाम्) कामनाओं की प्राप्ति के हेतु पदार्थों के आधाररूप (त्रीन्) ऊपर नीचे और मध्य में रहने वाले तीन प्रकार के (समुद्रान्) सब पदार्थों के स्थान भूत भवित्यत् और वर्त्तमान (स्वर्गान्) सुख प्राप्त कराने हारे लोकों को (समसृपत्) प्राप्त होता है वैसे आप भी प्राप्त हूजिये (यत्र) जिस धर्मयुक्त वसन्त के मार्ग में (सुकृतस्य) सुन्दर धर्म करने हारे पुरुष के (लोके) देखने योग्य स्थान वा मार्ग में (पूर्वं) प्राचीन लोग (परेताः) सुख को प्राप्त हुए (तत्र) उसी वसन्त के सेवनरूप मार्ग में आप भी (गच्छ) चलिये ॥ ३१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्माओं के मार्ग से चलते हुए शारीर वाचिक और मानस तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त हों और जिस में कामना पूरी हो वैसे प्रयत्न करें । जैसे वसन्त आदि ऋतु अपने क्रम से वर्त्तते हुए अपने २ चिह्न प्राप्त करते हैं वैसे ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार के आनन्द को प्राप्त हों ॥ ३१ ॥

मही द्यौरित्यस्य गोतम ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । निचृद् गायत्री छन्दः ।

षड्जः स्वरः ॥

मातापितृभ्यां स्वसंतानाः कथं शिष्या इत्याह ॥

माता पिता अपने सन्तानों को कैसी शिक्षा करें इस विषय का उपदेश
अगले मन्त्र में किया है ॥

मही द्यौः पृथिवी च नऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम् । पिपृतां नो
भरीमभिः ॥ ३२ ॥

मही । द्यौः । पृथिवी । च । नः । इमम् । यज्ञम् । मिमिक्षताम् । पिपृताम् ।
नः । भरीमभिरिति भरीमभिः ॥ ३२ ॥

पदार्थः—(मही) महती (द्यौः) सूर्यः (पृथिवी) भूमिः (च) (नः) अस्माकम् (इमम्) (यज्ञम्) सङ्गन्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारम् (मिमिक्षताम्) सेक्तुमिच्छेताम् (पिपृताम्) पालयतम् (नः) अस्मान् (भरीमभिः) धारणपोषणार्थैः कर्मभिः ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे मातापितरो ! यथा मही द्यौः पृथिवी च सर्वं सिञ्चते पालयतस्तथा युवां न इमं यज्ञं मिमिक्षतां भरीमभिर्नः पिपृताम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । यथा भूमिसूर्यौ सर्वेषां धारणं प्रकाशं पालनञ्च कुरुतस्तथा मातापितरः स्वसन्तानेभ्योऽन्नं विद्यादानं सुशिक्षां च कृत्वा पूर्णान् विदुषः पुरुषार्थिनः संपादयेयुः ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे माता पिता ! जैसे (मही) बड़ा (द्यौः) सूर्यलोक (च) और (पृथिवी) भूमि सब संसार को सींचते और पालन करते हैं वैसे तुम दोनों (नः) हमारे (इमम्) इस (यज्ञम्) सेवने योग्य विद्याग्रहणरूप व्यवहार को (मिमित्तात्) सेचन अर्थात् पूर्ण होने की इच्छा करो और (भरीमभिः) धारण पोषण आदि कर्मों से (नः) हमारा (पिपृताम्) पालन करो ॥ ३२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वसन्त ऋतु में पृथिवी और सूर्य सब संसार का धारण प्रकाश और पालन करते हैं वैसे माता पिता को चाहिये कि अपने सन्तानों के लिये वसन्तादि ऋतुओं में अन्न विद्यादान और अच्छी शिक्षा करके पूर्ण विद्वान् पुरुषार्थी करें ॥ ३२ ॥

विष्णोः कर्माणीत्यस्य गोतम ऋषिः । विष्णुदेवता । निचृद्गायत्री छन्दः ।

षड्जः स्वरः ॥

विद्वद्वदितरैर्जनैराचरणीयमित्याह ॥

विद्वानों के तुल्य अन्य मनुष्यों को आचरण करना चाहिये
इसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३३ ॥

विष्णोः । कर्माणि । पश्यत । यतः । व्रतानि । पस्पशे । इन्द्रस्य । युज्यः । सखा ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(विष्णोः) व्यापकेश्वरस्य (कर्माणि) जगत्सृष्टिपालनप्रलयकरण-न्यायादीनि (पश्यत) संप्रेक्षध्वम् (यतः) (व्रतानि) नियतानि सत्यभाषणादीनि (पस्पशे) स्पृशति (इन्द्रस्य) परमैश्वर्यमिच्छुकस्य जीवस्य युक्तस्य (युज्यः) उपयुक्तानन्दप्रदः (सखा) मित्र इव वर्त्तमानः ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! य इन्द्रस्य जीवस्य युज्यः सखास्ति यतोऽयं विष्णोः कर्माणि व्रतानि च पस्पशे तस्मादेतस्यैतानि यूयमपि पश्यत ॥ ३३ ॥

भावार्थः—यथा परमेश्वरस्य सुहृदुपासको धार्मिको विद्वानस्य गुणकर्मरूभाव-क्रमानुसाराणि सृष्टिकर्माणि कुर्याज्जानीयात् तथैवेतरे मनुष्याः कुर्युर्जानीयुश्च ॥ ३३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य की इच्छा करने हारे जीव का (युज्यः) उपासना करने योग्य (सखा) मित्र के समान वर्त्तमान है (यतः) जिस के प्रताप से यह जीव (विष्णोः) व्यापक ईश्वर के (कर्माणि) जगत् की रचना पालन प्रलय करने और न्याय आदि कर्मों और (व्रतानि) सत्यभाषणादि नियमों को (पस्पशे) स्पर्श करता है इसलिये इस परमात्मा के इन कर्मों और व्रतों को तुम लोग भी (पश्यत) देखो धारण करो ॥ ३३ ॥

भावार्थः—जैसे परमेश्वर का मित्र उपासक धर्मात्मा विद्वान् पुरुष परमात्मा के गुण कर्म और स्वभावों के अनुसार सृष्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करे और जाने वैसे ही अन्य मनुष्य करें और ज्ञान ॥ ३३ ॥

ध्रुवासीत्यस्य गोतम ऋषिः । जातवेदा देवता । भुरिक्त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥
विद्वद्वत्स्त्रीभिरप्युपदेष्टव्यमित्याह ॥

विद्वान् पुरुषों के समान विदुषी स्त्रियां भी उपदेश करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

ध्रुवासिं धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्योऽअधिजातवेदाः । स
गायत्र्या त्रिष्टुभाऽनुष्टुभा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥ ३४ ॥

ध्रुवा । असि । धरुणा । इतः । जज्ञे । प्रथमम् । एभ्यः । योनिभ्य इति
योनिभ्यः । अधि । जातवेदा इति जातवेदाः । सः । गायत्र्या । त्रिष्टुभा ।
त्रिस्तुभेति त्रिस्तुभा । अनुष्टुभा । अनुस्तुमेत्यनुस्तुभा । च । देवेभ्यः । हव्यम् ।
वहतु । प्रजानन् इति प्रजानन् ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(ध्रुवा) (स्थिरा) (असि) (धरुणा) धर्त्री (इतः) कर्मणः (जज्ञे)
प्रादुर्भवति (प्रथमम्) आदिमं कार्यम् (एभ्यः) (योनिभ्यः) कारणेभ्यः (अधि)
(जातवेदाः) यो जातेषु विद्यते सः (सः) (गायत्र्या) गायत्रीनिष्पादितया विद्यया
(त्रिष्टुभा) (अनुष्टुभा) (च) (देवेभ्यः) दिव्यगुणेभ्यो विद्वद्भ्यो वा (हव्यम्)
होतुमादातुमर्हं विद्वानम् (वहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन्) प्रकृष्टतया जानन् ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे स्त्री ! यथा त्वं धरुणा ध्रुवासि यथैभ्यो योनिभ्यः स जातवेदाः
प्रथममधिजज्ञे तथेतोऽधिजायस्व । यथा स तव पतिर्गायत्र्या त्रिष्टुभानुष्टुभा च प्रजानन्
देवेभ्यो हव्यं वहतु तथैतया प्रजानन्ती ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्तीभ्यः स्त्रीभ्यो
विज्ञानं प्राप्नोतु ॥ ३४ ॥

भावार्थः—मनुष्या जगदीश्वरसृष्टिक्रमनिमित्तानि विदित्वा विद्वान्सो भूत्वा यथा
पुरुषेभ्यः शास्त्रोपदेशान् कुर्वन्ति तथैव स्त्रियोप्येतानि विदित्वा स्त्रीभ्यो वेदार्थनिष्कर्षो-
पदेशान् कुर्वन्तु ॥ ३४ ॥

पदार्थः—हे स्त्री ! जैसे तू (धरुणा) शुभगुणों का धारण करने हारी (ध्रुवा) स्थिर
(असि) है जैसे (एभ्यः) इन (योनिभ्यः) कारणों से (सः) वह (जातवेदाः) प्रसिद्ध पदार्थों में
विद्यमान वायु (प्रथमम्) पहिले (अधिजज्ञे) अधिकता से प्रकट होता है वैसे (इतः) इस कर्म के
अनुष्ठान से सर्वोपरि प्रसिद्ध हुआ जैसे तेरा पति (गायत्र्या) गायत्री (त्रिष्टुभा) त्रिष्टुप् (च) और
(अनुष्टुभा) अनुष्टुप् मन्त्र से सिद्ध हुई विद्या से (प्रजानन्) बुद्धिमान् होकर (देवेभ्यः) अच्छे गुण
वा विद्वानों से (हव्यम्) देने लेने योग्य विज्ञान (वहतु) प्राप्त होवे वैसे इस विद्या से बुद्धिमती हो के
आप स्त्री लोगों से ब्रह्मचारिणी कन्या विज्ञान को प्राप्त हों ॥ ३४ ॥

भाष्यार्थः—मनुष्य जगत् में ईश्वर की सृष्टि के कामों के निमित्तों को जान विद्वान होकर जैसे पुरुषों को शास्त्रों का उपदेश करते हैं वैसे ही स्त्रियों को भी चाहिये कि इन सृष्टिक्रम के निमित्तों को जान के स्त्रियों को वेदार्थसारोपदेशों को करें ॥ ३४ ॥

इषे राय इत्यस्य गोतम ऋषिः । जातवेदा देवताः । निचृद्बृहती छन्दः ।
मध्यमः स्वरः ॥

अथ जायापती उद्गाहं कृत्वा कथं वर्तेयातामित्याह ॥

अब स्त्री पुरुष विवाह करके कैसे वर्त्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥

इषे राये रमस्व सहसे द्युम्नेऽऊर्जेऽअपत्याय । सम्राडसि स्वराडसि
सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रावताम् ॥ ३५ ॥

इषे । राय । रमस्व । सहसे । द्युम्ने । ऊर्जे । अपत्याय । सम्राडिति सम्राट् ।
असि । स्वराडिति स्वराट् । असि । सारस्वतौ । त्वा । उत्सौ । प्र । अवताम् ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(इषे) विज्ञानाय (राये) श्रिये (रमस्व) क्रीडस्व (सहसे) बलाय (द्युम्ने) यशसेऽन्नाय वा । द्युम्न द्योतनेत्यशो वाऽन्नं वा ॥ निरु० ५ । ५ ॥ (ऊर्जे) पराक्रमाय (अपत्याय) संतानाय (सम्राट्) यः सम्यग्राजते सः (असि) (स्वराट्) या स्वयं राजते सा (असि) (सारस्वतौ) सरस्वत्यां वेदवाचि कुशलावुपदेशकोपदेश्चौ (त्वा) त्वाम् (उत्सौ) कूपोदकमिवाद्भिभूतौ (प्र) (अवताम्) रक्षणार्थिकं कुरुताम् ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे पुरुष ! यस्त्वं सम्राडसि । हे स्त्री या त्वं स्वराडसि स त्वं चेषेराये सहसे द्युम्न ऊर्जेऽपत्याय रमस्व । उत्साविव सारस्वतौ सन्तावेतानि प्रावतामिति त्वां पुरुषं स्त्रियं चोपदिशामि ॥ ३५ ॥

भावार्थः—कृतविवाहौ स्त्रीपुरुषौ परस्परं प्रीत्या विद्वांसौ सन्तौ वसन्ते पुरुषार्थेन धीमन्तौ सदगुणौ परस्परस्य रक्षां कुर्वन्तौ धर्मेणापत्यान्युत्पाद्यास्मिन् संसारे नित्यं क्रीडताम् ॥ ३५ ॥

पदार्थः—हे पुरुष ! जो तू (सम्राट्) विवादि शुभगुणों से स्वयं प्रकाशमान (असि) है । हे स्त्री ! जो तू (स्वराट्) अपने आप विज्ञान सत्याचार से शोभायमान (असि) है सो तुम दोनों (इषे) विज्ञान (राये) धन (सहसे) बल (द्युम्ने) यश और अन्न (ऊर्जे) पराक्रम और (अपत्याय) सन्तानों की प्राप्ति के लिये (रमस्व) यत्न करो तथा (उत्सौ) कूपोदक के समान कोमलता को प्राप्त होकर (सारस्वतौ) वेदवाणी के उपदेश में कुशल होके तुम दोनों स्त्री पुरुष इन स्वशरीर और अन्नादि पदार्थों की (प्रावताम्) रक्षा आदि करो यह (त्वा) तुम को उपदेश देता हूँ ॥ ३५ ॥

भावार्थः—विवाह करके स्त्री पुरुष दोनों आपस में प्रीति के साथ विद्वान् होकर पुरुषार्थ से धनवान् श्रेष्ठगुणों से युक्त होके एक दूसरे की रक्षा करते हुए धर्मानुकूलता से वर्त्ते के सन्तानों को उत्पन्न कर इस संसार में नित्य क्रीडा करें ॥ ३५ ॥

अग्ने युद्धेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ शत्रुविजयः कथं कर्तव्य इत्याह ॥

अब शत्रुओं को कैसे जीतना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अग्ने युद्धवाहि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्ति
मन्यवे ॥ ३६ ॥

अग्ने । युद्धव । हि । ये । तव । अश्वासः । देव । साधवः । अरम् ।
वहन्ति । मन्यवे ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(अग्ने) विद्वन् (युद्धव) अत्र द्वयचोऽतस्तिङ् इति दीर्घः । विकरणस्य
लुक् च (हि) श्लु (तव) (अश्वासः) सुशिक्षितास्तुरङ्गाः (देव) दिव्यविद्यायुक्त
(साधवः) अभीष्ट साधुवन्तः (अरम्) अलम् (वहन्ति) रथादीनि यानानि प्रापयन्ति
(मन्यवे) शत्रूणामुपरिक्रोधाय ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे देवाऽग्ने ! ये तव साधवोऽश्वासो मन्यवेऽरं वहन्ति तान् हि त्वं
युद्धव ॥ ३६ ॥

भावार्थः—राजमनुष्यैर्वसन्ते प्रथममश्वान् सुशिक्ष्य सारथींश्च रथेषु नियोज्य
शत्रुविजयाय गन्तव्यम् ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे (देव) श्रेष्ठविद्या वाले (अग्ने) तेजस्वी विद्वन् ! (ये) जो (तव) आपके
(साधवः) अभीष्ट साधने वाले (अश्वासः) शिक्षित घोड़े (मन्यवे) शत्रुओं के ऊपर क्रोध के लिये
(अरम्) सामर्थ्य के साथ (वहन्ति) रथ आदि यानों को पहुँचाते हैं उन को (हि) निश्चय कर के
(युद्धव) संयुक्त कीजिये ॥ ३६ ॥

भावार्थः—राजादि मनुष्यों को चाहिये कि वसन्त ऋतु में पहिले घोड़ों को शिक्षा दे और
रथियों को रथों पर नियुक्त कर के शत्रुओं के जीतने के लिये यात्रा करें ॥ ३६ ॥

युद्धा हीत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ राजपुरुषकृत्यमाह ॥

अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

युद्धा हि देवहृतमाँऽऽश्वान्ऽऽग्ने रथीरिव । नि होता पूर्यः
सदः ॥ ३७ ॥

युद्धव । हि । देवहृतमानिति देवऽहृतमान् । अश्वान् । अग्ने । रथीरिवेति ।
रथीऽऽश्व । नि । होता । पूर्यः । सदः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(युक्त्व) अत्रापि दीर्घः (हि) किल (देवहृतमान्) देवैर्विद्वद्भिः
स्पष्टितान् (अश्वान्) (अग्ने) (रथीरिव) यथा शशुभिः सह बहुरथादिसेनाङ्गवान्
योद्धा युध्यति तथा (नि) नितराम् (होता) दाता (पूर्व्यः) पूर्वैर्विद्वद्भिः कृतशिक्षाः
(सदः) सीद । अत्र लङ्गडभावः ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! पूर्व्यो होता त्वं देवहृतमानश्वान् रथीरिव युक्त्व हि न्याया-
सने निषदः ॥ ३७ ॥

भावार्थः—सेनापत्यादिराजपुरुषैर्महाराथिवदश्वदादीनि सेनाङ्गानि कार्येषु संयोज-
नीयानि । सभापत्यादयो न्यायासने स्थित्वा धर्म्यं न्यायमाचरन्तु ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् पुरुष ! (पूर्व्यः) पूर्व विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त (होता)
दानशील आप (देवहृतमान्) विद्वानों से स्पर्द्धा वा शिक्षा किये (अश्वान्) घोड़ों को (रथीरिव)
शशुओं के साथ बहुत रथादि सेना अंगयुक्त योद्धा के समान (युक्त्व) युक्त कीजिये (हि) निश्चय
करके न्यायासन पर (निषदः) निरन्तर स्थित हूजिये ॥ ३७ ॥

भावार्थः—सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि बड़े सेना के अङ्गयुक्त रथ वाले के समान
बड़े आदि सेना के अवयवों को कार्यों में संयुक्त करें । और सभापति आदि को चाहिये कि न्यायासन
पर बैठ कर धर्मयुक्त न्याय किया करें ॥ ३७ ॥

सम्यक् स्रवन्तीत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैः किं भूत्वा वाग्धार्येत्याह ॥

मनुष्यों को कैसे होके वाणी धारण करनी चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेनाऽअन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः ।
घृतस्य धाराऽअभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्येऽअग्नेः ॥ ३८ ॥

सम्यक् । स्रवन्ति । सरितः । न । धेनाः । अन्तः । हृदा । मनसा ।
पूयमानाः । घृतस्य । धाराः । अभि । चाकशीमि । हिरण्ययः । वेतसः ।
मध्ये । अग्नेः ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(सम्यक्) (स्रवन्ति) गच्छन्ति (सरितः) नद्यः । सरित इति नदीनाम० ॥
निघं० १ । १३ ॥ (न) इव (धेनाः) वाचः । धेना इति वाङ्नाम० ॥ निघं० १ । ११ ॥
(अन्तः) आभ्यन्तरे (हृदा) हृदयेन (मनसा) विज्ञानवता चित्तेन (पूयमानाः) पवित्राः
(घृतस्य) उदकस्य (धाराः) (अभि) आभिमुख्ये (चाकशीमि) भृशं प्राप्नोमि
(हिरण्ययः) यशस्वी (वेतसः) वेगवत्यः । अत्र वीधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तसिः प्रत्ययः
(मध्ये) (अग्नेः) विद्युतः ॥ ३८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! यथाऽअग्नेमध्ये हिरण्यय इव वर्त्तमानोहं या घृतस्य वेतसो
धाराः सरितो नान्तर्हृदा मनसा पूयमाना धेनाः सम्यक् स्रवन्ति ता अभिचाकशीमि तथा
यूयमप्येताः प्राप्नुत ॥ ३८ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालङ्कारः । मनुष्यैर्यथा समं विषमं चलन्त्यः शुद्धाः सत्यो नद्यः समुद्रं प्राप्य स्थिरत्वं प्राप्नुवन्ति तथैव विद्यासुशिक्षाधर्मैः पवित्रीभूता वाण्यो निश्चलाः प्राप्तव्याः प्रापयितव्याश्च ॥ ३८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (अग्नेः) बिजुली के (मध्ये) बीच में वर्तमान (हिरण्यपः) तेजोभाग के समान तेजस्वी कीर्ति चाहने और विद्या की इच्छा रखने वाला मैं जो (घृतस्य) जल की (वेतसः) वेगवाली (धाराः) प्रवाहरूप (सरितः) नदियों के (न) समान (अन्तः) भीतर (हृदा) अन्तःकरण के (मनसा) विज्ञान रूप वाले चित्त से (पृथमानाः) पवित्र हुई (घेनाः) वाणी (सग्यक्) अच्छे प्रकार (स्रवन्ति) चलती हैं उन को (अभिचाकशीमि) सन्मुख होकर सब के लिये शीघ्र प्रकाशित करता हूँ वैसे तुम लोग भी इन वाणियों को प्राप्त होओ ॥ ३८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अधिक वा कम चलती शुद्ध हुई नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे ही विद्या शिक्षा और धर्म से पवित्र हुई निश्चल वाणी को प्राप्त होकर अन्व्यों को प्राप्त करावें ॥ ३८ ॥

ऋचे त्वेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । निचृ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

विद्वद्भ्य इतरैरपि विज्ञानं प्राप्यमित्याह ॥

विद्वानों से अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान लेना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । अभूत् विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमग्ने वैश्वानरस्य च ॥ ३९ ॥

ऋचे । त्वा । रुचे । त्वा । भासे । त्वा । ज्योतिषे । त्वा । अभूत् । इदम् । विश्वस्य । भुवनस्य । वाजिनम् । अग्नेः । वैश्वानरस्य । च ॥ ३९ ॥

पदार्थः—(ऋचे) स्तुतये (त्वा) त्वाम् (रुचे) प्रीतये (त्वा) (भासे) विज्ञानाय (त्वा) (ज्योतिषे) न्यायप्रकाशाय (त्वा) (अभूत्) भवेत् (इदम्) (विश्वस्य) सर्वाधिकारस्य जगतः (वाजिनम्) वाजिनां विज्ञानयतामदमषयवभूतं विज्ञानम् (अग्नेः) विद्युदाख्यस्य (वैश्वानरस्य) अखिलेषु नरेषु राजमानस्य (च) ॥ ३९ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यस्य तव विश्वस्य भुवनस्य वैश्वानरस्याग्नेश्च वाजिनमिदं विज्ञानमभूत् जातं तमृचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा वयमाश्रयेम ॥ ३९ ॥

भावार्थः—यस्य मनुष्यस्य सर्वेषां जगत्पदार्थानां यथार्थो बोधः स्यात्तमेव सेवित्वा पदार्थविज्ञानं सर्वैर्मनुष्यैः प्राप्तव्यम् ॥ ३९ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष ! जिस तुझ को (विश्वस्य) समस्त (भुवनस्य) संसार के सब पदार्थों (च) और (वैश्वानरस्य) संपूर्ण मनुष्यों में शोभायमान (अग्नेः) बिजुलीरूप (वाजिनम्) ज्ञानी लोगों का अवयवरूप (इदम्) यह विज्ञान (अभूत्) प्रसिद्ध हुआ है उस (ऋचे) स्तुति

के लिये (त्वा) तुभ्य को (रुचे) प्रीति के वास्ते (त्वा) तुभ्य को (भासे) विज्ञान की प्राप्ति के अर्थ (त्वा) तुभ्य को और (ज्योतिषे) न्याय के प्रकाश के लिये भी (त्वा) तुभ्य को हम लोग आश्रय करते हैं ॥ ३६ ॥

भावार्थ:—जिस मनुष्य को जगत् के पदार्थों का यथार्थ बोध होवे उसी के सेवन से सब मनुष्य पदार्थविद्या को प्राप्त हों ॥ ३६ ॥

अग्निर्ज्योतिषेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥

फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान् । सहस्रदाऽ
असि सहस्राय त्वा ॥ ४० ॥

अग्निः । ज्योतिषा । ज्योतिष्मान् । रुक्मः । वर्चसा । वर्चस्वान् । सहस्रदा
इति सहस्रदाः । असि । सहस्राय । त्वा ॥ ४० ॥

पदार्थ:—(अग्निः) पावकः (ज्योतिषा) दीप्त्या (ज्योतिष्मान्) प्रशस्तप्रकाश-
युक्तः (रुक्मः) सुवर्णमिव (वर्चसा) विद्यादीप्त्या (वर्चस्वान्) विद्याविज्ञानवान्
(सहस्रदाः) सहस्रमसंख्यं सुखं ददातीति (असि) (सहस्राय) अतुलविज्ञानाय
(त्वा) त्वाम् ॥ ४० ॥

अन्वयः—हे, विद्वन् ! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योतिष्मानग्निरिव वर्चसा वर्चस्वान्
रुक्म इव सहस्रदा असि तं त्वां सहस्राय वयं सत्कुर्याम् ॥ ४० ॥

भावार्थ:—अत्र वाचकलुप्तोपमाङ्कारः । मनुष्यैर्योऽग्निर्सूर्यविद्यया प्रकाशमानो
विद्वान् भवेत् तस्मादधीत्य पुष्कला विद्याः स्वीकार्याः ॥ ४० ॥

पदार्थ:—हे विद्वान् पुरुष ! जो आप (ज्योतिषा) विद्या के प्रकाश से (अग्निः) अग्नि के
तुल्य (ज्योतिष्मान्) प्रशंसित प्रकाशयुक्त (वर्चसा) अपने तेज से (वर्चस्वान्) ज्ञान देने वाले और
(रुक्मः) जैसे सुवर्ण सुख देवे वैसे असंख्य सुख के देने वाले (असि) हैं उन (त्वा) आप को
(सहस्राय) अतुल विज्ञान की प्राप्ति के लिये हम लोग सत्कार करें ॥ ४० ॥

भावार्थ:—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि और
सूर्य के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान् पुरुष हों उन से विद्या पद के पूर्ण विद्या के ग्राहक हों ॥ ४० ॥

आदित्यं गर्भमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्ते किं कुर्युरित्याह ॥

फिर वे विद्वान् स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥

आदित्यं गर्भं पर्यसा समङ्घि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ।
परिवृङ्घि हरसा माभि मथस्थाः शतायुषं कृणुहि क्षीयमानः ॥ ४१ ॥

आदित्यम् । गर्भम् । पयसा । सम् । अङ्घ्रि । सहस्रस्य । प्रतिमामिति
प्रतिऽमाम् । विश्वरूपमिति विश्वऽरूपम् । परि । वृद्धि । हरसा । मा । अभि ।
मंस्थाः । शतायुषमिति शतऽक्रायुषम् । वृणुहि । चीयमानः ॥ ४१ ॥

पदार्थः—(आदित्यम्) सूर्यम् (गर्भम्) स्तुतिविषयम् (पयसा) जलेनेव (सम्)
(अङ्घ्रि) शोधय (सहस्रस्य) असंख्यपदार्थसमूहस्य (प्रतिमाम्) प्रतीयन्ते सर्वे
पदार्था यथा ताम् (विश्वरूपम्) सर्वरूपवत्पदार्थदर्शकम् (परि) सर्वतः (वृद्धि)
वर्ज्य (हरसा) ज्वलितेन तेजसा । हर इति ज्वलतो नाम० ॥ निघं० १ । १७ ॥ (मा)
(अभि) (मंस्थाः) मन्येथाः (शतायुषम्) शतवर्षपरिमितजीवनम् (कृणुहि)
(चीयमानः) वृध्यमानः ॥ ४१ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्त्वं यथा विद्युत्पयसा सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं गर्भमादित्यं
धरति तथान्तःकरणं समङ्घ्रि । हरसा रोगान् परिवृद्धि चीयमानः सन् शतायुषं
तनयं कृणुहि कदाचिन्माऽभिमंस्था ॥ ४१ ॥

भावार्थः—हे स्त्रीपुरुषाः ! यूयं सुगन्ध्यादिहोमेन सूर्यप्रकाशं जलं वायुञ्च
शोधयित्वा अरोगा भूत्वा शतायुषस्तनयान् कुरुत । यथा विद्युन्निर्मितेन सूर्येण रूपवतां
पदार्थानां दर्शनं परिमाणं च भवति तथा विद्यावन्त्यपत्यानि भवन्ति तस्मात् कदाचिद-
भिमामिनो भूत्वा प्रमादेन विद्याया आयुषश्च विनाशं मा कुरुत ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष ! आप जैसे बिजुली (पयसा) जल से (सहस्रस्य) असंख्य
पदार्थों की (प्रतिमाम्) परिमाण करने हारे सूर्य के समान निश्चय करने हारी बुद्धि और (विश्वरूपम्)
सब रूप विषय को दिखाने हारे (गर्भम्) स्तुति के योग्य (आदित्यम्) सूर्य को धारण करती है जैसे
अन्तःकरण को (समङ्घ्रि) अच्छे प्रकार शोधिये (हरसा) प्रज्वलित तेज से रोगों को (परि) सब
शोर से (वृद्धि) हटाइये और (चीयमानः) वृद्धि को प्राप्त होके (शतायुषम्) सौ वर्ष की अवस्था
वाले सन्तान को (कृणुहि) कीजिये और कभी (मा) मत (अभिमंस्थाः) अभिमान कीजिये ॥ ४१ ॥

भावार्थः—हे स्त्री पुरुषो ! तुम लोग सुगन्धित पदार्थों के होम से सूर्य के प्रकाश जल और
वायु को शुद्ध कर और रोगरहित होकर सौ वर्ष जीने वाले संतानों को उत्पन्न करो जैसे विद्युत् अग्नि से
बनाये हुए सूर्य से रूप वाले पदार्थों का दर्शन और परिमाण होता है जैसे विद्या वाले सन्तान
सुख दिखाने हारे होते हैं इस से कभी अभिमानी होके विषयासक्ति से विद्या और आयु का विनाश
मत किया करो ॥ ४१ ॥

वातस्य जूतिमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृत्त्रिष्टुक्छन्दः ।

धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तेन किं कार्यमित्याह ॥

फिर विद्वान् पुरुष को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमद्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये ।
शिशुं नदीनां हरिमद्रिबुध्नमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् ॥ ४२ ॥

वातस्य । जूतिम् । वरुणस्य । नाभिम् । अश्वम् । जज्ञानम् । सरिरस्य ।
मध्ये । शिशुम् । नदीनाम् । हरिम् । अद्रिबुध्नमित्याद्रिबुध्नम् । अग्ने । मा ।
हिंसीः । परमे । व्योमन्निति विऽओमन् ॥ ४२ ॥

पदार्थः—(वातस्य) वायोः (जूतिम्) वेगम् (वरुणस्य) जलसमूहस्य (नाभिम्)
बन्धनम् (अश्वम्) व्याप्तुं शीलम् (जज्ञानम्) प्रादुर्भूतम् (सरिरस्य) सलिलस्योदकस्य ।
सलिलमित्युदकना० ॥ निघं० १ । १२ ॥ कपिलकादित्वाद्रेफः (मध्ये) (शिशुम्) बालकम्
(नदीनाम्) (हरिम्) हरमाणम् (अद्रिबुध्नम्) मेघाकाशम् (अग्ने) पाकवद्वर्त्तमान
(मा) (हिंसीः) (परमे) प्रकृष्टे व्योमन् (व्योम्नि) व्याप्ते आकाशे ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे अग्ने विद्वस्त्वं परमे व्योमन् वातस्य मध्ये जूतिमश्वं सरिरस्य
वरुणस्य नाभिं नदीनां जज्ञानं शिशुं बालमिव वर्त्तमानं हरिमद्रिबुध्नं माहिंसीः ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । मनुष्यैः प्रमादेनावकाशे वर्त्तमानं
वायुवेगं वृष्टिप्रबन्धं मेघमहत्वा जीवनं वर्धनीयम् ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वान् ! आप (परमेव्योमन्) सर्वव्याप्त उत्तम आकाश में
(वातस्य) वायु के (मध्ये) मध्य में (जूतिम्) वेगरूप (अश्वम्) अश्व को (सरिरस्य) जलमय
(वरुणस्य) उत्तम समुद्र के (नाभिम्) बन्धन को और (नदीनाम्) नदियों के प्रभाव से (जज्ञानम्)
प्रकट हुए (शिशुम्) बालक के तुल्य वर्त्तमान (हरिम्) नीलवर्णयुक्त (अद्रिबुध्नम्) सूक्ष्म मेघ को
(मा) मत (हिंसीः) नष्ट कीजिये ॥ ४२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाद को
छोड़ के आकाश में वर्त्तमान वायु के वेग और वर्षा के प्रबन्धरूप मेघ का विनाश न करके अपनी २
अवस्था को बड़ावें ॥ ४२ ॥

अजस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनरयं किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह विद्वान् क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अजस्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्तिं नमोभिः । स
पर्वभिर्ऋतुशः कल्पमानो गां मा हिंसीः सरिदिति विराजम् ॥ ४३ ॥

अजस्रम् । इन्दुम् । अरुषम् । भुरण्युम् । अग्निम् । ईडे । पूर्वचित्तिमिति पूर्वऽ
चित्तिम् । नमोभिरिति नमःऽभिः । सः । पर्वभिरिति पर्वऽभिः । ऋतुश इत्यृतुशः ।
कल्पमानः । गाम् । मा । हिंसीः । अदितिम् । विराजमिति विऽराजम् ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(अजस्रम्) निरन्तरम् (इन्दुम्) जलम् (अरुषम्) (अश्वम्) (भुरण्युम्) पोषकम् । अत्र भुरणघातोर्युः प्रत्ययः (अग्निम्) विद्युतम् (ईडे) अध्यन्विच्छामि (पूर्वचित्तिम्) पूर्वा चित्तिश्चयनं यस्य तम् (नमोभिः) अन्नैः (सः) (पर्वभिः) पूर्णैः साधनाङ्गैः (ऋतुशः) बह्वृत्तून् (कल्पमानः) समर्थः सन् (गाम्) पृथिवीम् (मा) (हिंसीः) हिंस्याः (अदितिम्) अखण्डिताम् (विराजम्) विविधैः पदार्थै राजमानाम् ॥ ४३ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यथाहं पर्वभिर्नमोभिः सह वर्त्तमानमिन्दुमरुषं भुरण्युं पूर्वचित्तिमग्निमजस्रमीडे तमृतुशः कल्पमानः सन्नदितिं विराजं गां न नाशयामि तथैव स त्वमेतमेनां च मा हिंसीः ॥ ४३ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्ऋत्वनुकूलतया क्रिययाऽग्निर्जलमन्नं च संसेव्य राजभूमिः सदैव रक्षणीया । यतः सर्वाणि सुखानि स्युः ॥ ४३ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष ! जैसे मैं (पर्वभिः) पूर्ण साधन युक्त (नमोभिः) अन्नों के साथ वर्त्तमान (इन्दुम्) जलरूप (अरुषम्) ऋषे के सदृश (भुरण्युम्) पोषण करने वाली (पूर्वचित्तिम्) प्रथम निर्मित (अग्निम्) बिजुली को (अजस्रम्) निरन्तर (ईडे) अधिकता से खोजता हूँ उस को (ऋतुशः) प्रति ऋतु में (कल्पमानः) समर्थ होके करता हुआ (अदितिम्) अखण्डित (विराजम्) विविध प्रकार के पदार्थों से शोभायमान (गाम्) पृथिवी को नष्ट नहीं करता हूँ वैसे ही (सः) सो आप इस अग्नि और इस पृथिवी को (मा) मत (हिंसीः) नष्ट कीजिये ॥ ४३ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को योग्य है कि ऋतुओं के अनुकूल क्रिया से अग्नि जल और अन्न का सेवन करके राज्य और पृथिवी को सदैव रक्षा करें जिस से सब सुख प्राप्त हों ॥ ४३ ॥

वरुत्रीमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृत्त्रिण्डुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तेन किं न कार्यमित्याह ॥

फिर उस विद्वान् को क्या नहीं करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

वरुत्रीं त्वष्टुर्वरुणस्य नाभिमविं जज्ञानात्परजसः परस्मात् ।
महीं साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् ॥ ४४ ॥

वरुत्रीम् । त्वष्टुः । वरुणस्य । नाभिम्विं । अविम् । जज्ञानाम् । रजसः ।
परस्मात् । महीम् । साहस्रीम् । असुरस्य । मायाम् । अग्ने । मा । हिंसीः ।
परमे । व्योमन्निति विऽओमन् ॥ ४४ ॥

पदार्थः—(वरुत्रीम्) वरुधित्रीम् (त्वष्टुः) छेदकस्य सूर्यस्य (वरुणस्य) जलस्य (नाभिम्विं) बन्धिकाम् (अविम्) रक्षणादिनिमित्ताम् (जज्ञानाम्) प्रजाताम् (रजसः) लोकात् (परस्मात्) श्रेष्ठात् (महीम्) महतीं भूमिम् (साहस्रीम्) असंख्यातां बहुफलप्रदाम् (असुरस्य) मेघस्य (मायाम्) प्रज्ञापिकां विद्युतम् (अग्ने) विद्वन् (मा) (हिंसीः) हिंस्याः (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन्) आकाशवद् व्याप्ते ब्रह्मणि ॥ ४४ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! त्वं त्वष्टुर्वरूत्रां वरुणस्य नाभिं परस्माद्रजसो जज्ञानामसुरस्य मायां साहस्रीमविं परमे व्योमन्वर्त्तमानां मर्हा माहिंसीः ॥ ४४ ॥

भावार्थः—सर्वैर्मनुष्यैर्येयं पृथिवी परस्मात्कारणाज्जाता सूर्याकर्षणसम्बन्धिनी जलाधारा मेघनिमित्ता बहुभूगोलाकाराऽसंख्यसुखप्रदा परमेश्वरेण निर्मिताऽस्ति तां गुणकर्मस्वभावतो विज्ञाय सुखाय समुपयोक्तव्या ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् पुरुष ! आप (त्वष्टुः) छेदनकर्ता सूर्य के (वरूत्राम्) ग्रहण करने योग्य (वरुणस्य) जल की (नाभिम्) रोकने हारी (परस्मात्) श्रेष्ठ (रजसः) लोक से (जज्ञानाम्) उत्पन्न हुई (असुरस्य) मेघ की (मायाम्) जताने वाली बिजुली को और (साहस्रीम्) असंख्य भूगोलयुक्त बहुत फल देने हारी (अविम्) रक्षा आदि का निमित्त (परमे) सब से उत्तम (व्योमन्) आकाश के समान ध्याप्त जगदीश्वर में वर्त्तमान (महीम्) विस्तारयुक्त पृथिवी को (मा) मत (हिंसीः) नष्ट कीजिये ॥ ४४ ॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि जो यह पृथिवी उत्तम कारण से उत्पन्न हुई सूर्य जिसका आकर्षणकर्ता जल का आधार मेघ का निमित्त असंख्य सुख देनेहारी परमेश्वर ने रची है उसको गुण कर्म और स्वभाव से जानके सुख के लिये उपयुक्त करें ॥ ४४ ॥

यो अग्निरित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनरनेन किं कार्यमित्याह ॥

फिर इस विद्वान् को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

योऽअग्निर्गग्नेरध्यजायत शोकात्पृथिव्याऽउत वा दिवस्परि । येन प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेडः परि ते वृणक्तु ॥ ४५ ॥

यः । अग्निः । अग्नेः । अग्निः । अजायत । शोकात् । पृथिव्याः । उत । वा । दिवः । परि । येन । प्रजा इति प्रजाः । विश्वकर्मेति विश्वकर्मा । जजान । तम् । अग्ने । हेडः । परि । ते । वृणक्तु ॥ ४५ ॥

पदार्थः—(यः) (अग्निः) चाक्षुषः (अग्नेः) विद्युदाख्यात् (अग्निः) (अजायत) जायते (शोकात्) शोषकात् (पृथिव्याः) (उत) (वा) (दिवः) सूर्यात् (परि) सर्वतः (येन) (प्रजाः) (विश्वकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य सः (जजान) जनयति (तम्) (अग्ने) विद्वन् (हेडः) अनादरः (परि) (ते) तव (वृणक्तु) छिन्नो भवतु ॥ ४५ ॥

अन्वयः—हे अग्ने विद्वन् ! यः पृथिव्याः शोकाद्दुत वा दिवोऽग्नेरध्यजायत । येन विश्वकर्मा प्रजाः परिजजान तं ते हेडः परिवृणक्तु ॥ ४५ ॥

भावार्थः—हे विद्वान् ! यूयं योऽग्निः पृथिवीं भित्तोत्पद्यते यश्च सूर्यादेस्तमाद्विघ्नकारिणोऽग्नेः सर्वान् प्राणिनः पृथग्रक्षत । येनाग्निनेश्वरः सर्वान् रक्षति तद्विघ्नां विजानीत ॥ ४५ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वान् जन ! (यः) जो (पृथिव्याः) पृथिवी के (शोकात्) सुखाने हारे अग्नि (उत वा) अथवा (दिवः) सूर्य से (अग्नेः) बिजुलीरूप अग्नि से (अग्निः) प्रत्यक्ष अग्नि (अध्यजायत) उत्पन्न होता है (येन) जिस से (विश्वकर्मा) सब कर्मों का आधार ईश्वर (प्रजाः) प्रजाओं को (परि) सब ओर से (जजान) रचता है (तम्) उस अग्नि को (ते) तेरा (हेऽः) क्रोध (परिवृणक्तु) सब प्रकार से छेदन करे ॥ ४५ ॥

भावार्थः—हे विद्वानो ! तुम लोग जो अग्नि पृथिवी को फोड़ के और जो सूर्य के प्रकाश से बिजुली निकलती है उस विघ्नकारी अग्नि से सब प्राणियों को रक्षित रखो और जिस अग्नि से ईश्वर सब की रक्षा करता है उस अग्नि की विघा जानो ॥ ४५ ॥

चित्रं देवानामित्यस्य विरूप ऋषिः । सूर्यो देवता । निचृत्त्रिण्डुप्लन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथेश्वरः कीदृशोऽस्तीत्याह ॥

अब ईश्वर कैसा है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ प्रा
द्यावां पृथिवीऽअन्तरिक्षं सूर्योऽआत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ४६ ॥

चित्रम् । देवानाम् । उत् । अगात् । अनीकम् । चक्षुः । मित्रस्य ।
वरुणस्य । अग्नेः । आ । अप्राः । द्यावापृथिवीऽइति द्यावापृथिवी । अन्तरिक्षम् ।
सूर्यः । आत्मा । जगतः । तस्थुषः । च ॥ ४६ ॥

पदार्थः—(चित्रम्) अद्भुतम् (देवानाम्) पृथिव्यादीनां मध्ये (उत्) (अगात्) उदितोऽस्ति (अनीकम्) सेनेव किरणसमूहम् (चक्षुः) दर्शकम् (मित्रस्य) प्राणस्य (वरुणस्य) उदानस्य (अग्नेः) प्रसिद्धस्य (आ) (अप्राः) व्याप्नोति (द्यावापृथिवी) प्रकाशाप्रकाशे जगती (अन्तरिक्षम्) आकाशम् (सूर्यः) सविता (आत्मा) सर्वस्यान्तर्यामी (जगतः) जङ्गमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (च) ॥ ४६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः ! भवन्तो यद् ब्रह्म देवानां चित्रमनीकं मित्रस्य वरुणस्याग्नेश्चक्षुः सूर्य इवोद्गाजगतस्तस्थुषश्चात्मा सद् द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं चाप्रास्तजगन्निर्मातृ पातृ संहर्तृ व्यापकं सततमुपसर्तिन् ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । न खल्विदं निष्कर्तृकमनधिष्ठातृकमनीश्वरं जगदस्ति । यद् ब्रह्म सर्वान्तर्यामि सर्वेषां जीवानां पापपुण्यफलदानव्यवस्थापकमनन्तज्ञानप्रकाशं वर्त्तते तदेवोपास्य धर्मार्थकाममोक्षफलानि मनुष्यैराप्तव्यानि ॥ ४६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग जो जगदीश्वर (देवानाम्) पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों के बीच (चित्रम्) आश्चर्यरूप (अनीकम्) सेना के समान किरणों से युक्त (मित्रस्य) प्राण (वरुणस्य) उदान और (अग्नेः) प्रसिद्ध अग्नि के (चक्षुः) दिखाने वाले (सूर्यः) सूर्य के समान (उद्गात्) उदय को प्राप्त हो रहा है उस के समान (जगतः) चेतन (च) और (तस्थुषः) जब जगात् का

(आत्मा) अन्तर्यामी हो के (चावापृथिवी) प्रकाश अप्रकाशरूप जगत् और (अन्तरिक्षम्) आकाश को (आ) अच्छे प्रकार (अत्राः) व्याप्त हो रहा है उसी जगत् के रचने पालन करने और संहार प्रलय करने हारे व्यापक ब्रह्म की निरन्तर उपासना किया करो ॥ ४६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह जगत् ऐसा नहीं कि जिस का कर्ता अधिष्ठाता वा ईश्वर कोई न होवे जो ईश्वर सब का अन्तर्यामी सब जीवों के पाप पुण्यों के फलों की व्यवस्था करने हारा और अनन्त ज्ञान का प्रकाश करने हारा है उसी की उपासना से धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को सब मनुष्य प्राप्त हों ॥ ४६ ॥

इमं मेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड् ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः ।

पञ्चमः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्येण किं कार्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इमं माहिँसीद्विपादं पशुं सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । मयुं पशुं मेधमग्ने जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । मयुं ते शुग्च्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग्च्छतु ॥ ४७ ॥

इमम् । मा । हिँसीः । द्विपादमिति द्विपादम् । पशुम् । सहस्राक्ष इति सहस्रञ्छ्वः । मेधाय । चीयमानः । मयुम् । पशुम् । मेधम् । अग्ने । जुषस्व । तेन । चिन्वानः । तन्वः । नि । सीद । मयुम् । ते । शुक् । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः । तम् । ते । शुक् । ऋच्छतु ॥ ४७ ॥

पदार्थः—(इमम्) (मा) (हिँसीः) हिँस्याः (द्विपादम्) मनुष्यादिकम् (पशुम्) चतुष्पादं गधादिकम् (सहस्राक्षः) असंख्यदर्शनः (मेधाय) सुखसंगमाय (चीयमानः) वर्धमानः (मयुम्) जाङ्गलम् (पशुम्) प्रसिद्धम् (मेधम्) पवित्रकारकम् (अग्ने) पावक इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुषस्व) प्रीणीहि (तेन) (चिन्वानः) वर्धमानः (तन्वः) शरीरस्य मध्ये पुष्टः सन् (नि) नितराम् (सीद) तिष्ठ (मयुम्) शस्यादिहिंसकं पशुम् (ते) तव (शुक्) शोकः भावे क्विप् (ऋच्छतु) प्राप्नोतु (यम्) शत्रुम् (द्विष्मः) अप्रीतयामः (तम्) (ते) तव सकाशात् (शुक्) शोकः (ऋच्छतु) ॥ ४७ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! पावक इव मनुष्य मेधाय चीयमानः सहस्राक्षस्त्वमिमं द्विपादं मेधं मयुं पशुं च मा हिँसीः तं पशुं जुषस्व तेन चिन्वानः सन् तन्वो मध्ये निषीद । इयं ते शुग्च्छतु मयुच्छतु । ते तव यं शत्रुं वयं द्विष्मस्तं शुग्च्छतु ॥ ४७ ॥

भावार्थः—केनापि मनुष्येणोपकारकाः पशवः कदाचिन्न हिंसनीयाः किन्वेतान् संपालयैतेभ्य उपकारं संगृह्य सर्वे मनुष्या आनन्दयितव्या यैर्जागलैर्हिंसकैः पशुशस्य-मनुष्याणां हानिः स्यात्ते तु राजपुरुषैर्हन्तव्या निग्रहीतव्याश्च ॥ ४७ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए (मेघाय) सुख की प्राप्ति के लिये (चीयमानः) बढ़े हुए (सहस्राक्षः) हजारह प्रकार की दृष्टि वाले राजन् ! तू (इमम्) इस (द्विपादम्) दो पग वाले मनुष्यादि और (मेघम्) पवित्रकारक फलप्रद (मयुम्) जंगली (पशुम्) गवादि पशु जीव को (मा) मत (हिंसीः) मारा कर उस (पशुम्) पशु की (जुषस्व) सेवा कर (तेन) उस पशु से (चिन्वानः) बढ़ता हुआ तू (तन्वः) शरीर में (निषीद) निरन्तर स्थिर हो यह (ते) तेरे से (शुक्) शोक (मयुम्) शस्यादिनाशक जंगली पशु को (ऋच्छतु) प्राप्त होवे (ते) तेरे (यम्) जिस शत्रु से हम लोग (द्विष्मः) द्वेष करें (तम्) उस को (शुक्) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ ४७ ॥

भावार्थः—कोई भी मनुष्य सब के उपकार करने हारे पशुओं को कभी न मारे किन्तु इन की अच्छे प्रकार रक्षा कर और इन से उपकार लेके सब मनुष्यों को आनन्द देवे जिन जंगली पशुओं से ग्राम के पशु खेती और मनुष्यों की हानि हो उन को राजपुरुष मारें और बन्धन करें ॥ ४७ ॥

इमं मेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः ॥

पुनरयं मनुष्यः किं कुर्यादित्याह ॥

फिर यह मनुष्य क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इमं मा हिंसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । गौरमा-
रण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । गौरं ते शुगृच्छतु यं
द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४८ ॥

इमम् । मा । हिंसीः । एकशफमित्येकशफम् । पशुम् । कनिक्रदम् ।
वाजिनम् । वाजिनेषु । गौरम् । आरण्यम् । अनु । ते । दिशामि । तेन ।
चिन्वानः । तन्वः । नि । सीद । गौरम् । ते । शुक् । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः ।
तम् । ते । शुक् । ऋच्छतु ॥ ४८ ॥

पदार्थः—(इमम्) (मा) (हिंसीः) हिंसाः (एकशफम्) एकखुरमश्वदिकम्
(पशुम्) द्रष्टव्यम् (कनिक्रदम्) भृशं विकलं प्राप्तव्यथम् (वाजिनम्) वेगवन्तम्
(वाजिनेषु) वाजिनानां संग्रामाणामवयवेषु कर्मसु कार्यसिद्धिकरम् (गौरम्) गौरवर्णम्
(आरण्यम्) अरण्ये भवम् (अनु) (ते) तुभ्यम् (दिशामि) उपदिशामि (तेन)
(चिन्वानः) वर्द्धमानः (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (नि) (सीद) (गौरम्) (ते)
इत्यादि पूर्ववत् ॥ ४८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्य ! त्वं वाजिनेष्विममेकशफं कनिक्रदं वाजिनं पशुं माहिंसीः ।
ईश्वरोऽहं ते तुभ्यं यमारण्यं गौरं पशुमनु दिशामि तेन चिन्वानः सैस्तन्वो मध्ये निषीद ।
ते तव सकाशाद् गौरं शुगृच्छतु यं वयं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४८ ॥

भाषार्थः—मनुष्यैरेकशफा अश्वादयः पशवः कदाचिन्नो हिंस्याः । न चोपकारका
आरण्याः । येषां हननेन जगतो हानीरक्षणेनोपकारश्च भवति ते सदैव पालनीया हिंसाश्च
हन्तव्याः ॥ ४८ ॥

पदार्थः—हे राजन् ! तू (वाजिनेषु) संग्राम के कामों में (इमम्) इस (एकशफम्)
एकसुरयुक्त (कनिकदम्) शीघ्र विकल ध्यथा को प्राप्त हुए (वाजिनम्) वेगवाले (पशुम्) देखने
बोनेष घोड़े आदि पशु को (मा) (हिंसीः) मत्त मार मैं ईश्वर (ते) तेरे लिये (यम्) जिस
(आरण्यम्) जङ्गली (गौरम्) गौरपशु की (दिशामि) शिखा करता हूँ (तेन) उस के रक्षण से
(चिन्वानः) वृद्धि को प्राप्त हुआ (तन्वः) शरीर में (निषीद) निरन्तर स्थिर हो (ते) तेरे से
(गौरम्) श्वेत वर्ण वाले पशु के प्रति (शुक्) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्)
जिस शत्रु को हम लोग (द्विष्मः) द्वेष करें (तम्) उस को (ते) तुझ से (शुक्) शोक
(ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥

भाषार्थः—मनुष्यों को उचित है कि एक सूर वाले घोड़े आदि पशुओं और उपकारक वन के
पशुओं को भी कभी न मारें जिन के मारने से जगत् की हानि और न मारने से सब का उपकार होता है
उन का सदैव पालन पोषण करें और जो हानिकारक पशु हों उनको मारें ॥ ४८ ॥

इमं साहस्रमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । कृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः के पशवो नो हिंसनीया हिंसनीयाश्चेत्याह ॥

फिर मनुष्यों को कौन पशु न मारने और कौन मारने चाहियें
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इमं साहस्रं शतधारमुत्सं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये ।
घृतं दुहानामदितिं जनायागनें मा हिंसीः परमे व्योमन् । गवयमा-
रण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । गवयं ते शुगृच्छतु
यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ४९ ॥

इमम् । साहस्रम् । शतधारमिति शतधारम् । उत्सम् । व्यच्यमानमिति
विऽअच्यमानम् । सरिरस्य । मध्ये । घृतम् । दुहानाम् । अदितिम् । जनाय ।
अग्ने । मा । हिंसीः । परमे । व्योमन्निति विऽओमन् । गवयम् । आरण्यम् ।
अनु । ते । दिशामि । तेन । चिन्वानः । तन्वः । नि । सीद । गवयम् । ते ।
शुक् । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः । तम् । ते । शुक् । ऋच्छतु ॥ ४९ ॥

पदार्थः—(इमम्) (साहस्रम्) सहस्रस्यासंख्यातानां सुखानामयं साधकस्तम्
(शतधारम्) शतमसंख्याता दुग्धधारा यस्मात्तम् (उत्सम्) कूपमिव पालकं गवादिक्म
(व्यच्यमानम्) विविधप्रकारेण पालनीयम् (सरिरस्य) अन्तरिक्षस्य (मध्ये) (घृतम्)
आज्यम् (दुहानाम्) प्रपूरयन्तीम् (अदितिम्) अखण्डनीयां गाम् (जनाय) मनुष्याद्याय

प्राणिने (अग्ने) विवेकप्राप्तोपकारप्रकाशक राजन् (मा) (हिंसीः) (परमे) प्रकृष्टे
(व्योमन्) व्योम्नि व्याप्तेऽन्तरिक्षे वर्त्तमानाम् (गवयम्) गोसदृशम् (आरण्यम्)
(अनु) (ते) (दिशामि) (तेन) (चिन्वानः) पुष्टः सन् (तन्वः) (नि) (सीद)
(गवयम्) (ते) (शुक्) शोकः (ऋच्छतु) (यम्) (द्विष्मः) (तम्) (ते) (शुक्)
(ऋच्छतु) ॥ ४६ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! त्वं जनायेमं साहस्रं शतधारं व्यच्यमानमुत्समिव वीर्यसेचकं
वृषभं घृतं दुहानामदिति धेनुं च मा हिंसीस्ते तुभ्यमपरमारण्यं गवयमनुदिशामि तेन
परमे व्योमन् सरिरस्य मध्ये चिन्वानः संस्तन्वो निषीद । तं गवयं ते शुगृच्छतु यन्ते शत्रुं
षयं द्विष्मस्तमति शुगृच्छतु शोकः प्राप्नोतु ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । राजमनुष्या येभ्यो वृषादिभ्यः कृष्या-
दीनि कर्माणि भवन्ति । याभ्यो गवादिभ्यो दुग्धादिपदार्था जायन्ते यैः सर्वेषां रक्षणं
भवति ते कदाचिन्नैव हिंसनीयाः य एतान् हिंस्युस्तेभ्यो राजादिन्यायेशा अतिदण्डं
दद्युर्ये च जाङ्गला गवयादयो प्रजाहानिं कुर्युस्ते हन्तव्याः ॥ ४६ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) दया को प्राप्त हुए परोपकारक राजन् ! तू (जनाय) मनुष्यादि प्राणी
के लिये (इमम्) इस (साहस्रम्) असंख्य सुखों का साधन (शतधारम्) असंख्य दूध की धाराओं के
निमित्त (व्यच्यमानम्) अनेक प्रकार से पालन के योग्य (उत्सम्) कुप के समान रक्षा करने हारे
वीर्यसेचक बैल और (घृतम्) घी को (दुहानाम्) पूर्य करती हुई (अदितिम्) नहीं मारने योग्य
गौ को (माहिंसीः) मत मार और (ते) तेरे राज्य में जिस (आरण्यम्) वन में रहने वाले
(गवयम्) गौ के समान नीलगाय से खेती की हानि होती हो तो उस को (अनुदिशामि) उपदेश
करता हूँ (तेन) उस के मारने से सुरक्षित अन्न से (परमे) उत्कृष्ट (व्योमन्) सर्वत्र व्यापक परमात्मा
और (सरिरस्य) विस्तृत व्यापक आकाश के (मध्ये) मध्य में (चिन्वानः) वृद्धि को प्राप्त हुआ तू
(तन्वः) शरीर मध्य में (निषीद) निवास कर (ते) तेरा (शुक्) शोक (तम्) उस (गवयम्)
रोक को (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्) जिस (ते) तेरे शत्रु का (द्विष्मः) हम लोग द्वेष करें
उस को भी (शुक्) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ ४६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो ! तुम लोगों को चाहिये कि
जिन बैल आदि पशुओं के प्रभाव से खेती आदि काम, जिन गौ आदि से दूध घी आदि उत्तम पदार्थ
होते हैं कि जिन के दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती है उन को कभी मत मारो और जो जन
इन उपकारक पशुओं को मारें उनको राजादि न्यायाधीश अत्यन्त दण्ड देवें और जो जंगल में रहने
वाले नीलगाय आदि प्रजा की हानि करें वे मारने योग्य हैं ॥ ४६ ॥

इममूर्णायुमित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । कृतिरुद्धन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः के पशवो न हिंस्या हिंस्याश्चेत्याह ॥

फिर किन पशुओं को न मारना और किन को मारना चाहिये
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इममूर्णायुं वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम् ।
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन् ।
उष्ट्रमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । उष्ट्रं ते
शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ५० ॥

इमम् । ऊर्णायुम् । वरुणस्य । नाभिम् । त्वचम् । पशूनाम् । द्विपदामिति
द्विऽपदाम् । चतुष्पदाम् । चतुःपदामिति चतुःऽपदाम् । त्वष्टुः । प्रजानामिति
प्रऽजानाम् । प्रथमम् । जनित्रम् । अग्ने । मा । हिंसीः । परमे । व्योमन्निति
विऽत्रोमन् । उष्ट्रम् । आरण्यम् । अनु । ते । दिशामि । तेन । चिन्वानः ।
तन्वः । नि । सीद । उष्ट्रम् । ते । शुक् । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः । तम् । ते ।
शुक् । ऋच्छतु ॥ ५० ॥

पदार्थः—(इमम्) (ऊर्णायुम्) अविम् (वरुणस्य) वरस्य प्राप्तव्यस्य सुखस्य
(नाभिम्) निबन्धनम् (त्वचम्) (पशूनाम्) (द्विपदाम्) (चतुष्पदाम्) (त्वष्टुः)
सुखप्रकाशकस्य (प्रजानाम्) (प्रथमम्) आदिमम् (जनित्रम्) उत्पत्तिनिमित्तम्
(अग्ने) (मा) (हिंसीः) हिंस्याः (परमे) (व्योमन्) (उष्ट्रम्) (आरण्यम्) अरण्ये
भवम् (अनु) (ते) (दिशामि) (तेन) (चिन्वानः) (तन्वः) (नि) (सीद)
(उष्ट्रम्) इत्यादि पूर्ववत् ॥ ५० ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! प्राप्तविद्य राजंस्त्वमिमं वरुणस्य नाभिं द्विपदां चतुष्पदां
पशूनां त्वचं त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रं परमे व्योमन्वर्त्तमानमूर्णायुं माहिंसीः । ते यं
धान्यहिंसकमारण्यमुष्ट्रं हन्तुमनुदिशामि तेन चिन्वानः संस्तन्वो मध्ये निषीद । ते
शुगारण्यमुष्ट्रमुच्छतु यं ते द्वेषारं वयं द्विष्मस्तं शुगृच्छतु ॥ ५० ॥

भावार्थः—हे राजन् ! येषामव्यादीनां लोमानि त्वगपि मनुष्याणां सुखाय प्रभवति
य उष्ट्रा भारं वहन्तो मनुष्यान् सुखयन्ति तान् ये हन्तुमिच्छेयुस्ते जगत्पीडका विज्ञेयाः
सम्यग् दण्डनीयाश्च ये चारण्या उष्ट्रा हानिकरास्तेपि दण्डनीयाः ॥ ५० ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्या को प्राप्त हुए राजन् ! तू (वरुणस्य) प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ
सुख के (नाभिम्) संयोग करने हारे (इमम्) इस (द्विपदाम् दो पगवाले मनुष्य पत्नी आदि
(चतुष्पदाम्) चार पगवाले (पशूनाम्) गाय आदि पशुओं की (त्वचम्) चमड़े से ढांकने वाले और
(त्वष्टुः) सुखप्रकाशक ईश्वर की (प्रजानाम्) प्रजाओं के (प्रथमम्) आदि (जनित्रम्) उत्पत्ति के
निमित्त (परमे) उत्तम (व्योमन्) आकाश में वर्त्तमान (ऊर्णायुम्) भेड़ आदि को (मा हिंसीः)
मत मार (ते) तेरे लिये मैं ईश्वर (यम्) जिस (आरण्यम्) बनेले (उष्ट्रम्) हिंसक ऊँट को
(अनुदिशामि) बतलाता हूँ (तेन) उस से सुरक्षित अन्नादि से (चिन्वानः) बढ़ता हुआ (तन्वः)

शरीर में (निषीद) निवास कर (ते) तेरा (शुक्) शोक, उस जंगली ऊंट को (ऋच्छतु) प्राप्त हो और जिस द्वेषीजन से हम लोग (द्विष्मः) अप्रीति करें (तम्) उस को (ते) तेरा (शुक्) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ ५० ॥

भावार्थः—हे राजन् ! जिन भेद आदि के रोम और वचा मनुष्यों के सुख के लिये होती हैं और जो ऊंट भार उठाते हुए मनुष्यों को सुख देते हैं उन को जो दुष्टजन मारा चाहें उन को संसार के दुःखदायी समझो और उनको अच्छे प्रकार दण्ड देना चाहिये ॥ ५० ॥

अज इत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । सुरिकृतिरछन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनर्मुण्यैः के पशवो न हन्तव्या के च हन्तव्या इत्याह ॥

फिर मनुष्यों को कौनसे पशु न मारने और कौनसे मारने चाहियें
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सोऽप्रपश्यज्जनितारमग्रै । तेन देवा
देवतामग्रमायुंस्तेन रोहमायन्नुपमेध्यासः । शरभमारण्यमनु त
दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । शरभं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं
ते शुगृच्छतु ॥ ५१ ॥

अजः । हि । अग्नेः । अजनिष्ट । शोकात् । सः । अपश्यत् । जनितारम् ।
अग्रै । तेन । देवाः । देवताम् । अग्रम् । आयन् । तेन । रोहम् । आयन् । उप ।
मेध्यासः । शरभम् । आरण्यम् । अनु । ते । दिशामि । तेन । चिन्वानः ।
तन्वः । नि । सीद । शरभम् । ते । शुक् । ऋच्छतु । यम् । द्विष्मः । तम् ।
ते । शुक् । ऋच्छतु ॥ ५१ ॥

पदार्थः—(अजः) छागः (हि) खलु (अग्नेः) पावकात् (अजनिष्ट) जायते
(शोकात्) (सः) (अपश्यत्) पश्यति (जनितारम्) उत्पादकम् (अग्रै) (तेन)
(देवाः) विद्वांसः (देवताम्) दिव्यगुणताम् (अग्रम्) उत्तमं सुखम् (आयन्) यन्ति
प्राप्नुवन्ति (तेन) (रोहम्) प्रादुर्भावम् (आयन्) प्राप्नुवन्तु (उप) (मेध्यासः)
पवित्राः सन्तः (शरभम्) शल्यकम् (आरण्यम्) जंगलोत्पन्नम् (अनु) (ते) (दिशामि)
(तेन) (चिन्वानः) अग्ने पूर्ववत् ॥ ५१ ॥

अन्वयः—हे राजस्त्वं यो ह्यजोऽजनिष्ट सोऽग्रै जनितारमपश्यत् । येन मेध्यासो
देवा अग्रं देवतां सुखमुपायन् येन रोहमुपायन् तेनोत्तमगुणतामग्रं सुखं तेन वृद्धि च
प्राप्नुहि यमारण्यं शरभं तेऽनुदिशामि तेन चिन्वानः संस्तन्वो निषीद तं ते शुगृच्छतु यं
ते तवार्ति वयं द्विष्मस्तं शोकादग्नेः शुगृच्छतु ॥ ५१ ॥

भावार्थः—राजजनैरजादीनऽहत्वा संरक्ष्यैते उपकाराय संयोजनीयाः । ये शुभपशुपक्षिर्हिसका भवेयुस्ते भृशं ताडनीयाः । यदि शल्यकी हानिकारिका स्यात्तर्हि सा प्रजापालनाय हन्तव्या ॥ ५१ ॥

पदार्थः—हे राजन् ! तू जो (हि) निश्चित (अजः) बकरा (अजनिष्ट) उत्पन्न होता है (सः) वह (अग्र) प्रथम (जनितारम्) उत्पादक को (अपश्यत्) देखता है जिस से (मेध्यासः) पवित्र हुए (देवाः) विद्वान् (अग्रम्) उत्तम सुख और (देवताम्) दिव्यगुणों के (उपायन्) उपाय को प्राप्त होते हैं और जिससे (रोहम्) वृद्धियुक्त प्रसिद्धि को (आयन्) प्राप्त हों (तेन) उस से उत्तम गुणों उत्तम सुख तथा (तेन) उस से वृद्धि को प्राप्त हो जो (आरग्यम्) बनैली (शरभम्) शेही (ते) तेरी प्रजा को हानि देने वाली है उस को (अनुदिशामि) बतलाता हूँ (तेन) उस से बचाए हुए पदार्थ से (चिन्वानः) बढ़ता हुआ (तन्वः) शरीर में (निषीद) निवास कर और (तम्) उस (शरभम्) शल्यकी को (ते) तेरा (शुक्) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो और (ते) तेरे (यम्) जिस शत्रु से हम लोग (द्विष्मः) द्वेष करें उसको (शोकात्) शोकरूप (अभनेः) अग्नि से (शुक्) शोक अर्थात् शोक से बढ़ कर शोक अत्यन्तशोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे ॥ ५१ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को उचित है कि बकरे और मोर आदि श्रेष्ठ पक्षियों को न मारें और इनकी रक्षा कर के उपकार के लिये संयुक्त करें और जो अच्छे पशुओं और पक्षियों के मारने वाले हों उनको शीघ्र ताड़ना दें । हां जो खेती को उजाड़ने हारे रथाही आदि पशु हैं उन को प्रजा की रक्षा के लिये मारें ॥ ५१ ॥

त्वं यविष्टेत्यस्योशना ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥
पुनः कीदृशा रक्ष्या हिंसनीयाश्चेत्याह ॥

फिर कैसे पशुओं की रक्षा करना और इनना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥
त्वं यविष्ट दाशुषो नूः पाहि शृणुधी गिरः । रक्षां तोकमुत
त्मना ॥ ५२ ॥

त्वम् । यविष्ट । दाशुषः । नून् । पाहि । शृणुधि । गिरः । रक्ष । तोकम् ।
उत । त्मना ॥ ५२ ॥

पदार्थः—(त्वम्) (यविष्ट) अतिशयेन युवन् (दाशुषः) सुखदातृन् (नून्) धर्मनेतृन्मनुष्यान् । अत्र नून् पे इति रुादेशः पूर्वस्यानुनासिकत्वं च (पाहि) (शृणुधि) अत्र हेर्ध्यादेशाऽन्येषामपीति दीर्घः (गिरः) सत्या वाचः । अत्र द्व्यच्चाऽतस्तिङ् इति दीर्घः (तोकम्) अपत्यम् (उत) अपि (त्मना) आत्मना ॥ ५२ ॥

अन्वयः—हे यविष्ट ! त्वं संरक्षितैरैतैः पशुभिर्दाशुषो नृन्पाहि । इमा गिरः शृणुधि त्मना मनुष्याणामुत पशुनां तोकं रक्ष ॥ ५२ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या मनुष्यादिरक्षकान् पशुन् वर्धयन्ते करुणामयानुपदेशान् शृण्वन्ति भाषयन्ति त आत्मजं सुखं लभन्ते ॥ ५२ ॥

पदार्थः—हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवा ! (त्वम्) तू रक्षा किये हुए इन पशुओं से (दाशुषः) सुखदाता (नृन्) धर्मरक्षक मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर इन (गिरः) सत्य वाणियों को (शृणुधि) सुन और (त्मना) अपने आत्मा से मनुष्य (उत्) और पशुओं के (तोकम्) बच्चों की (रक्ष) रक्षा कर ॥ ५२ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य मनुष्यादि प्राणियों के रक्षक पशुओं को बहाते हैं और कृपामय उपदेशों को सुनते सुनाते हैं वे आन्तर्य सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

अपां त्वेमन्नित्यस्योशना ऋषिः । आपो देवताः । पूर्वस्य ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः ।

पञ्चमः स्वरः । सरिरेत्वेति मध्यस्य ब्राह्मी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ।

गायत्रेणेत्युत्तरस्य निचृद् ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथाध्येतृजनानध्यापकाः किमुपदिशेयुरित्याह ॥

अब पढ़ने वालों को पढ़ाने वाले क्या उपदेश करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोद्भन्त्सादयाम्यपान्त्वा भस्मन्त्साद-
याम्यपां त्वा ज्योतिषि सादयाम्यपां त्वार्यने सादयाम्यर्णवे त्वा
सर्दने सादयामि समुद्रे त्वा सर्दने सादयामि । सरिरे त्वा सर्दने
सादयाम्यपां त्वा क्षर्ये सादयाम्यपां त्वा सधिषि सादयाम्यपां त्वा
सर्दने सादयाम्यपां त्वा सधस्थे सादयाम्यपां त्वा योनौ सादयाम्यपां
त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्वा पार्थसि सादयामि गायत्रेण त्वा
छन्दसा सादयामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि जागतेन त्वा
छन्दसा सादयाम्यानुष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि पाङ्क्तैन त्वा
छन्दसा सादयामि ॥ ५३ ॥

अपाम् । त्वा । एमन् । सादयामि । अपाम् । त्वा । ओद्भन् । सादयामि ।
अपाम् । त्वा । भस्मन् । सादयामि । अपाम् । त्वा । ज्योतिषि । सादयामि ।
अपाम् । त्वा । अर्यने । सादयामि । अर्णवे । त्वा । सर्दने । सादयामि । समुद्रे ।
त्वा । सर्दने । सादयामि । सरिरे । त्वा । सर्दने । सादयामि । अपाम् । त्वा ।
क्षर्ये । सादयामि । अपाम् । त्वा । सधिषि । सादयामि । अपाम् । त्वा । सर्दने ।
सादयामि । अपाम् । त्वा । सधस्थ इति सधस्थे । सादयामि । अपाम् । त्वा ।
योनौ । सादयामि । अपाम् । त्वा । पुरीषे । सादयामि । अपाम् । त्वा । पार्थसि ।
सादयामि । गायत्रेण । त्वा । छन्दसा । सादयामि । त्रैष्टुभेन । त्रैस्तुभेनेति

त्रैऽस्तुभेन । त्वा । छन्दसा । सादयामि । जागतेन । त्वा । छन्दसा । सादयामि ।
 आनुष्टुभेन । आनुष्टुभेनेत्यानुऽस्तुभेन । त्वा । छन्दसा । सादयामि । पाङ्क्तैः ।
 त्वा । छन्दसा । सादयामि ॥ ५३ ॥

पदार्थः—(अपाम्) प्राणानां रक्षणे (त्वा) त्वाम् (एमन्) एति गच्छति तस्मिन्
 वायौ (सादयामि) स्थापयामि (अपाम्) जलानाम् (त्वा) (ओझन्) ओषधिषु
 (सादयामि) (अपाम्) प्राणानां काष्ठादीनाम् (त्वा) (भस्मन्) भस्मन्यध्रे । अत्र सर्वत्र
 सप्तमीलुक् (सादयामि) (अपाम्) व्याप्नुवतां विद्युदादीनाम् (त्वा) (ज्योतिषि)
 विद्युति (सादयामि) (अपाम्) अन्तरिक्षस्य (त्वा) (अयने) भूमौ (सादयामि)
 (अण्वे) प्रणे (त्वा) (सदने) स्थातव्ये (सादयामि) (समुद्रे) मर्नास (त्वा) (सदने)
 गन्तव्ये (सादयामि) सरिरे वाचि (त्वा) (सदने) प्राप्तव्ये (सादयामि) (अपाम्)
 प्राप्तव्यानां पदार्थानाम् (त्वा) (क्षये) चक्षुषि (सादयामि) (अपाम्) (त्वा)
 (सधिषि) समानान् शब्दान् शृणोति देन तस्मिन् श्रोत्रे (सादयामि) (अपाम्) (त्वा)
 (सदने) दिव (सादयामि) (अपाम्) (त्वा) (सधस्थे) अन्तरिक्षे (सादयामि)
 (अपाम्) (त्वा) (योनौ) रुमुद्रे (सादयामि) (अपाम्) (त्वा) (पुरीषे) सिकतासु
 (सादयामि) (अपाम्) (त्वा) (पार्थसि) अन्ने (सादयामि) (गायत्रेण) गायत्री-
 निर्मितेन (त्वा) (छन्दसा) स्वच्छेनार्थेन (सादयामि) (त्रैष्टुभेन) त्रैष्टुप्प्रोक्तेन (त्वा)
 (छन्दसा) (सादयामि) (जागतेन) जगन्मुक्तेन (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि)
 (आनुष्टुभेन) अनुष्टुप्प्रोक्तेन (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) (पाङ्क्तैः) पाङ्क्त-
 प्रकाशितेन (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) संस्थापयामि ॥ ५३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्य ! यथा शिक्षकोऽहमपामेमंस्त्रा सादयाम्यपामोश्चंस्त्वा
 सादयाम्यपां भस्मंस्त्रा सादयाम्यपां ज्योतिषि त्वा सादयाम्यपामयने त्वा सादयाम्यण्वे
 सदने त्वा सादयामि रुमुद्रे सदने त्वा सादयामि सरिरे सदने त्वा सादयाम्यपां क्षये त्वा
 सादयाम्यपां सधिषि त्वा सादयाम्यपां सदने त्वा सादयाम्यपां सधस्थे त्वा सादयाम्यपां
 योनौ त्वा सादयाम्यपां पुरीषे त्वा सादयाम्यपां पार्थसि त्वा सादयामि । गायत्रेण छन्दसा
 त्वा सादयामि त्रैष्टुभेन छन्दसा त्वा सादयामि जागतेन छन्दसा त्वा सादयाम्यानुष्टुभेन
 छन्दसा त्वा सादयामि पाङ्क्तैः छन्दसा त्वा सादयामि तथैव वर्तस्व ॥ ५३ ॥

भावार्थः—विद्वद्भिः सर्वान् पुरुषास्त्रियश्च वेदानध्याप्य जगत्स्थानां वाग्वादि-
 पदार्थानां विद्यासु निपुणीकृत्य तेभ्यः प्रयोजनसाधने प्रवर्तनीयाः ॥ ५३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! जैसे शिक्षा करने वाला मैं (अपाम्) प्राणों की रक्षा के निमित्त
 (एमन्) गमनशील वायु में (त्वा) तुझ को (सादयामि) स्थापित करता हूँ (अपाम्) जलों की
 (ओझन्) आर्द्रतायुक्त ओषधियों में (त्वा) तुझ को (सादयामि) स्थापन करता हूँ (अपाम्)
 प्राप्त हुए काष्ठों के (भस्मन्) राख में (त्वा) तुझ को (सादयामि) संयुक्त करता हूँ (अपाम्)
 व्याप्त हुए विजुली आदि अग्नि के (ज्योतिषि) प्रकाश में (त्वा) तुझ को (सादयामि) नियुक्त
 करता हूँ (अपाम्) अण्वकाश वाले (अयने) स्थान में (त्वा) तुझ को (सादयामि) बैठाता हूँ

(सदने) स्थिति के योग्य (अर्थात्) प्राणविद्या में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) संयुक्त करता हूँ (सदने) गमनशील (सपुत्रे) मन के विषय में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) सम्बद्ध करता हूँ (सदने) प्राप्त होने योग्य (सरिरे) वाणी के विषय में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) संयुक्त करता हूँ (अपाम्) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के सम्बन्धी (क्षये) घर में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) स्थापित करता हूँ (अपाम्) अनेक प्रकार के ध्यास शब्दों के सम्बन्धी (सधिषि) उस पदार्थ में कि जिससे अनेक शब्दों को समान यह जीव सुनता है अर्थात् कान के विषय में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) स्थित करता हूँ (अपाम्) जलों के (सदने) अन्तर्हितरूप स्थान में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) स्थापित करता हूँ (अपाम्) जलों के (सधस्थे) तुल्यस्थान में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) स्थापित करता हूँ (अपाम्) जलों के (योनौ) सर्द्र में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) नियुक्त करता हूँ (अपाम्) जलों की (पुरीषे) रंती में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) नियुक्त करता हूँ (अपाम्) जलों के (पाथसि) अन्न में (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) प्रेरणा करता हूँ (गायत्रेण) गायत्री छन्द से निकले (छन्दसा) स्वतन्त्र अर्थ के साथ (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) नियुक्त करता हूँ (त्रैष्टुभेन) त्रिष्टुप् मन्त्र से विरित (छन्दसा) शुद्ध अर्थ के साथ (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) नियुक्त करता हूँ (जागतेन) जगती छन्द में कहे (छन्दसा) आनन्ददायक अर्थ के साथ (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) नियुक्त करता हूँ (आतुष्टुभेन) आतुष्टुप् मन्त्र में कहे (छन्दसा) शुद्ध अर्थ के साथ (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) प्रेरणा करता हूँ और (पाङ्क्तेन) पङ्क्ति मन्त्र से प्रकाशित हुए (छन्दसा) निर्मल अर्थ के साथ (त्वा) तुम्ह को (सादयामि) प्रेरित करता हूँ वैसे ही तु वर्त्तमान रह ॥ २३ ॥

भाषार्थः—विद्वानों को चाहिये कि सब पुरुषों को और सब स्त्रियों को वेद पदा और जगत् के वायु आदि पदार्थों की विद्या में निपुण करके उन को उन पदार्थों से प्रयोजन साधने में प्रवृत्त करें ॥ २३ ॥

अयं पुर इत्यस्योशना ऋषिः । प्राणा देवताः । स्वराड् ब्राह्मी जगती छन्दः ।
निषादः स्वरः ॥

अथ मनुष्यैः सृष्टेः सकाशात् के क उपकारा ग्राह्या इत्याह ॥

अब मनुष्यों को सृष्टि से कौन २ उपकार लेने चाहियें
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री
वामन्ती गायत्र्यै गायत्रं गायत्रादुपांशुर्गोशोस्त्रिवृत् त्रिवृत्तो रथन्तरं
वसिष्ठऋषिः । प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५४ ॥

अयम् । पुरः । भुवः । तस्य । प्राणः । भौवायन इति भौवःआयनः ।
वसन्तः । प्राणायन इति प्राणःआयनः । गायत्री । वामन्ती । गायत्र्यै । गायत्रम् ।
गायत्रात् । उपांशुर्गोशुः । उपांशोस्तियुपःशुः । उपांशोस्तियुपःशुः । त्रिवृदिति

त्रिवृत् । त्रिवृत् इति त्रिवृतः । रथन्तरमिति रथमस्तरम् । वसिष्ठः । ऋषिः । प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापतिगृहीतया । त्वया । प्राणम् । गृह्णामि । प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५४ ॥

पदार्थः—(अयम्) अग्निः (पुरः) पूर्वम् (भुवः) यो भवति सः (तस्य) (प्राणः) येन प्राणिति सः (भौवायनः) भुवेन सता रूपेण कारणेन निर्वृत्तः (वसन्तः) यः सुगन्धादिभिर्वासयति (प्राणायनः) प्राणा निर्वृत्ता यस्मात् (गायत्री) या गायन्तं प्रायते सा (वासन्ती) वसन्तस्य व्याख्यात्री (गायत्र्यै) गायत्र्याः । अत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी (गायत्रम्) गायत्र्येव छन्दः (गायत्रात्) (उपांशुः) उपगृहीता (उपांशोः) (त्रिवृत्) यस्मिभिः कर्मोपासनाज्ञानैर्वर्त्तते सः (त्रिवृतः) (रथन्तरम्) यद्रथै रमणीयैस्तारयति तत् (वसिष्ठः) अतिशयेन वासयिता (ऋषिः) प्रापको विद्वान् (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापतिगृहीतो यया स्त्रिया तया (त्वया) (प्राणम्) बलयुक्तं जीवनम् (गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ॥ ५४ ॥

अन्वयः—हे स्त्रि ! यथाऽयं पुरो भुवोऽग्निस्तस्य भौवायनः प्राणः प्राणायनो वसन्तो वासन्ती गायत्री गायत्र्यै गायत्रं गायत्रादुपांशुरुपांशोस्त्रिवृत्त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिश्च प्रजापतिगृहीतया त्वया सह प्रजाभ्यः प्राणं गृह्णामि तथा त्वया साकमहं प्रजाभ्यो बलं गृह्णामि ॥ ५४ ॥

भावार्थः—स्त्रीपुरुषा अग्न्यादिपदार्थानामुपयोगं कृत्वा परस्परं प्रीत्याऽतिविषय-सक्तिं विहाय सर्वस्वाज्जगतो बलं संगृह्य प्रजा उत्पाद्याः ॥ ५४ ॥

पदार्थः—हे स्त्रि ! जैसे (अयम्) यह (पुरो भुवः) प्रथम होने वाला अग्नि है (तस्य) उसका (भौवायनः) सिद्ध कारण से रचा हुआ (प्राणः) जीवन का हेतु प्राण (प्राणायनः) प्राणों की रचना का हेतु (वसन्तः) सुगन्धि आदि में वसाने हारा वसन्त ऋतु (वासन्ती) वसन्त ऋतु का जिस में व्याख्यान हो वह (गायत्री) गाते हुए का रत्नक गायत्रीमंत्रार्थ ईश्वर (गायत्र्यै) गायत्री मन्त्र का (गायत्रम्) गायत्री छन्द (गायत्रात्) गायत्री से (उपांशुः) समीप से ग्रहण किया जाय (उपांशोः) उस जप से (त्रिवृत्) कर्म उपासना और ज्ञान के सहित वर्त्तमान फल (त्रिवृतः) उस तीन प्रकार के फल से (रथन्तरम्) रमणीय पदार्थों से तारने हारा सुख और (वसिष्ठः) अतिशय करके निवास का हेतु (ऋषिः) सुख प्राप्त कराने हारा विद्वान् (प्रजापतिगृहीतया) अपने सन्तानों के रत्नक पति को ग्रहण करने वाली (त्वया) तेरे साथ (प्रजाभ्यः) सन्तानोत्पत्ति के लिये (प्राणम्) बलयुक्त जीवन का ग्रहण करते हैं वैसे तेरे साथ मैं सन्तान होने के लिये बल का (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ ॥ ५४ ॥

भावार्थः—हे स्त्री पुरुषो ! तुम को योग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों को उपयोग में ला के परस्पर प्रीति के साथ अति विषयसेवा को छोड़ और सब संसार से बल का ग्रहण करके सन्तानों को उत्पन्न करो ॥ ५४ ॥

अयं दक्षिणेत्यस्योशना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचृद्भुरिगतिधृतिरछन्दः ।
षड्जः स्वरः ॥

अथ मनुष्यैर्ग्रीष्मऋतौ कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

अब मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु में कैसे वर्तना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्माणं ग्रीष्मो मानस-
स्त्रिष्टुब् ग्रैष्मी त्रिष्टुभः स्वारम् । स्वारादन्तर्यामोऽन्तर्यामात्पञ्चदशः
पञ्चदशाद् बृहद् भरद्वाजः ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया मनो
गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥

अयम् । दक्षिणा । विश्वकर्मेति विश्वकर्मा । तस्य । मनः । वैश्वकर्माणमिति
वैश्वकर्माणम् । ग्रीष्मः । मानसः । त्रिष्टुप् । त्रिस्तुविति त्रिस्तुप् । ग्रैष्मी । त्रिष्टुभः ।
त्रिस्तुभ इति त्रिस्तुभः । स्वारम् । स्वारात् । अन्तर्याम इत्यन्तःस्यामः । अन्तर्या-
मादित्यन्तःस्यामात् । पञ्चदश इति पञ्चदशः । पञ्चदशादिति पञ्चदशात् ।
बृहत् । भरद्वाज इति भरतुस्वाजः । ऋषिः । प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापतिगृहीतया ।
त्वया । मनः । गृह्णामि । प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥

पदार्थः—(अयम्) वायुः (दक्षिणा) दक्षिणतः (विश्वकर्मा) विश्वान्यखिलानि
कर्माणि यस्मान्सः (तस्य) वायोः (मनः) मननशीलं प्रेरकं कर्म (वैश्वकर्माणम्)
यस्माद्विश्वानि निर्वृतानि भवन्ति तत् (ग्रीष्मः) यो रसान् ग्रसते सः (मानसः) मनस
ऊष्मेव वर्तमानः (त्रिष्टुप्) छन्दः (ग्रैष्मी) ग्रीष्मर्तुव्याख्यात्री ऋक् (त्रिष्टुभः) छन्दसः
(स्वारम्) तापाज्जातं तेजः (स्वारात्) (अन्तर्यामः) अन्तर्मध्ये यामाः प्रहरा यस्मिन्समये
सः (अन्तर्यामात्) (पञ्चदशः) पञ्चदशानां तिथीनां पूरकः (स्तोमः) (पञ्चदशात्)
(बृहत्) महान् (भरद्वाजः) वाजोऽन्नं विज्ञानं वा विभर्ति येन श्रोत्रेण तत् (ऋषिः)
विज्ञापकः (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (मनः) मननात्मकविज्ञानयुक्तं चित्तम्
(गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ॥ ५५ ॥

अन्वयः—हे स्त्रि ! यथा दक्षिणाऽयं विश्वकर्मा वायुरिवास्ति तस्य वैश्वकर्माणं
मनो मानसो ग्रीष्मो ग्रैष्मी त्रिष्टुप् त्रिष्टुभः स्वारं स्वारादन्तर्यामोऽन्तर्यामात्पञ्चदशः
पञ्चदशाद् बृहद्भरद्वाज ऋषिः प्रजापतिगृहीतया विद्यया सह राजा प्रजाभ्यो मनो गृह्णाति
तथा त्वया साकमहं विश्वस्माद्विज्ञानं गृह्णामि ॥ ५५ ॥

भावार्थः—स्त्रीपुरुषैः प्राणस्य मनो नियन्तु मनसश्च प्राणो नियन्तेति विदित्वा
प्राणायामान् मनःशुद्धिं संपादयद्भिरखिलायाः सृष्टेः पदार्थविज्ञानं स्वीकार्यम् ॥ ५५ ॥

पदार्थः—हे स्त्री ! जैसे (दक्षिणा) दक्षिण दिशा से (अयम्) यह (विश्वकर्मा) सब कर्मों का निमित्त वायु के समान विद्वान् चलता है (तस्य) उस वायु के योग से (वैश्वकर्मणम्) जिस से सब कर्म सिद्ध होते हैं वह (मनः) विचारस्वरूप प्रेरक मन (मनसः) मन की गर्मी से उत्पन्न के तुल्य (ग्रीष्मः) रसों का नाशक ग्रीष्म ऋतु (ग्रीष्मी) ग्रीष्म ऋतु के व्याख्यान वाला (त्रिष्टुप्) त्रिष्टुप् छन्द (त्रिष्टुभः) त्रिष्टुप् छन्द के (स्वारम्) ताप से हुआ तेज (स्वारात्) और तेज से (अन्तर्यामः) मध्याह्न के प्रहर में विशेष दिन और (अन्तर्यामात्) मध्याह्न के विशेष दिन से (पञ्चदशः) पन्द्रह तिथियों की पूरक स्तुति के योग्य पूर्णमासी (पञ्चदशात्) उस पूर्णमासी से (बृहत्) बड़ा (भरद्वाजः) अन्न वा विज्ञान की पुष्टि और धारण का निमित्त (ऋषिः) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा कान (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति राजा ने ग्रहण की विद्या से न्याय का ग्रहण करता है वैसे मैं (त्वया) तेरे साथ (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (मनः) विचारस्वरूप विज्ञान-युक्त चित्त का ग्रहण विज्ञान का (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ ॥ ५५ ॥

भावार्थः—स्त्री पुरुषों को चाहिये कि प्राण का मन और मन का प्राण नियम करने वाला है ऐसा जान के प्राणायाम से आत्मा को शुद्ध करते हुए पुरुषों से सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान स्वीकार करें ॥ ५५ ॥

अयं पश्चादित्यस्योशना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचृद् धृतिरछन्दः ।

षड्जः स्वरः ॥

अथ स्त्रीपुरुषौ मिथः कथमाचरेतामित्याह ॥

अब स्त्री पुरुष आपस में कैसा आचरण करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

अयं पश्चाद् विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसं वर्षाश्चाक्षुष्यो जगती वर्षा जगत्याऽऋक्समम् । ऋक्समाच्छुक्रः शुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्वैरूपं जमदग्निर्ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५६ ॥

अयम् । पश्चात् । विश्वव्यचा इति विश्वव्यचाः । तस्य । चक्षुः । वैश्वव्यच-समित्तिं वैश्वव्यचसम् । वर्षाः । चाक्षुष्यः । जगती । वर्षा । जगत्याः । ऋक्सममित्यृक्समम् । ऋक्समादित्यृक्समात् । शुक्रः । शुक्रात् । सप्तदश इति सप्तदशः । सप्तदशादिति सप्तदशात् । वैरूपम् । जमदग्निरिति जमत्स्रग्निः । ऋषिः । प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापतिगृहीतया । त्वया । चक्षुः । गृह्णामि । प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५६ ॥

पदार्थः—(अयम्) आदित्यः (पश्चात्) पश्चिमायां दिशि वर्तमानः (विश्वव्यचाः) विश्वं व्यचति प्रकाशेनाभिव्याप्य प्रकटयति सः (तस्य) सूर्यस्य (चक्षुः) नयनम्

(वैश्वव्यचसम्) प्रकाशकम् (वर्षाः) यासु मेघा वर्षन्ति ताः (चाक्षुष्यः) चक्षुष इमा दर्शनीयाः (जगती) जगद्गता (वार्षी) वर्षाणां व्याख्यात्री (जगत्याः) (ऋक्समम्) ऋचः सन्ति संभजन्ति येन तत्साम (ऋक्समात्) (शुक्रः) पराक्रमः (शुक्रात्) वीर्यात् (सप्तदश) सप्तदशानां पूरकः (सप्तदशात्) (वैरूपम्) विविधानि रूपाणि यस्मात्तस्येदम् (जमदग्निः) प्रज्वलिताग्निर्नयनम् (ऋषिः) रूपप्रापकः (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (चक्षुः) (गृह्णामि) (प्रजाभ्यः) ॥ ५६ ॥

अन्वयः—हे वरानने ! यथाऽयमादित्य इव विद्वान् विश्वव्यचाः सन् पश्चादादित्यस्तस्य वैश्वव्यचसं चक्षुश्चाक्षुष्यो वर्षा वार्षी जगती जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छुक्रः शुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्वैरूपं यथा च जमदग्निर्ऋषिः प्रजापतिगृहीतया सह प्रजाभ्यश्चक्षुर्गृह्णाति तथाऽहं त्वया साकं संसाराद् बलं गृह्णामि ॥ ५६ ॥

भावार्थः—दम्पतिभ्यां सामवेदाध्ययनेन सूर्यादिप्रसिद्धं जगदर्थतो विज्ञाय सर्वस्याः सृष्टेः सुदर्शनचरित्रे संग्राह्ये ॥ ५६ ॥

पदार्थः—हे उत्तम मुख वाली स्त्री ! जैसे (अयम्) यह सूर्य के समान विद्वान् (विश्वव्यचाः) सब संसार को चारों ओर के प्रकाश से व्यापक होकर प्रकट करता (पश्चात्) पश्चिम दिशा में वर्तमान (तस्य) उस सूर्य का (वैश्वव्यचसम्) प्रकाशक किरणरूप (चक्षुः) नेत्र (चाक्षुष्यः) नेत्र से देखने योग्य (वर्षाः) जिस समय मेघ वर्षते हैं वह वर्षाऋतु (वार्षी) वर्षा ऋतु के व्याख्यान वाला (जगती) संसार में प्रसिद्ध जगती छन्द (जगत्याः) जगती छन्द से (ऋक्समम्) ऋचाओं के सेवन का हेतु विज्ञान (ऋक्समात्) उस विज्ञान से (शुक्रः) पराक्रम (शुक्रात्) पराक्रम से (सप्तदशः) सत्रह तत्वों का पूरक विज्ञान (सप्तदशात्) उस विज्ञान से (वैरूपम्) अनेक रूपों का हेतु जगत् का ज्ञान और जैसे (जमदग्निः) प्रकाशस्वरूप (ऋषिः) रूप का प्राप्त कराने हारा नेत्र (प्रजापतिगृहीतया) सन्तानरक्षक पति ने ग्रहण की हुई विषायुक्त स्त्री के साथ (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (चक्षुः) विषा-रूपी नेत्रों का ग्रहण करता है वैसे मैं तेरे साथ संसार से बल को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ ॥ ५६ ॥

भावार्थः—स्त्री पुरुषों को चाहिये कि सामवेद के पढ़ने से सूर्य आदि प्रसिद्ध जगत् को स्वभाव से जान के सब सृष्टि के गुणों के दृष्टान्त से अच्छा देखें और चरित्र ग्रहण करें ॥ ५६ ॥

इदमुत्तरादित्यस्योशना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराड्ब्राह्मी त्रिष्टुप्छन्दः ।

धैवतः स्वरः ॥

अथ शरदृतौ कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

अथ शरद् ऋतु में कैसे वर्त्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इदमुत्तरात् स्वस्तस्य ओन्नं३ मौव३ शरद्वैत्र्यनुष्टुप् शारद-
नुष्टुभंऽएडमैडान् मन्थी मन्थिनंऽएकत्रिंशदं३कत्रिंशद् वैराजं विश्वा-
मिन्द्रऽऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया ओन्नं गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥

इदम् । उत्तरात् । स्वरिति स्वः । तस्य । श्रोत्रम् । सौवम् । शरत् । श्रौत्री ।
 अनुष्टुप् । अनुस्तुवित्यनुस्तुप् । शारदी । अनुष्टुभः । अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभः ।
 ऐडम् । ऐडात् । मन्थी । मन्थिनः । एकविंश इत्येकविंशः । एकविंशादित्येक
 कविंशात् । वैराजम् । विश्वामित्रः । ऋषिः । प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापतिगृहीतया ।
 त्वया । श्रोत्रम् । गृह्णामि । प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥

पदार्थः—(इदम्) (उत्तरात्) सर्वेभ्य उत्तरम् (स्वः) सुखसंपादकदिग्रूपम्
 (तस्य) (श्रोत्रम्) कर्णम् (सौवम्) स्वः सुखस्येदं साधनम् (शरत्) शृणाति येन सा
 (श्रौत्री) श्रोत्रस्येयं संबन्धिनी (अनुष्टुप्) (शारदी) शरदो व्याख्यात्री (अनुष्टुभः)
 (ऐडम्) इडाया वाचो व्याख्यात्री (साम) (ऐडात्) (मन्थी) पदार्थानां मन्थनसाधनः
 (मन्थिनः) (एकविंशः) एकविंशतेर्विद्यानां पूरकः (एकविंशत्) (वैराजम्)
 विविधानां पदार्थानामिदं प्रकाशकम् (विश्वामित्रः) विश्वं मित्रं येन भवति सः (ऋषिः)
 शब्दप्रापकः (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (श्रोत्रम्) शृणोति येन तत् (गृह्णामि)
 (प्रजाभ्यः) प्रजाताभ्यो विद्युदादिभ्यः ॥ ५७ ॥

अन्वयः—हे सुभगे ! यथेदमुत्तरात्स्वस्तस्य सौवं श्रोत्रं श्रौत्री शरच्छारद्यनुष्टुव-
 अनुष्टुभ ऐडमैडान्मन्थी मन्थिन एकविंश एकविंशाद्वैराजं साम प्राप्तो विश्वामित्र ऋषिश्च
 प्रजाभ्यः श्रोत्रं गृह्णामि तथा प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं प्रजाभ्यः श्रोत्रं गृह्णामि ॥ ५७ ॥

भावार्थः—ब्रह्मचर्येणाधीतविद्यो कृतविवाहो स्त्रीपुरुषौ बहुश्रुतौ भवेताम् ।
 नद्यातानां सकाशाच्छ्रवणेन विना पठितापि विद्या फलवती जायते । तस्मात्सदा श्रुत्वा
 सत्यं धरेतामसत्यं त्यजेताम् ॥ ५७ ॥

पदार्थः—हे सौभाग्यवती ! जैसे (इदम्) यह (उत्तरात्) सब से उत्तर भाग में (स्वः)
 सुखों का साधन दिशारूप है (तस्य) उस के (सौवम्) सुख का साधन (श्रोत्रम्) कान (श्रौत्री)
 कान की सम्बन्धी (शरत्) शरदत्तु (शारदी) शरद् ऋतु के व्याख्यान बाला (अनुष्टुप्) प्रबद्ध अर्थ
 बाला अनुष्टुप् छन्द (अनुष्टुभः) उस से (ऐडम्) वाणी के व्याख्यान से युक्त मन्त्र (ऐडात्) उस
 मन्त्र से (मन्थी) पदार्थों के मथने का साधन (मन्थिनः) उस साधन से (एकविंशः) इक्कीस
 विद्याओं का पूर्ण करने हारा सिद्धान्त (एकविंशात्) उस सिद्धान्त से (वैराजम्) विविध पदार्थों के
 प्रकाशक (साम) सामवेद के ज्ञान को प्राप्त हुआ (विश्वामित्रः) सब से मित्रता का हेतु (ऋषिः)
 शब्द ज्ञान कराने हारा कान और (प्रजाभ्यः) उत्पन्न हुई बिजुली आदि के लिये (श्रोत्रम्) सुनने के
 साधन को ग्रहण करते हैं वैसे (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साथ में
 प्रसिद्ध हुई बिजुली आदि से (श्रोत्रम्) सुनने के साधन कान को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ ॥ ५७ ॥

भावार्थः—स्त्री पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य के साथ विद्या पढ़ और विवाह करके बहुश्रुत
 हों । और सत्यवक्ता आस जनों से सुने विना पढ़ी हुई भी विद्या फलदायक नहीं होती इसलिये सदैव
 सजनों का उपदेश सुन के सत्य का धारण और मिथ्या को छोड़ दें ॥ ५७ ॥

इयमुपरीत्यस्योशना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विराडाकृतिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ हेमन्ते कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

अब हेमन्त ऋतु में किस प्रकार वक्तें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

इयमुपरि मतिस्तस्यै वाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिर्हेमन्ती
पङ्क्त्यै निधनवन्निधनवतः आग्रयणः । आग्रयणात् त्रिणवत्रय-
स्त्रिंशौ त्रिणवत्रयस्त्रिंशाभ्यां शक्ररैवते विश्वकर्माऽऋषिः
प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥

इयम् । उपरि । मतिः । तस्यै । वाक् । मात्या । हेमन्तः । वाच्यः ।
पङ्क्तिः । हेमन्ती । पङ्क्त्यै । निधनवदिति निधनवत् । निधनवत् इति
निधनवतः । आग्रयणः । आग्रयणात् । त्रिणवत्रयस्त्रिंशौ । त्रिनवत्रयस्त्रिंशविति
त्रिनवत्रयस्त्रिंशौ । त्रिणवत्रयस्त्रिंशाभ्याम् । त्रिनवत्रयस्त्रिंशाभ्यामिति त्रिनव-
त्रयस्त्रिंशाभ्याम् । शाक्ररैवते इति शाक्ररैवते । विश्वकर्मेति विश्वकर्मा । ऋषिः ।
प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापतिगृहीतया । त्वया । वाचम् । गृह्णामि । प्रजाभ्य
इति प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥

पदार्थः—(इयम्) (उपरि) सर्वोपरि विराजमाना (मतिः) प्रज्ञा (तस्यै)
तस्याः (वाक्) वक्ति यया सा । अत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी (मात्या) मतेर्भावः कर्म वा
(हेमन्तः) हन्त्युष्णतां येन सः । अत्र हन्तेर्हि मुद च ॥ ७० ३ । १ । २७ ॥ (वाच्यः) वाचो
भावः कर्म वा (पङ्क्तिः) छन्दः (हेमवती) हेमो व्याख्यात्री (पङ्क्त्यै) पङ्क्त्याः
(निधनवत्) निधनं प्रशस्तं मृत्युव्याख्यानं विद्यते यस्मिंस्तत्साम (निधनवतः)
(आग्रयणः) अङ्गति प्राप्नोति येन तस्यायम् (आग्रयणात्) (त्रिणवत्रस्त्रिंशौ) त्रिनवं च
त्रयस्त्रिंशं च ते सास्त्री (त्रिनवत्रयस्त्रिंशाभ्याम्) (शाक्ररैवते) शक्तिधनप्रतिपादके
(विश्वकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य सः (ऋषिः) वेदार्थवेत्ता (प्रजापतिगृहीतया)
(त्वया) (वाचम्) विद्यासुशिक्षान्वितां वाणीम् (गृह्णामि) प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ अत्र
लोकान्ता इन्द्रमिति द्वादशाध्यायस्थानां त्रयाणां मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दृष्ट्वा
केनचिद्धृतानि शतपथेऽव्याख्यातत्वाद् अत्र न गृह्यन्ते ॥ ५८ ॥

अन्वयः—हे त्रिदुषि पति ! य इयमुपरि मतिस्तस्यै मात्या वाग्वाच्यो हेमन्तो
हेमन्ती पङ्क्तिः पङ्क्त्यै निधनवन्निधनवत आग्रयण आग्रयणात् त्रिणवत्रयस्त्रिंशौ
त्रिणवत्रयस्त्रिंशाभ्यां शाक्ररैवते विदित्वा विश्वकर्माभिर्वर्तते तथाहं प्रजापतिगृहीतया त्वया
सहाऽहं प्रजाभ्यो वाचं गृह्णामि ॥ ५८ ॥

भावार्थः—पतिपत्नीभ्यां विदुषां वाचं कृत्वा प्रज्ञा वर्द्धनीया तथा हेमन्तर्तुं कृत्यं सामानि च विदित्वा महर्षिवद्वर्तित्वा विद्यासुशिक्षासंस्कृतां वाचं स्वीकृत्य प्रजाभ्योऽप्येताः सदोपदेश्यन्ति ॥ ५८ ॥

अग्नेश्वरजायापतिव्यवहारस्य प्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति वेदितव्यम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निमित्ते संस्कृतभाषाऽऽर्यभाषाभ्यां विभूषते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् स्त्री ! जो (इयम्) यह (उपरि) सब से ऊपर विराजमान (मतिः) बुद्धि है (तस्यै) उस (मात्या) बुद्धि का होना वा कर्म (वाक्) वाणी और (वाच्यः) उस का होना वा कर्म (हेमन्तः) गर्मी का नाशक हेमन्त ऋतु (हैमन्ती) हेमन्त ऋतु के व्याख्यान वाला (पङ्क्तिः) पङ्क्ति छन्द (पङ्क्त्यै) उस पङ्क्ति छन्द का (निधनवत्) मृत्यु का प्रशंसित व्याख्यान वाला सामवेद का भाग (निधनवतः) उससे (आग्रयणः) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल (आग्रयणात्) उससे (त्रिणवत्र्यक्षिणौ) बारह और तैंतीस सामवेद के स्तोत्र (त्रिणवत्र्यक्षिणाभ्याम्) उन स्तोत्रों से (शाक्नरैवते) शक्ति और धन के साधक पदार्थों को जान के (विश्वकर्मा) सब सुकर्मों के सेवने वाला (ऋषिः) वेदार्थ का वक्ता पुरुष वर्त्तता है वैसे मैं (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साथ (प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये (वाचम्) विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त वाणी को (गृह्णामि) ग्रहण करता हूँ ॥ ५८ ॥

भावार्थः—स्त्रीपुरुषों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षारूप वाणी को सुन के अपनी बुद्धि बढ़ावें उस बुद्धि से हेमन्त ऋतु में कर्त्तव्य कर्म और सामवेद के स्तोत्रों को जान महात्मा ऋषि लोगों के समान वक्तव्य कर विद्या और अच्छी शिक्षा से शुद्ध की वाणी का स्वीकार करके अपने सन्तानों के लिये भी इन वाणियों का उपदेश सदैव किया करें ॥ ५८ ॥

इस अध्याय में ईश्वर, स्त्रीपुरुष और व्यवहार का वर्णन करने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्ण अध्याय के अर्थ के साथ संगति जानो ॥

यह यजुर्वेदभाष्य का तेरहवां (१३) अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥